

॥ श्रीः ॥

ज्ञानवैराग्यप्रकाश

(भाषावेदान्त)

जिसको

मुमुक्षुपुरुषोंके कल्याणार्थ कारीनिवासी स्वामी परमानन्द
परमहंसने निर्माण किया है. (जिसके देखनेसे विषयी
पुरुषोंका भी चित्त संसारसे उपरामको प्राप्त
हो जाता है, तब वैराग्यवानोंकी
कौन कथा है ?)

वही

खेमराज श्रीकृष्णदासने

बम्बई

निज " श्रीवेङ्कटेश्वर " स्टीम-मुद्रणयन्त्रालयमें
मुद्रितकर प्रसिद्ध किया ।

संवत् १९७७, शक १८४२.

सर्वाधिकार " श्रीवेङ्कटेश्वर " यन्त्रालयाधीन
स्वाधीन रक्खा है ।

यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्बई, खेतवाड़ी ७ वीं गली खन्नाटा
लैन, स्वकीय " श्रीवेङ्कटेश्वर " स्टीम्-प्रेसमें अपने लिये छापकर यहीं
प्रकाशित किया ।

भूमिका ।



यह वार्ता तो सर्व पुरुषोंके अनुभव करके सिद्ध है, जो यह संसार महान् दुःखरूप है । और इसमें रहकरके बड़े २ महान् पुत्रोंका भी दुःख हुआ है फिर इतर जीवोंकी कौन कथा है ? जो कि, अवतार कहलाये हें उनको भी इसमें केश हुआ है और उन्होंने भी इसको दुःखरूप करके कहा है । तिसमें भी जो कि, पुन. पुन. जन्म होना और मरण होना है यह असह्य दुःख है । फिर बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था अर्थात् तीनों अवस्थाएं दुःखरूप हैं । और भी शारीरिक और मानसिक दुःख अनंत हैं अर्थात् दुःखोंकी खान है या दुःखोंका एक महान् समुद्र है । इससे तरनेके लिये एक आत्मज्ञान ही साधन है, वह आत्मज्ञान बिना वैराग्यके किसीको भी प्राप्त नहीं होता है. और बिना वैराग्यके किसीको भी सुख नहीं मिलता है और न पूर्व हुआ है और न आगे होगा । इसलिये वैराग्यका स्वरूप जानना और वैराग्यवानोंके इतिहासोंको जानने और सुननेकी आवश्यकता है । क्योंकि बिना वैराग्यके चित्तकी स्थिरता भी नहीं होती है । और वैराग्यके प्रभावसेही अनेक पुरुष आत्मज्ञानको प्राप्त हुए हैं और वैराग्यही आत्मज्ञानके साधनोंमें मुख्य साधन है और संसारमें वैराग्यवान् यति हो या गृहस्थ हो किसी आश्रममें वा किसी वर्णमें हो उसीकी प्रतिष्ठा और कीर्ति होती है, रागवान्की नहीं होती है । दत्तात्रेय, जडभरतादिक और भर्तृहरि आदिक सब वैराग्यके प्रभावसेही पूज्य होगये हैं और इदानीकालमें भी वैराग्यवान्ही जहां तहां पूजा जाता है । इसलिये विज्ञानसु पुरुषोंके अवलोकन करनेके लिये इस ग्रन्थकी रचना की गई है । ८०

(४)

भूमिका ।

(अस्सी) इतिहास वैराग्यवानोंके दृष्टांतके लिये इस ग्रन्थमें लिखे गये हैं । और ९१ (एक ऊपर पचास) इतिहास ज्ञानवानोंके दृष्टांतके लिये इस ग्रन्थमें लिखे गये हैं और जीव ईश्वरके निर्णयमे बहुतसे मत दिखाये हैं और अज्ञानका स्वरूपभी मर्लमातिसे दिखाया गया है, मुमुक्षुओंको उचित है कि, इस ग्रन्थको अवश्य देखे । यह ग्रन्थ मुमुक्षुओंके लाभार्थ मैंने बड़े परिश्रमसे निर्माणकर मुम्बईस्थ परम माननीय ग्रन्थोद्धारक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष "श्रीवेंकटेश्वर" स्टीम्-मुद्रणालयको पुनर्मुद्रणादि सर्व हक समेत अर्पण किया है । ॐ शान्तिः ॥

द० स्वामी परमानन्दजी-





ज्ञानवैराग्य प्रकाश

(भाषा वेदान्त)

प्रथम किरण

मंगलाचरण ।

दोहा-नमो नमो तेहि रूपको, आदि अन्त जेहि नाहिं ।
सो साक्षी मम रूप है, घाट बाढ कहुँ नाहिं ॥ १ ॥
अविगत अविनाशी अचल, व्याप रह्यो सब थाहिं ।
जो जानै अस रूपको, मिटै जगत भ्रम ताहिं ॥ २ ॥
हंसदास गुरुको प्रथम, प्रणवों बारंबार ।
नाम लेत जेहि तम मिटै, अष होवत सब छार ॥ ३ ॥

चौपाई ।

परमानंद मम नाम पछानो । उदासीन मम पथको जानो ॥
रामदास मम गुरुके गुरु हैं । आतमवित्त जो मुनिवर मुनि हैं ॥ ४ ॥

दोहा ।

परसराम, मम नगर है, सिन्धु नदी उस पार ।
भारत मण्डलके विषे, जानै सब संसार ॥ ५ ॥
ज्ञानवैराग्यप्रकाशक, ग्रन्थ नाम अस जान ।
जे अवलोकन येहि करै, सोई चतुर सुजान ॥ ६ ॥
जन्म मरण दुख नाश हित, जानेही बुधिमान् ।
जो धारण इसको करै, पावै पद निर्वानं ॥ ७ ॥

ग्रन्थारम्भ ।

बड़ा महात्मा और विरक्त विवेकाश्रम नामवाला एक सन्यासी बहुत अपने निवासके योग्य मठका तलाश करता था, तलाश करते करते उस इस ससारमे एक कम चौरासी लाख मठको देखा, उनमेंसे किसी मठको उसने अपने निवासके योग्य न देखा । तब वह बड़ी चिंता करके आगु हुआ और एक देशमे बैठकर विचार करने लगा । विना एकात्ममें निवास करनेसे परमार्थका चितन होना कठिन है और ऐसा कोई निर्दोष रमणीक स्थान भी नहीं मिलता है जिसमे बैठकर आत्माका विचार किया जाय और ध्यान धारणादिक सब किये जाय । इसी सोचमे वह पडा था कि, इतनेमें एक बड़ा सुन्दर मठ उसको दिखाई पडा । कैसा वह मठ है ? दो हैं नीचे खम्भे जिसके और नव हैं द्वार जिसमे और स्वेच्छाचारी भी है और अनेक प्रकारकी दिव्य रचना करके जो विभूषित है देखनेमें भी जो कि बड़ा सुन्दर है, तिस मठको देखकरके विवेकाश्रमका मन अति प्रसन्न हुआ और अपने निवासके योग्य जानकर तिसमे विवेकाश्रमने अपना आसन लगा दिया । आसन लगानेके पश्चात् विवेकाश्रम क्या देखते हैं कि नवीन अवस्थावाली बड़ी सुन्दर रूपवाली एक स्त्री हाथमें कमलका फूल लिये हुए वहांपर आकरके खड़ी होगई और नेत्रोके कटाक्षसे वह विवेकाश्रमकी तरफ देखने लगी । तिस स्त्रीको देखकर विवेकाश्रम बड़े दुःखी होकर कहने लगे, हमने मठका खोजमे महा कष्टोंको उठाया है और बड़ाभारी परिश्रम किया है तब हमका निवासके योग्य यह मठ मिला है, तिसमे यह महान् विघ्नरूप सम्पूर्ण अनर्थोंक कारण स्त्रीरूपी पिशाची कहींसे आकर हमारे सम्मुख खड़ी होगई है । मोक्ष मार्गकी तो यह शत्रुरूपही है, इसी वास्ते यतीको स्त्रीके दर्शनका भी निषेध किया है ॥ अद्वैतामृतवपिणी—

जिताहारोऽथवा वृद्धो विरक्तो व्याधितोपि वा ।

यतिर्न गच्छेत्तं देशं यत्र स्यात्प्रतिमा स्त्रियः ॥ १ ॥

यति जिताहार हो, अथवा वृद्ध हो, या विरक्त हो, वा रोगकरके पीडित हो, तब भी उस देशमें न जाय जहापर स्त्रीकी मूर्ति भी लिखी हुई हो ॥१॥

प्रथम किरण ।

धर्मशास्त्रम् ।

संभाषयेत्स्त्रियं नैव पूर्वदृष्टां च न स्मरेत् ।
कथां च वर्जयेत्तासां नो पश्येद्विखितामपि ॥ २ ॥

यति स्त्रीके साथ संभाषण न करे और पहलेको देखी हुईका मनमें स्मरण भी न करे और स्त्रियोंकी कथाओंको भी न करे और लिखी हुई स्त्रीकी मूर्तिको भी न देखे ॥ २ ॥

यस्तु प्रव्रजितो भूत्वा पुनः सेवेतु मैथुनम् ।
षष्टिवर्षसहस्राणि विद्यायां जायते कृमिः ॥ ३ ॥

जो संन्यासी होकर फिर स्त्रीके साथ मैथुनको करता है वह साठ हजार वर्ष विद्यामें कृमिको योनिको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

विषयासक्तचित्तो हि यतिर्मोक्षं न विन्दति ।
यत्नेन विषयासक्तिं तस्माद्योगी विवर्जयेत् ॥ ४ ॥

जिस यतिका चित्त विषयोंमें आसक्त रहता है वह यति मोक्षको कदापि नहीं प्राप्त होता है । इसलिये यति यत्न करके विषयासक्तिसे चित्तको हटावे ॥ ४ ॥

ऐसे ऐसे धर्मशास्त्रके वाक्योंका विचार करके फिर विवेकाश्रम अपने मनमें कहते हैं—यदि यह सुन्दरी इस जगहमें रह जायगी तब हमारा छोटा भाई जो वैराग्य आश्रम है, वह कैसे यहांपर रहेगा ? वह तो बड़ा भीरु है, स्त्रीकी परछाईसे भाग जाता है । और जो कि शमदमादिक संन्यासी है वह कैसे इसके साथ सहवास करेगा ? किन्तु कदापि नहीं करेंगे । और फिर मुमुक्षामी यहांपर नहीं आवेगी । इन सबके न आनेसे संसारमें मुक्तिकी रेखा भी उच्छिन्न होजायगी । इसलिये इसको यहांसे निकालनेका कोई उपाय करना चाहिये । ऐसा विचारके फिर विवेकाश्रम यह विचार करते हैं, प्रथम इससे पूछना चाहिये कि तू कौन है और क्यों यहांपर आई है ? सौ दूसरा आदमी तो इदानीकालमें इस स्थानमें है नहीं जो कि इससे बातचीत करे इसलिये हमहीं इससे बूझते हैं । विवेकाश्रम कहते हैं—हे लड़ने ! तू कौन है और, किसकी है और

कहाँसे तू आई है, क्या तुम्हारा प्रयोजन है, यहापर तू अब रहेगी या चली जायगी ? विवेकाश्रमके ऐसे मधुर वचनोंको सुनकर वह ललना हँसकरके बोली । हे विवेकाश्रम ! तू मेरेको नहीं जानता है, मैं तेरी बड़ी भगिनी हूँ. चित्तवृत्ति मेरा नाम है, मेरेको तू इसवास्ते नहीं जानता है जो तू मेरेसे पीछे पैदा हुआ है और संसारमण्डलमे भ्रमण करके जिन २ मठोंको तूने त्याग दिया है अपने निवासके योग्य नहीं जाना है, उन सब मठोंमें निवास करके मैंने उनको सुशोभित किया है और यह जो तूने पूँछा है तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तरको सुनो—सुन्दर भोगोंको भोगना, सुन्दर गीतोंको श्रवण करना, सुन्दर स्त्रियोंके साथ क्रीडा करना, सुन्दर सुगंधियोंको लगाना, सुन्दर वस्त्रोंको पहरना, सुन्दर भोजनोंके रसोंको आस्वादन करना, सदैवकाल प्रसन्नमन रहना और जहाँतक बनसके विषयानन्दको लेना, संसारमें इतर पुरुषोंकोभी विषयानन्द लेनेका उपदेश करना यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । और यह जो रमणीक मठ है जिसमें कि तुम इदानीकालमें विराजमान हो, इसी मठमे मेराभी रहनेका संकल्प है क्योंकि यह भोगके योग्य अतीव अच्छा मठ है, इसीमें निवास करके मैं अब पूर्ण रीतिसे भोगोंको भोगूगी । चित्तवृत्तिके विचारको सुनकर विवेकाश्रम बोले—हे चित्तवृत्ते ! यह मठ मिथ्या भोगोंके भोगनेके लिये नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्रादिरूप भोग तो इतर मठोंमें जो कि मैंने त्याग दिये हैं उनमें भी होसके हैं, यह मठ तो केवल आत्मानन्दकी प्राप्तिके लिये है । यदि तेरेको भोगोंकी इच्छा है तब तो इस मठसे अतिरिक्त जो मठ है, जो कि मैंने त्याग दिये हैं, उनमें जाकर तू भोगोंको भोग । इस मठका त्याग करदे, क्योंकि यह मठ विरक्त मुमुक्षु संन्यासियोंके योग्य है, या हमसरीखे ज्ञानवान् आत्मानन्दके आस्वादन करनेवालोंके लिये है । यदि तुम्हारेको भी आत्मानन्दके लेनेकी इच्छा हो तब . इन सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंका त्याग करके मुडित होकर हमारे साथ निवास करो । चित्तवृत्ति कहती है—हे आता ! तुम्हारी तरह बुद्धिहीन मूर्ख मैं नहीं हूँ जो मुडित होकर मस्म लगाकर शून्य मदिरोंमें और श्मशानोंमें भ्रमकर स्वादहीन और कल्पित आत्माकी प्राप्तिके लिये दुःखको उठाऊँ । प्रत्यक्ष आत्माका त्याग करके अग्र-

अक्षके पीछे राखको छानती फिरूं । मैं तो सुन्दर भोगोंको भोगतीहूँ, सुन्दर वस्त्रोंको पहरतीहूँ, सुगन्धीवाले द्रव्योंको लगातीहूँ, अनेक प्रकारके रसोंवाले भोजनोंको खाती हूँ, अनेक प्रकारके वीणा आदिके बाजोंके शब्दोंको श्रवण करती हूँ, क्रोमल २ शय्यापर शयन करतीहूँ, सदैवकाल विषयानंदको अनुभव करती हूँ । यह तो आत्मानंद है और इसीका नाम स्वर्गसुख है । जो लोक इस लोकमें सुन्दर स्त्री आदिक भोगोंको भोगते है, वेही मानो 'स्वर्गवासी' कहे जाते हैं । जिनको यह भोग प्राप्त नहीं हैं या जो इनका त्याग करके तुम्हारी तरह मुंडित होकर बनोंमें और श्मशानोंमें भ्रमण करते हैं वेही मानो 'नरकवासी' कहेजाते हैं । हे मूढ ! यह संन्यास तो विधाताने लूले लंगडोंके लिये बनाया है तुम्हारे जैसे सर्वांगसम्पन्न पुरुषोंके लिये संन्यास विधान नहीं किया है सो ऐसाही लिखा है—

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुंठनम् ।

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातुनिर्मिता ॥ १ ॥

अग्निहोत्र करना, तीनों वेदोंका पाठ करना, तीन दण्डोंको धारण करना, भस्मका लगाना, ये सब बातें उनके लिये ब्रह्माने बनाई हैं जो कि बुद्धि और पुरुषार्थसे हीन पुरुष हैं । हे विवेकाश्रम ! तुम्हारे जैसे बुद्धिमान् और पुरुषार्थियोंके वास्ते नहीं बनाई हैं ॥ १ ॥

त्रयो वेदस्य कर्तारो मुनिभांडनिशाचराः ॥ १ ॥

मुनि और भांड तथा निशाचर इन तीनोंका बनाया हुआ वेद है, आंख मून्दकर बैठजाना ये मुनियोंका कर्म है सो वेदमें आंख मून्दकर बैठना लिखा है और नाक पकडना ताली बजाना ये भांडोका काम है सो वेदमें नाक पकडकर ताली बजाना भी लिखा है और पशुओंको मारकर खाजाना ये पिशाचोंका कर्म है सो वेदमें यज्ञोंमें पशुओंको मारकर खाना भी लिखा है और पंडितोंने निरर्थक शब्द भी जरफ़री आदिक और स्वाहाकार और स्वधाकर बहुतसे बनाकर वेदोंमें भर दिये हैं । हे विवेकाश्रम ! और बहुत कष्टदायक कर्म कल्पित

स्वर्गकी प्राप्तिके लिये भी लिख दिये हैं । यदि यज्ञमें पशु मारनेसे स्वर्ग होता तब यजमान अपने पिताको क्यों नहीं यज्ञमें होम करता ? तिसको भी तो स्वर्ग कामना बनी है । फिर जितने यज्ञादिक कर्मोंके करनेवाले मरे हैं, किसीने भी आजतक आकरके नहीं कहा कि हमारेको स्वर्ग हुआ है या नहीं हुआ है । इसलिये सब अपने खाने और द्रव्यके वचन करनेके लिये बना दिये हैं और जो कि मरोंके पीछे पिट और अन्नको देते हैं यदि उनको मिलता है, तब जो पुरुष विदेशमें जाता है, घरमें भी तिसके पीछे देनेसे उसको मिलना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं । इस वास्ते ये भी सब जीविकाके लियेही बनाया गया है, वास्तवमें मरेको कुछभी नहीं मिलता है ॥

न स्वर्गो वाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रिया च फलदायिका ॥ १ ॥

वास्तवमें न स्वर्ग है और न कोई मोक्ष है और न कोई परलोकमें गमन करनेवाला आत्माही है और वर्णाश्रमोंकी कोई क्रिया भी पारलौकिक फलको देनेवाली नहीं है ॥ १ ॥

यावज्जीवित्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत् ॥

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ २ ॥

यावत्पर्यंत पुरुष ससारमें जीता रहे सुखपूर्वकही जीवनको व्यतीत करे, यदि कहो घृतादिकोंके पान करनेके बिना कैसे सुखपूर्वक जीवन होसकता है । तब हम कहते हैं ऋणको लेकर घृतको पान करे । यदि कहो ऋण फिर कहासे दिया जायगा ? तब कहते हैं ऋण देना किसको है देहके भस्मीभूत होनेपर फिर तो कोई देनेवाला रहेगा नहीं इसलिये देनेका भी भय नहीं है ॥ २ ॥ चित्तवृत्ति कहती है--हे विवेकाश्रम ! इस कुरूपताका त्याग करके तुम सुरूपताको धारण करके ससारके भोगोंको भोगो व्यर्थ अपनी आयुको खराब मत करो । विवेकाश्रम कहते--है हे चित्तवृत्ते ! ऐसा मत भापण कर । विधाताने त्रिदण्ड और संन्यासको आत्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन बनाया है तुमने उल्टा समझ लिया है इसलिये इस विपरीत बुद्धिको तू त्याग करके आत्मविपयिणी

प्रथम किरण ।

बुद्धिको आश्रयण कर । चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! जां वस्तु पहले प्राप्त न हो और यत्न करके पश्चात् प्राप्त हो उसको प्रासिके लिये कोई साधन बनसक्ता है और जो वस्तु कि प्रत्यक्ष नेत्रोंसे दिखाती है और अपनेको प्राप्त भी है तिसकी प्रासिके लिये कोई भी साधन नहीं बन सक्ता है । हे नूट ! यह जो स्थूल-शरीर है, दो हाथ, दो पांव, दो कान, दो आंखवाला यही तो आत्मा है । इससे भिन्न और कौन आत्मा है और इस शरीरसे जो कि, भोग भोगे जाने है उनसे जो आनन्द प्राप्त होता है यही तो आत्मानन्द है, इससे भिन्न दूसरा और कौनसा आत्मानन्द है ? ससारमे सब लोग तो शरीरको ही आत्मा मानते हैं और इन्द्रिय विषयके सम्बन्धसे जो सुख होता है उसीको आत्मानन्द मानते हैं । तुम्हारा तरह लोग मूर्ख नहीं हैं जो प्रत्यक्ष आत्माको छोडकर अप्रत्यक्षके पीछे खराब होते फिरे । हे विवेकाश्रम ! अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगडा है, इस वनावटी वेपका त्याग करके अपने असली वेपको धारण करके तुम भोगोंको भोगो । मूर्ख मत बनो । इस मूर्खतासे तुम्हको सुख कदापि नहीं होगा । विवेकाश्रम अपने मनमें कहते हैं, यह दुष्ट तो अपनेको बड़ी पंडिता मानकर बोल रही है, इस मूर्खको यदि हम सूक्ष्म विचारसे समझावैगे तब तो यह नहीं समझेगी क्योंकि एक तो स्त्री, दूसरे बड़ी चपल, तीसरे विषयोंके सम्मुख यह दौडनेवाली है । इसलिये इसको स्थूल दृष्टांतों करके समझाना चाहिये । क्योंकि जैसा बुद्धिवाला पुरुष हो उसको उसी रीतिसे समझाना ठीक है । फिर महात्माका स्वभाव भी उपकारी होता है और परोपकारके लिये महात्माओंका शरीर उत्पन्न होता है और मूर्खोंको सच्चे रस्तेपर लगानाही भारी उपकार है । इसलिये इस मूर्खको अब हम स्थूल दृष्टान्तोंको देकर समझाते हैं । विवेकाश्रम कहतेहैं, हे चित्तवृत्ते ! जैसे त्रिष्टाका कृमि मिश्रीके स्वादको नहीं जानता है, नीमका कीट ऊखके स्वादको नहीं जानता है, मद्यपान करनेवाला अमृतके स्वादको नहीं जानता है, असत्यवादी सत्य भाषणके फलको नहीं जानता है, व्यभिचारिणी स्त्री पतिव्रताके प्रभावको नहीं जानती है तैसे तू भी हे चित्तवृत्ते ! आत्मानन्दके स्वादको नहीं जानती है । जबतक तू विषयानन्दकी तरफ दौडती है तबतक तेरेको आत्मानन्दका कणमात्रभी नहीं मिला है, जिस

कालमें तिसका एक ल्यमात्र भी तुझको प्राप्त होजावेगा फिर कभी तू विषयानन्दकी इच्छाको नहीं करैगी । हे चित्तवृत्ते ! इसमें तुमको हम एक दृष्टान्तको सुनाते हैं ।

एक चींटी निमकके पर्वतपर रहती थी, दूसरी एक चींटी मिश्रीके पर्वतपर रहती थी, एक दिन वह निमकके पर्वतवाली चींटी मिश्रीके पर्वतवाली चींटीके पास गई और तिसको दृष्टपुष्ट प्रसन्नमुख देखकर पूँछने लगी, वहिन ! तुम्हारा मुख बड़ा प्रसन्न दिखता है । और तुम्हारा शरीर भी बड़ा दृष्टपुष्ट तैयार है, तुमको ऐसा कौनसा पदार्थ खानेको मिलता है जिसके सेवन करनेसे तुम सदैवकाल आनंदित रहती हो । उसने कहा मैं मिश्रीके पर्वतपर रहती हूँ मनमानी मिश्रीको खाती हूँ, तिसीके खानेसे मेरा मुख प्रसन्न रहता है और शरीर भी मेरा रोगसे रहित तैयार रहता है । तब तिस निमकके पर्वतवाली चींटीने तिससे कहा—हमको भी तू मिश्रीके पर्वतको बतादे जाँ मैं भी तिसको खाकर तुम्हारी तरह होजाऊ । मैंने तो कभी भी मिश्रीको नहीं खाया है और न कभी मैंने तिसका नामही सुना है आज तुम्हारे मुखसे मिश्रीके महत्त्वको श्रवण करके हमारा भी मन तिसके खानेके लिये चला गया है, इस वास्ते अब तू जल्दी हमको मिश्रीके पर्वतको बतादे । तिस चींटीने उसको भी मिश्रीके पर्वतको बतादिया वह तिस पर्वतपर चूमकर आकरके तिस चींटीसे कहने लगी वहन ! यह निमकका पर्वत है इसमें मिश्रीका तो कहीं नाम निशान भी नहीं है । तब तिस मिश्रीके पर्वत वाली चींटीने अपने मनमें विचार किया क्या कारण है, जो कि मिश्रीके पर्वतपर घूमनेसेभी इसको मिश्री नहीं मिली । फिर जब कि तिसके मुखकी तरफ तिस चींटीने देखा तब तिसके मुखमें एक निमककी डली छोटीसी पटी थी तिसको देखकर उसने जान लिया यही मिश्रीके न मिलनेका कारण है । उस चींटीने निमककी डलीवाली चींटीसे कहा वहन ! तेरे मुखमें तो निमककी डली पडी है । जबतक तू इस डलीका त्याग नहीं करैगी तबतक तेरेको मिश्री नहीं मिलेगी । उसने तुरन्तही निमककी डलीको फेंक दिया और फिर तिस मिश्रीके पर्वतपर हँगाई तब फिर मिश्रीके मिलनेमें कौन देरी थी ? जाते ही तिसको

मिश्री मिल गई। हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है। अब दाष्टतम इसका सुनो। अंतःकरणरूपी मिश्रीका पर्वत है, क्योंकि तिसके भीतर आत्मारूपी मिश्री भरी है। विषयानन्दरूपी नमककी डलीको तू मुखसे पकडकर तिस मिश्रीके पर्वतपर रात्रिदिन फिरती रहती है। इसीसे तेरेको वह आत्मानन्दरूपी मिश्री नहीं मिलती है। जब तूमी तिस नमकवाली चीटीकी तरह अपने मुखसे तिस विषयानन्दरूपी डलीको फेंककर मिश्रीके पर्वतपर मिश्रीकी तलाशमें फिरैगी तब तेरेको भी तुरन्त आत्मानन्दरूपी मिश्री मिल जावैगी। हे चित्तवृत्ते ! जितने कि संसारमें स्त्री, पुत्र धनादिक विषय हैं ये सब देखने मात्र करके सुन्दर प्रतीत होते हैं। वास्तवमें यह सब सुन्दर नहीं हैं क्योंकि जिनको प्राप्त हैं वहभी सब दुःखी हैं और जिनको नहीं प्राप्त है, वहभी सब दुःखी हैं, विचार करनेसे तो इनमें सुखका लेशमात्र भी नहीं है। यदि इनमें सुख होता तब विवेकी पुरुष इनका त्याग कभी भी न करते और बहुतसे राजा महाराजोंनेभी इनका त्याग किया है, इसीसे जानाजाता है, स्त्री आदिक सब विषय दुःखरूप हैं इसी वार्त्ताको हे चित्तवृत्ते ! हम तुमको अनेक दृष्टांतों करके दिखाते हैं ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक नगरमें एक बनियां बड़ा गरीब रहता था एक तिसकी स्त्री थी और एकही तिसका लडका था। जब कि वह लडका पाच बरसका हुआ तब बनियां और तिसकी स्त्री दोनों मरगये तब वह लडका अनाथ हो गया कोईभी तिसकी सहायता करनेवाला जब न रहा तब एक महात्मा दया करके तिस लडकेको ले गये और अपना चेला बनाकर तिसकी पालना करने लगे और तिसको विद्यादि गुणों करके सुशिक्षित करने लगे। जबकि, लडका षड लिखकर सुशिक्षित होगया और बीस बरसकी तिसकी आयुभी होगई तब एकदिन लडकेने अपने गुरुसे कहा महाराज ! मेरेको तीर्थयात्रा करनेके लिये आज्ञा दीजिये। गुरुने प्रसन्न होकर कहा जावो, तुम तीर्थ कर आवो। जब कि, वह तीर्थयात्राको चला तब एक दिन रास्तेमें वह जाता था कि, एक बरात तिसको मिली। उसको देखकर तिस लडकेने पूछा यह क्या है ? क्योंकि उसको बरात और विवाहके संस्कार नहीं थे, ओकोने कहा यह बरात

है। उसने कहा वरात क्या होती है ? और ये पालकानें बैठा हुआ सुन्दर बच्चोंको पहेरे हुए कौन है ? लोकोने कहा यह दूल्हा है इसकी शादी एक लडकीके साथ कीजावेगी । इस दूल्हाको लेकर ये सब लोग लडकीवालेके घरमे जायेंगे वहाँपर गाना बजाना नाच रङ्ग होगा फिर दूल्हाका तिस लडकीके साथ पाणिप्रहण होगा । फिर लडकीको लेकर अपने घरमे आकर दूल्हा और दुल्हन दोनों रात्रिमें एक पलंगपर शयन करैंगे और विषयानन्दको भोगेंगे । उन लोकोंसे सुनकर उस साधुके अतः कारणमे भी विवाह करनेके और स्त्रीके साथ सोनेके सब संस्कार वैठ गये, जब कि एक ग्रामके समीप पहुँचा तब वहाँपर एक बड़ा सुन्दर पक्का कूप था उस कूपपर उसने आसन लगा दिया । जब रात्रि पडी तब कूपके किनारे पर वह सोगया नींदमे उसको विवाहके संस्कार सब उद्भूत होगये तब उसने स्वप्नमें देखा कि, मेरा विवाह हुआ है और स्त्री घरमें आई है हम उसके साथ एक पलंगपर सोये हैं, जब कि सोये हुए थोडीसी देर बीती तब स्त्रीने कहा थोडासा पीछे हटो ज्योंही वह पीछेको हटा त्योंही तडाकसे कूबेमे गिरपडा । तिसके गिरनेकी आवाजको सुनकर इधर उधरसे लोगोंने जमा होकर तिसको कूबेमेंसे निकाला और तिससे पूँछा तुमको किसने कूबेमें गिराया है ? उसने कहा हमको स्वप्नकी स्त्रीने कूबेमें गिरा दिया है । बड़े आश्चर्यकी वार्ता है जो कि स्वप्नकी मिथ्या स्त्रीके साथ सोया वह तो कूबेमें गिरा जो कि जाग्रतकी स्त्रीके साथ सोते हैं वह तो अवश्यही महान् नरकरूपी कूबेमें गिरते होंगे इसमें संदेह नहीं है । हे चित्तवृत्ते ! स्त्रीके सम्बन्धसे बड़े २ देवतोंकी भी फजीती हुई है । इसलिये स्त्रीही ससाररूपी बन्धनका कारण है, चित्तवृत्ति कहती है—हे भ्राता ! स्त्रीके सगसे जिस २ देवता और ऋषि तथा मनुष्योंकी फजीती हुई है तिस २ देवता और ऋषि तथा मनुष्योंकी कथाओंकोभी सक्षेपसे मेरे प्रति कहो ॥ २ ॥

विवेकाश्रम कहते हैं हैं चित्तवृत्ते ! एक समयमें ब्रह्माजीने अपने अंगोंसे अहल्या नामवाली कन्याको उत्पन्न किया और सब देवता तथा ऋषियोंके सन्मुख गौतमजीके साथ तिसका विवाह कर दिया । तिस सुन्दर रूपवाली और श्रेष्ठ अंगोंवाली अहल्याको देखकर इन्द्र मोहित होगया । उसी कालसे

इन्द्रके मनमें यह संकल्प हुआ कि किसी प्रकारसे इसके साथ भोग करना चाहिये । इन्द्र इसी फिकरमें रहने लगा जब कि इन्द्रको अहल्या पर घात लगाये कुछ काल बीत गया तब एक दिन गौतमजी पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेको गये पीछेसे अहल्या उनके पूजाके बर्तनोंको साफ करने लगी । इतनेमें गौतमका रूप धारण करके इन्द्र गौतमके गृहमें घुसा, अहल्या उसको पति जानकर खड़ी होगई तब इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मैं बड़ा कामातुर हुआ हूँ तुम जल्दी मेरे पास आवो । अहल्याने कहा हे स्वामिन् ! यह तो आपकी पूजाका समय है भोगका समय नहीं है आप पूजा करिये मैंने पूजाकी सब सामग्री तैयार करदी है । इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मैंने मानसी पूजा करली है तुम जल्दीसे हमारे पास आवो हमको काम जलाये देता है । इतना कहकर इन्द्रने अहल्याको पकडकर अपनी मनमानी प्रसन्नता करली । जब कि इन्द्र अहल्यासे भोग कर चुका इतनेमें गौतमजी आगये तब इन्द्र बिलारका रूप धारण करके भागने लगा । गौतमजीने कहा तू कौन है ? जो बिलारके रूपको धारण करके भागा जाता है गौतमजीके क्रोधसे इन्द्रको इतना मय हुआ जो तुरन्तही बिलारके रूपको त्याग करके अपने इन्द्ररूपसे कांपता हुआ हाथ जोडकर तिनके सम्मुख खड़ा होगया । इन्द्रको देखतेही गौतमने शाप दिया हे दुष्ट ! जिस एक भगके लिये यहांपर पाप कर्म करनेके लिये आया था तेरे शरीरमें एक हजार भग होजायेंगे और अहल्याको भी शाप दिया मांससे रहित पाषाणवत् तेरा शरीर होजायगा । हे चित्तवृत्ते ! स्त्रीके संगसे ऐसी इन्द्रकी फजीती हुई ॥ ३ ॥

अब ब्रह्माजी फजीतीको तुम्हारे प्रति सुनाते हैं—पद्मपुराण स्वर्गखण्ड अ० ६ में यह कथा है, हे चित्तवृत्ते ! शांतनु नाम करके एक ऋषि था, तिसकी स्त्रीका नाम । असोवा था, एक दिन ब्रह्माजी किसी कार्यके लिये तिस ऋषिके घरमें गये आगे वह ऋषि घरमें न था तिसकी स्त्री घरमें थी, उसने पाद्य अर्घादिकों करके ब्रह्माजीका बड़ा सत्कार किया और एक आसन उनके बैठनेको दिया जब कि ब्रह्माजी आसनपर बैठे तब तिस पतिव्रताने ब्रह्माजीसे कहा भगवन् ।

आपका आना किस निमित्तको लेकरके हुआ है? ब्रह्माजीने कहा ऋषिकों मिलनेके लिये आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी कार्यके लिये कहीं गये हैं । ब्रह्माजी तिसके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होगये । कामदेवने ब्रह्माजीको ऐसा व्याकुल किया जो ब्रह्माजीका वीर्य उसी आसनपर निकल गया तब ब्रह्माजी लजित होकर अपने स्थानको चले आये । उधरसे जब ऋषिघरमें आये तब तिस वीर्यको देखकर स्त्रीसे पूछा वह क्या है ? स्त्रीने ब्रह्माजीका सब हाल कह सुनाया ऋषिने कहा वह कामका महत्त्व है जिसने ब्रह्माजीकोभी मोहित कर लिया है । हे चित्तवृत्ते ! स्त्रीका सग ऐसा ही बुरा है जिसके दर्शनसे देवता भी वैर्यको नहीं धर सकते हैं तब इतर जीवोंकी क्या कथा है ? इसी वास्ते विवेकी पुरुष इसके समीप भी स्थित नहीं होते हैं ॥ ४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! पद्मपुराणके स्वर्गखण्डमें महादेव और विष्णुकी कथायें भी लिखी हैं उन कथाओंको भी तुम सुनो ॥

एक कालमें महादेवजी अपने स्थानमें समाधिमें स्थित थे और मर्त्यलोकमें मनुष्योंकी बहुतसी स्त्रियें सुन्दररूप और युवावस्थावाली वनमें क्रीडा कर रही थीं, उनके रूप और यौवनको देखकर महादेवजी काम करके बड़े व्याकुल होगये और महादेवजीका मन उनके साथ भोग विलास करनेको तैयार होगया तब महादेवजीने अपने मन्त्रके बलसे उन सब स्त्रियोंको आकाशमें खेंच लिया और आप भी आकाशमें स्थिर होकर उनके साथ भोग विलास करने लगे और बहुत कालतक उनको आर्लिगन करते रहे और विषयानन्दमें मग्न होगये । इधर पार्वतीकी जो समाधि खुली तब तिनने देखा कि महादेवजी अपने आसनपर स्थित नहीं हैं और आकाशमें मनुष्योंकी स्त्रियोंके साथ भोग विलास कर रहे हैं । तब पार्वतीजीको बड़ा क्रोध हुआ और आकाशमें जाकर तिनने उन सब स्त्रियोंको भूमिपर गिरा दिया और महादेवजीको लाकर समाधिमें फिर स्थिर किया । हे चित्तवृत्ते ! सुन्दर स्त्रियोंको देखकर महादेवजीभी भूलगये और उनकी समाधिमें भी विघ्न हुआ तब इतर तुच्छ बुद्धिवाले जीवोंकी कौन कथा है ॥ ५ ॥

प्रथम किरण ।

एक कालमें देवता और दैत्योका युद्ध होने लगा । दैत्योका राजा जलंधर था, तिसकी स्त्रीका नाम वृन्दा था, वह बड़ी पतिव्रता थी, तिसके पातिव्रत्यके प्रभावसे वह जलंधर दैत्य देवतोसे जीता नहीं जाता था, तब देवतोने विष्णुसे जलंधरके जीतनेके लिये कई उपाय किये । विष्णु जलंधरका रूप धारण करके तिसकी स्त्रीके पास गये और उससे भोग किया । जब कि, भोग करके पतिव्रतधर्म नष्ट करचुके तब वृन्दाको मालूम होगया कि यह विष्णु हैं हमारे पति नहीं हैं, तब तिसने विष्णुको शाप देदिया, जावो तुम पाषाण होजावो । तिसके शापसे विष्णुको पाषाण होना पडा । हे चित्तवृत्ते ! यह स्त्रीरूपी विषय मुक्तिमार्गका विरोधी है स्त्रीलिये विवेकी पुरुष इससे दूर भागते हैं ॥ ६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! पद्मपुराणके स्वर्गखण्डमे एक वृद्ध ब्राह्मणका कथा लिखी है, जिसका स्त्रीके दर्शनसे मृत्यु ही होगया था, तिसकी कथाको भी तुम सुनो ।

गगार्जकी किनारेपर एक बडा तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण रहता था और लोकोंको सदैवकाल धर्मकाही उपदेश करता था और विप्रोंमें बडा उत्तम अपने नित्य नैमित्तिक कर्ममें भी बडा तत्पर था और अकेलाही एक मंदिरमें रहता था । एक दिन वह अपने मंदिरके द्वारपर बैठा हुआ था कि इतनेमें एक स्त्री बड़ी रूपवती युवावस्थावाली अपने पतिके गृहको जाती हुई तिस मंदिरके आंगेसे निकली । तिस स्त्रीके रूपको देखकर वह ब्राह्मण मोहित होगया और काम करके बडा पीडित हुआ । वह स्त्री अपने गृहके भीतर चली गई तब वह देरतक उसके द्वारकी तरफ देखता रहा, जो फिर भीतरसे बाहरको निकले तब मैं उससे कुछ बातचीत करू, जब कि वह फिर बाहरको न निकली तब ब्राह्मण देवता तिसके द्वारपर जाकर पुकारने लगे, हे प्रिये ! जल्दी किवाडोंको खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ । तिसके शब्दको सुनकर तिस स्त्रीने किवाडोंको खोल दिया और देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हे । स्त्रीने कहा तुम कौन हो ? और क्यों हमारे द्वारपर आये हो ? उस ब्राह्मणने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे सुन्दर रूपको देखकर हमारा मन काम करके व्याकुल होगया है, हम भोग करनेकी इच्छा करके तुम्हारे द्वारपर आये हैं, तुम हमसे भोग करो । तिस

स्त्रीने कहा मे पतिव्रता हूँ, फिर हमसे ऐसा शब्द मत कहना । ब्राह्मणने कहा मेरे पास बहुतसा द्रव्य है । वह सब द्रव्य हम तुमको देदेवेंगे, तुम हमसे सम्बन्ध करो, हम काम करके बड़े पीड़ित हो रहे हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पाव भी पटते हैं, स्त्रीने कहा तुम हमारे धर्मके सम्बन्धसे पिता लगते हो, हमारे साथ भोग करनेका सकल्प मत करो । जब कि किसी रीतिसे भी स्त्रीने तिस ब्राह्मणका कहा नहीं माना तब वह जबरदस्ती भीतर जानेको तैयार हुआ, और प्रथम उसने अपना शिर द्वारके भीतर जब किया तब स्त्रीने जोरसे दोनों किवाड़ोंको बन्द कर दिया । उन दोनों किवाड़ोंके लगनेसे तिसका शिर कटगया और वह मरगया । लोगोंने तिस स्त्रीसे तिस ब्राह्मणके मरनेका समाचार पूंछा, तब तिस स्त्रीने सब कथा सुनाई । लोगोंने कहा यह कामदेवका महत्त्व है । तिसके मुरदेको लेजाकर लोगोंने फूक दिया । हे चित्तवृत्ते ! यह स्त्रीरूपी विषय बड़ा बली है, तुरन्त पुण्योंके चित्तको व्याकुल करदेता है, जब कि वृद्धावस्थावाले विचारशील षट्कर्मियोंकी इसके सगसे ऐसी बुरी दशा होती है, तब युवावस्थावालोंकी कौन गिनती है ॥ ७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! सुन्दर रूपवती अप्सराको देखकर विश्वामित्र तप करना भूल गये थे और उसीके साथ भोग विलासमें मग्न होगये थे । पराशरजी मल्लहाकी कन्याके रूपको देखकर मोहित होगये थे । नदीका रेत और दिनकी रात्रि तो सब उन्होंने कर दिया था, परन्तु कामको नहीं रोक सके थे । इसीपर कहा भी है—

विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना—

स्तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ॥

शाल्यत्रं सघृतं पयोदधियुतं ये भुंजते मानवा—

स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरे ॥ १ ॥

विश्वामित्र और पराशरसे लेकर जो कि मुनि पत्तोंको भक्षण करते थे वह भी सुन्दर कमलके तुल्य स्त्रीके मुखको देखकर शीघ्रही मोहको प्राप्त होगये । शालि, दधि, घृत करके सयुक्त भोजनको जो पुरुष खाते हैं उनके इन्द्रिय

अदि अपने वशीभूत होजाय तब तो विन्व्याचल पर्वत भी समुद्रमें तरने लग जायगा ॥ १ ॥

तात्पर्य यह है, जैसे विन्ध्याचल पर्वतका तैरना असंभव है, तैसे इन्द्रियोंका रोकना भी असंभव है । उसीके इन्द्रिय रुके रहते हैं जो कि स्त्रीका संसर्ग नहीं करता है, संसर्गके होनेपर रकना कठिन है । आत्मपुराणमें कामका प्रबलता दिखाई है:—

कामक्रोधौ महाशत्रू देहिनां सहजावुभौ ।

तौ विहाय परं शत्रुं यो जयेत्स तु मंदधीः ॥ १ ॥

जीवोंके काम और क्रोध स्वभाविक ही बडेभारी शत्रु है, तिनको छोडकर जो दूसरे शत्रुओंको जीनता है वह मन्दबुद्धि है ॥ १ ॥

पितापुत्रौ महावीर्यौ कामक्रोधौ दुरासदौ ॥

विजित्य सकलं विश्वं वर्त्तते जयकाशिनौ ॥ २ ॥

काम और क्रोध ये पिता और पुत्र हैं, और बडे बली हैं, सारे विश्वको जीत करके जयशाली होकर संसारमें दोनों विराजमान ह ॥ २ ॥

कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरिः ॥

कामेन विजितः शम्भुः शक्रः कामेन निर्जितः ॥ ३ ॥

ब्रह्माको कामने जय करलिया, विष्णुको कामने जय कर लिया, महादेवको कामने जय कर लिया, इन्द्रको कामने जय कर लिया ॥ ३ ॥

संसारमें कामने बिना विवेकी पुरुषोंको सबको जीत लिया है । हे चित्तवृत्ते ! वही पुरुष संसारमे आत्मानन्दको प्राप्त होता है जो कि कामको अपने वशीभूत करलेता है । हे चित्तवृत्ते ! स्त्रीके संसर्गसे जिन पुरुषोंकी दुर्गति हुई है उनके और दो एक दृष्टांत तुमको मुनाते ह ॥ ८ ॥

एक राजाने किसी विलायतपर चढाई का, तिस विलायतको जीतकर राजा तिसी देशमें कुछ कालतक रहगये, पीछे राजाको रानी राजाके बिना ब्रह्मी काम करके व्याकुल होगई, तब वह अपने मंदिरकी खिडकीमेसे इधर उधर देखने लगी, एक साहूकारका लडका बडा सुन्दर अपने मकानपर खडा था, उसको देखकर रानीका मन मोहित होगया क्योंकि, एक तो वह

युवा अवस्थावाला था, दूसरे उसका रूप भी अति सुन्दर था, रानीने अपनी लौंडीको उसको बुलानेके लिये भेजा, लौंडीने उससे जाकर कहा-रानीसाहिबा आपको बुलाती है, रानीको कुछ जवाहिरात खरीदनी है, वह लडका सुन्दर वस्त्र और भूषणोंको पहनकर रानीके पास गया और रानी तिससे बातचीत प्रेमसे करने लगी, इतनेमें लौंडीने आकर रानीसे कहा राजा साहब बाहर आगये हे अभी थोड़ी देरसे भीतर आवेगे, रानीसे तिस लडकेने कहा हमको जल्दी छिपावो नहीं तो हम मारे जायेंगे । रानीने तिसको पाखानेके नीचेके नलमें अन्दरेमें खडा करदिया, थोड़ी देरसे राजा भीतर आगये और रानीसे उन्होंने कहा हमारे पेटमें कुछ कसर होगई है हम पाखाने जायेंगे, लौंडी पानी ले आई राजा साहिब पाखाने गये, राजाने जब पाखाना फिरा, तब वह सब मल तिस लडकेके शिरपर और कपडोंपर गिरा, सब कपडे तिसके मैलेसे भर गये, जब राजा पाखाना होकर चले गये तब रानीने भी तिसको निजाल दिया । उम लडकेको बड़ी श्रृणा हुई और नगरके बाहर नदीपर जाके सब कपडोंको मोक्षर साफ करके घरमें जाकर दूसरे कपडे बदल कर वह अपने काममें लगा । दूसरे दिन फिर रानीने लौंडीको तिसके बुलानेके लिये भेजा और लौंडीने जाकर तिससे कहा रानीसाहिबा आपको बुलाती है । तिस लडकेने कहा एक दिन में रानीके पास गया और उससे केवल बातचीत ही की थी तिमका फल यह हुआ जो दो घंटा मेरेको पाखानेकी, सोरोमें खडा होना पडा और अपने शिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो लोग परखीके साथ मोग विलास करते हैं न मालूम उनको कितने कालतक विष्टाके नलमें खडा होना पडता होगा और कितने लोकोको शिरपर हगाना पडता होगा, मेरेको तो वह दो घण्टोंका नरकभोग नहीं भुखाता है, इसलिये मैं तो फिर कभी भी रानीके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा जवाब लेकर वह लौंडी लौट गई । हे चित्तवृत्ते ! परखीके संगसे तो और अधिक क्लेश लोकोंको भोगने पडते हे । हे चित्तवृत्ते ! पराई स्त्री, जो क्लेशोका हेतु है इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु अपनी स्त्री भी अपने ही सुखके लिये भर्तासे प्रेम करती है, भर्ताके सुखके लिये वह प्रेम नहीं,

करती है, यदि मर्ताके सुखके लिये स्त्री प्रेम करती है तब रोगी, ऋणी, नपुंसक, निर्धन मर्तासे भी प्रेम करे । ऐसा तो संसारमें कहीं भी नहीं देखते हैं । और आत्मपुराणमें ऐसा लिखा भी है—

दरिद्रं पुरुषं दृष्ट्वा नायः कामातुरा अपि ॥

स्मर्द्दुं नेच्छन्ति कुणपं यद्वच्च कृमिदूषितम् ॥ १ ॥

यदि स्त्री काम करके आतुर भी हो तब भी अपने दरिद्री मर्ताको स्पर्श करनेकी इच्छा नहीं करती है, जैसे कृमियों चरके दूषित मुरदेको कोई स्पर्शकी इच्छा नहीं करता है ॥ १ ॥

ब्राह्मादिभ्यो विवाहेभ्यः प्राप्ता नारी पतिव्रता ॥

भर्तुर्दरिद्रस्य मृतिं वाञ्छति क्षुधयादिता ॥ २ ॥

ब्राह्मादिक जो धर्मशास्त्रमें विवाह लिखे है उन विवाहोंकरके यदि पतिव्रता स्त्री भी किसीको प्राप्त हुई हो वह क्षुधा करके पीड़ित हुई दरिद्री मर्ताके मरनेकी ही इच्छा करती है ॥ २ ॥ संसारमें स्त्री आदिक सब अपने ही सुखके लिये एक दूसरेसे प्रीतिको करते हैं इसीमें तुमको हम एक और दृष्टत सुनाते हैं ॥ ९ ॥

एक साहूकारका लडका नित्यही नत्संगके लिये एका महात्माके पास जाता था, तिसके माता पिताको यह शोच हुआ कि, हमारा लडका वैराग्यवादी माताको सुनकर कहीं भाग न जाय इसलिये जन्दी इसकी माजी कर देनी चाहिये, ऐसा विचार करके उन्होने एक सुन्दर रूपवती कन्याके साथ तिसका विवाह करदिया । तब भी लडका नित्यही नत्संगके लिये उन महात्माके पास अपने वक्तपर बराबरही जायाकरे । विवाह होजानेपर भी वह नहीं हटा, तब तिसके माता पिताने तिसकी स्त्रीमें कहा तू ऐसी इसकी सेवा कर जो लडका हमारा महात्माके पास जानेसे हट जाय । वह सेवा करने लगी और लडकेको तिसने अपने वशीभूत करलिया, तब लडका धीरे धीरे जानेसे हटने लगा । पहले तो नित्य जाता था फिर दूसरे तीसरे दिन जाने लग्न । एक दिन स्त्रीने कहा तुम जब कि, रात्रिको चलेजाते हो, तब

मे अकेली रह जाती हूँ और खीका अकेला रहना अच्छा नहीं है और मेरेको अकेले रहते डर भी लगती है, खीकी वार्ताको सुनकर लडकेने बिलकुल बहापर जाना छोड़ दिया । जब कि, बहुत दिन बीत गये तब एक दिन महात्मा कहीं जाते थे, लडका उनका रास्तेमे मिलगया, उन्होने लडकेसे न आनेका सबव पूछा तब लडकेने कहा महाराज ! खीने सेवा करके मेरेको अपने घरमें करलिया है, वह मेरेको बड़ा सुख देता है और मेरे बिना रात्रिको दो घण्टानक भी वह अकेली नहीं रहसक्ती है । वह कहती है मैं तुम्हारे वियोगको एक क्षणमात्र भी नहीं सहसक्ती हूँ, और मैं भी जानगया हूँ जो यह हमारे सुखके लिये सब बातें करता है, इसलिये मेरा अब आना छूट गया है । महात्माने कहा वह अपने सुखके लिये तुमसे प्रीति करता है तुम्हारे सुखके लिये वह प्रीतिको नहीं करता है, यदि तुमको हमारी बातपर विश्वास न हो तब तुम एक दिन उसकी परीक्षा करो । महात्माने श्वासोंके रोकनेकी एक युक्ति तिस लडकेको बताकर कहा, एक दिन तुम खीसे कहना आज हम तस्मै और चूरी दोनों खायेंगे । जब कि, भोजन तैयार होजाय तब तुम हमारी चैताई हुई युक्तिसे श्वासोंको रोककरके लम्बे पडजाना । वह जानेगी यह तो मरगया है तब तुमको पूरी पूरी परीक्षा तिसके प्रेमका होजायगी । लडकेने घरमे आकर खीसे कहा कल हम तस्मै खायेंगं तस्मै बनाना और थोडीसी चूरीभी बनाना, खीने कहा बहुत अच्छा । दूसरे दिन सबेरे उठकर खीने तस्मै बनाई और चूरी भी बनाई । जब रसोई तैयार होगई तब लडका जहापर बैठा था बहापर दो थभ आपसमे सटेहुए छतके नीचे लगे थे । लडका उन दोनों थम्भोंके बीचमे पावको फँसाकर खीसे कहने लगा हमारे पेटमे कुछ दर्द है, ऐसा कहकर उसने श्वासोंको रोक लिया और लम्बा पड गया । खीने जब कि, चौकासे उठकरके तिसको देखा तब तिसके श्वास बन्द थे । खीने जाना यह तो मर गया है यदि मैं अभीसे रोना पीटना शुरू करता हूँ तब तो मैं दिन रात भूखी मरुगी और तस्मै भी खराब होजायगी, इसवास्ते तस्मैको खा लेऊ और चूरीको ऊपर छीकके रख छोड़ू । ऐसा विचार करके खीने तस्मैको खा लिया और चूरीको घरकर रोना पीटना शुरू किया । इतनेमे अडोस

पड़ोसके लोक सब आगये और उन्होने पूँछा कैसे मर गया ? तब स्त्री-
 कहा इसके पेटमें दर्द पडी थी उसीसे मर गया है । लोकोंने कहा अब देर
 मत करो जल्दी इसको श्मशानमें ले चलो । जब कि, तिसको उठाने लगे तब
 तिसका एक पांव दोनों थम्भोंके बीचमें फँसा हुआ न निकला, तब लोकोंने
 कहा एक थंभको काटकर पांवको निकाल लीजिये। स्त्रीने कहा ऐसा मत करो,
 थम्भ कटजायगा तब कौन फिर मेरेको बनवा देगा ? इसलिये थम्भको मत
 काटिये, पांवकोही काट दीजिये, क्योंकि पांवको तो जलाना ही है । जब कि,
 पांवको काटने लगे तुरन्त वह उठकर बैठगया और कहने लगा हमारे पेटका
 दर्द अब जातारहा। लोक सब अपने अपने घरोंको चले गये। लडकेने सब हाल
 आकर महात्माको सुनाया । महात्माने कहा हम जो कहते थे वही सत्य हुआ ?
 अब तो तेरेको इस विषयमें कुछ सन्देह नहीं ? लडकेने कहा महाराज ! अब
 तो मेरेको कुछभी सन्देह नहीं है । आपका कहना ठीक है । अपनेही सुखके
 लिये स्त्री पतिसे प्रेम करती है पतिके सुखके लिये स्त्री पतिसे प्रेमको नहीं
 करती है । हे चित्तवृत्ते ! उसी दिनसे उस लडकेने स्त्रीका त्याग करदिया और
 परम वैराग्यको प्राप्त होकर महात्माके पासही रहने लग गया ॥ ९ ॥

इसी वार्ताको याज्ञवल्क्यजीने भी मैत्रेयीके प्रति बृहदारण्यक उपनिषद्में
 कहा है । जिसकालमें जीवन्मुक्तिके सुखके लिये याज्ञवल्क्यजी गृहस्थाश्रमको
 छोड कर सन्यासाश्रमको जाने लगे तब तिस कालमें उन्होने अपनी दोनों
 भार्याओंसे कहा कि, हम अब इस आश्रमको छोडना चाहते हैं, जितना कि
 हमारे पास द्रव्य है उसको तुम दोनो आपसमे आधा आधा बांट लेवो, उन
 दोनों भार्याओंमेंसे एकका नाम कात्यायनी था, दूसरीका नाम मैत्रेयी था ।
 कात्यायनीने तो अपना धनका हिस्सा लेलिया, मैत्रेयीने कहा भगवन् ! इस धनको
 लेकर मैं संसारसे मुक्त होजाऊंगी ? याज्ञवल्क्यने कहा जैसे और धनवान्,
 जीवनको व्यतीत करते हैं तैसे तू भी जीवनको व्यतीत करेगी । धनकरके
 तो मोक्षका सभावनामात्र भी नहीं होती है, तब मैत्रेयीने कहा जिस वस्तुके
 पानेसे मैं मुक्त होजाऊँ उसको मेरे प्रति दीजिये । मैं धनकी इच्छा नहीं करती,
 हूँ । याज्ञवल्क्यजी मैत्रेयीके प्रति उपदेश करते हैं ।

न वारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति ।

आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ॥ १ ॥

अरे मैत्रेयि ! पतिकी कामना करके पति स्त्रीको प्यारा नहीं होता है, किन्तु अपनी कामनाके लिये पति स्त्रीको प्यारा होता है । यदि पतिकी कामना करके स्त्रीको पति प्यारा हो तब नपुसक, रोगी, निर्धन होनेसे भी पति स्त्रीको प्यारा होना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं; इसलिये पतिकी कामनाके लिये पति प्यारा नहीं होता है ॥ १ ॥

न वारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति ।

आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥ २ ॥

अरे मैत्रेयि ! जायाकी कामनाके लिये पतिको जाया प्यारी नहीं होती है । किन्तु अपनी कामनाके लिये जाया पतिको प्यारी होती है । यदि जायाकी कामनाके लिये पतिका जायामें प्रेम हो तब लडकी कुपित व्यवहारिणी रोगिणीमें भी प्रेम हो, ऐसा तो नहीं है । इसीसे सिद्ध होता है कि अपने सुखके लिये पतिका जायामें प्रेम होता है ॥ २ ॥

वारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवंत्या-

त्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवंति ॥ ३ ॥

अरे मैत्रेयि ! पुत्रोंकी कामनाके लिये माता पिताका पुत्रोंमें प्रेम नहीं होता है, किन्तु अपने सुखके लिये पुत्रोंमें प्रेम होता है । यदि पुत्रकी कामनाके लिये प्रेम हो तब कुपुत्र पुत्रमें भी प्रेम होना चाहिये । ऐसा तो नहीं देखते हैं । इस लिये पुत्रकी कामनाके लिये माता पिताका पुत्रमें प्रेम नहीं होता ॥ ३ ॥ हे मैत्रेयि ! ससारके जिस जिस पदार्थमें पुरुषोंका प्रेम होता है वह अपने आत्माके सुखके लिये होता है, इसीसे सिद्ध होता है । सबसे अतिप्रिय अपना आत्मा ही है और सुखरूप भी आत्माही है, आत्माके सुखके लिये पुरुष स्त्री पुत्रादिक विषयोंमें प्रेम करता है, वास्तवसे उनमें सुख नहीं है, वह दुःखरूप है, सुखरूप आत्मा ही है । इसप्रकार याज्ञवल्क्यने मैत्रेयीको उपदेश करके तिसको भी जीवनमुक्त कर दिया ॥ १० ॥

प्रथम किरण ।

हे चित्तवृत्ते ! शुक्रदेवजीने भी स्त्रीरूपी विषयकी निंदा की है, यह कथा देवीभागवतमें आती है । जिस कालमें व्यास भगवान्ने शुक्रदेवजीको विवाह करनेके लिये कहा है उस कालमें शुक्रदेवजीने स्त्रीके सगसे जो दोष होते हैं उनको दिखाया है । उनको भी सुनो—

कदाचिदपि मुच्येत लोहकाष्ठादियंत्रितः ॥

पुत्रदारैर्निबद्धस्तु न विमुच्येत कर्हिचित् ॥ १ ॥

लोह काष्ठादिका वेडी जिसके पावमें पड़जाती है उससे कदाचित् वह पुरुष किसी कालमें छूट भी सक्ता है, परन्तु स्त्री पुत्रादिकोंके मोहरूपी वेडीसे पुरुष कभी भी छूट नहीं सक्ता है ॥ १ ॥

अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये ॥

तेभ्यः परो न सूखोऽस्ति सधर्मा श्वाश्वसूकरैः ॥ २ ॥

जो पुरुष वेद और शास्त्रोंका अध्ययन करके फिर भी स्त्रीपुत्रादिरूप ससारमें रागवान् है, उनसे बढकर और कोई भी सूख नहीं है क्योंकि स्त्रीपुत्रादिरूप ससारमें रागवान् तो ककर बोडा सूकर आदिक भी हैं तिनको वेद शास्त्रका क्या फल हुआ किन्तु कुछ भी नहीं ॥ २ ॥

गृह्णाति पुरुषं यस्माद् गृहं तेन प्रकीर्तितम् ॥

क सुखं बन्धनागारे तेन भीतोऽस्म्यहं पितः ॥ ३ ॥

शुक्रदेवजी कहते हैं, हे पिता ! जिस हेतुसे गृहस्थाश्रम पुरुषको ग्रहण करलेता है इसी हेतुसे इसका नाम गृह रक्खा है इस गृहस्थाश्रमरूपी कैदखानेमें सुख कहा है ? जिस हेतुसे इसमें सुख नहीं है इसीसे मैं भयभीत हुआ हूँ ॥ ३ ॥

मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राण्यधीत्य च ॥

बन्धते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः ॥ ४ ॥

दुर्लभ मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर और वेदशास्त्रोंका अध्ययन करके फिर भी यदि संसारमें बन्धायमान हो आय तब फिर संसार बन्धनसे छूटेंगा कौन ? ॥ ४ ॥

इन्द्रोपि न सुखी तादृग्यादृग्भिक्षुस्तु निःस्पृहः ॥

कोऽन्यः स्यादिह संसारे त्रिलोकीविभवे, सति ॥ ५ ॥

शुकदेवजी कहते हैं कि, जैसा निःस्पृह भिक्षुक सुखी है वैसे इन्द्र भी सुखा नहीं है, त्रिलोकीके विभव होनेपर जब इन्द्र भी निःस्पृह भिक्षुकके तुल्य सुखा नहीं है तब दूसरा कौन सुखी होसक्ता है ? किन्तु कोई भी नहीं होसक्ता है ॥ ५ ॥ ऐसे वाक्योको कहकरके शुकदेवजी वनको चले गये । विवेकाश्रम कहते हैं । हे चित्तवृत्ते ! यदि स्त्रीभोगमें सुख होता तब शुकदेवजी तिसका त्याग क्यों करते ? जिस हेतुसे शुकदेवजीने विवाह ही नहीं किया था इसीसे सिद्ध होता है कि, स्त्रीके साथ भोगमें सुख नहीं है ॥ ११ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयमें एक और लौकिक दृष्टांत तुमको हम सुनाते हैं. एक ग्रामके बाहर एक महात्मा रहते थे । वहांपर उनके पास बहुतसे लोग सत्संग करनेके लिये जाते थे, एक महाजनका लडका भी उनके पास नित्यही जाता था । एक दिन लडका कुछ देरमें महात्माके पास गया तब महात्माने कहा आज तुम देर करके कैसे आये हो ? लडकेने कहा आज हमारी सगाई हुई है, ससुरालसे तिलक चढानेको आया था इसलिये देर होगई है, महात्माने कहा आजसे तुम हमारे कामसे गये, फिर कुछ कालके पीछे लडका चार पाच दिन नागा करके महात्माके पास गया तब उन्होंने पूछा कि, चार पाच दिन क्यों नहीं आया । तब लडकेने कहा हमारी शादी हुई है उसी काममें हम बंधे रहे और इसीसे मेरा आना नहीं हुआ है । महात्माने कहा आजसे तू माता पिताके कामसे भी गया, फिर एक दिन लडका कुछ देर करके उनके पास गया, फिर उन्होंने देर करके आनेका कारण पूछा, तब लडकेने कहा आज हमारे घरमें लडका उत्पन्न हुआ है इसीसे आनेमें देर होगई है, तब महात्माने कहा आजसे तुम अपने कामसे भी गये । लडकेने कहा महाराज ! पहले जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाल सुना था तब आपने कहा था तुम आजसे हमारे कामसे गये, फिर विवाहको सुनकर कहा था माता पिताके कामसे गये, आज लडकेकी उत्पत्तिको

सुनकर आपने कहा अब तुम अपने कामसे भी गये, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं समझा । इसका मतलब मेरेको समझा दीजिये । महात्माने कहा जबतक तुम्हारी सगाई नहीं हुई थी तबतक तुमको कोई चिंता न थी क्योंकि तुम तिस कालमें गृहस्थी नहीं कहलाते थे और जो कुछ तुम कमाते थे उसमें कुछ हमारी सेवा भी करते थे, कुछ माता पिताकी सेवा भी करते थे । सगाईके होनेपर विवाहकी चिंता पडी, तब तुम जो कुछ कमाते सो विवाहके लिये जमा करते, कुछ माता पिताकी भी कभी-२ सेवा करते थे, जब कि विवाह होगया तब फिर जो तुम कमाते सो स्त्रीके अर्पण करते, तब माता पिताके कामसे गये, जबतक लडका नहीं हुआ था तबतक जो तुम कमाते थे उसको स्त्रीके साथ मिलकर आप भोगते थे, अब जो तुम कमावोगे सो सब लडकोके लालनपालनमें खर्च होगा, इसलिये अब तुम अपने कामसे भी गये और पूरे गृहस्थ होगये याने बसे गये और कैदमें पडगये ॥ १२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! स्त्री बन्धनका हेतु है, इसी स्त्रीके पीछे सुन्द और उपसुन्द दोनो परस्पर लडकर मर गये । नहुप राजाको स्त्री भोगके पीछे स्वर्गसे गिरन पडा । एक स्त्रीके पीछे वाली सारा गया और रावणका भी सारा घर स्त्रीके पीछे ही चौपट होगया । शिशुपालका वध भी स्त्रीके पीछे हुआ और स्त्रीके पीछे महाभारत हुआ, जिसमें कि बडे २ शूर वीर भीष्म और कर्णाडिक सब स्वाहा होगये और हजारों राजा स्वयंवरोंमें परस्पर कटकर मर गये हैं, अर्थात् महान् अनर्थोंका कारण स्त्री है । साप जब काटता है तब पुरुष मरता है, परन्तु स्त्रीके रूपका चिन्तन करनेसे ही पुरुष मर जाता है, विष खानेसे एकही जन्ममें पुरुष मरता है स्त्रीरूपी विषके सम्बन्धसे अनेक जन्मोंमें जन्मता मरताही रहता है, इसलिये स्त्रीही बंधनका हेतु है । जिस पुरुषने इसका त्याग कर दिया है, व स्वप्नमे भी जो इसका स्मरण नहीं करता है, उसने मानो संसारका ही त्याग करदिया है, वही आत्मानन्दको प्राप्त होता है । हे चित्तवृत्ते ! जैसे स्त्री दुःखका कारण है, तैसे पुत्र भी दुःखका कारण है, अब दूसरे विषयमें तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक बनिया बडा धनी था परन्तु तिसके घरमें पुत्र नहीं था, पुत्रकी उत्पत्तिके लिये तिमने बहुतसे यत्न किये तव भी तिमने घरमें पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ । एक दिन रात्रिके समय वह लीके साथ पलंगपर सोया था तदनमें तिसको स्त्रीने कहा यदि परमेश्वर हमको एक लटका देदे तव तिमको हम कहापर सुलावेगी वनियाने कहा तिसको हम बीचमें सुलावेगे, ऐसा कहकर थोडासा पीछे हटा, फिर स्त्रीने कहा यदि परमेश्वर एक और लटका देदे तव तिसको कहा सुलावेगे त्योंही बनिया पीछेका हटने लगा त्योंही तडाकमें नाचका गिरा और तिसकी टैंगडी टूटगई । तव तो बनिया रोने लगा और डर डरसे लोकभी पहुँच गये । लोकोंने बनियासे पूँछा किमने तुम्हारी टैंगडी तोड दी, बनियाने कहा बिना हुए लडकेने हमारी टैंगडी तोड दी, यदि नडा उपन्न होता तव न मालूम क्या उपद्रव करता । हे चित्तवृत्ते ! पुत्र भी दोनों प्रकारसे दुःखका ही कारण है । जिनके पुत्र नहीं हैं, वह तो पुत्रोंवालोंको देख करके इसीमें दुःखी रहते हैं, जो हमारा द्रव्य क्या जाने कौन लेगा, हम बडे अभाग हैं, जो हमारे पुत्र नहीं हैं, और ये बडे भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके पुत्र हैं । गरीबोंसे धनवानोको पुत्रके न होनेका बडाभारी सन्ताप होता है और वह उसी सन्तापमें रात्रि दिन जलते रहते हैं, और जो कदाचित् उनके पुत्र होकर मरजाता है तव साथही उसके उनका भी मरणही होजाता है, और जिनके पुत्र तो हैं परन्तु कुपात्र हैं उनको न होनेवालोंसे भी अधिक सन्ताप होता है जिसके सुपात्र पुत्र हैं उसको तिसके न जीनेकी ही चिंता रात्रि दिन लगी रहती है, फिर तिसके विवाहकी चिंता रहती है, तिसकी सन्ततिकी चिंता रहती है और हजारों चिंता पुत्रवालोंको भी बनी रहती हैं, फिर जिनके पुत्र हो हो करके मृत होजाते हैं उनको बडी चिन्ता रहती है, जिनके विवाहे हुए पुत्र मरजाते हैं उनको तो जन्मभर पुत्रके शोकमें रोनाही पडता है । हे चित्तवृत्ते ! इसीलिये पुत्र भी महान् दुःखोंका खान है ॥ १३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इस लोकमेंही पुत्र दुःखसे नहीं लडा सक्ते हैं तव मरे पीछे

क्या छुडावेंगे, केवल धनके लेनेके वास्ते ही उत्पन्न होते हैं, इसीमें तुमको एक और दृष्टांत सुनाते हैं:-

एक नगरमें एक बडा मारी कोई साहूकार रहता था तिसके पाच पुत्र थे, जब कि, वह साहूकार बूढा होगया तब तिसके सब द्रव्यको पुत्रोने अपने कब्जेने करलिया और पितासे कहदिया आप डेवढीमें बैठे रहा करिये और भोजन चौकेमे जाकर कर आया करिये और किसी कामसे सरोकार न रखिये और किर्मी गैर आदमीको मकानके भीतर न आने दीजिये इतनाही काम आपके जिम्मे रहेगा । पिताने लडकोंकी बातको मानलिया । कुछ दिन जब बीते तब तिसके पुत्रोंकी स्त्रियोने अपने पतियोसे कहा तुम्हारे पिताके डेवढीमें बैठे रहनेसे हमको भीतर बाहर जानेसे बडी दिक्कत होती है और रास्ता भी सब थूक करके बिगाडे देते और जब कि, चौकामे रोटी खानेको आते हैं तब थूक २ के चौकेको भी अग्र करदंते हैं और अभी इनके मरनेका भी कुछ ठिकाना नहीं लगता है, क्या जानै यह कब मरेगे ? हमको तो इनने बडा तंग किया है अब आप ऐसा करिये अपने पिताको कोठेके ऊपरवाला जो कमरा है उसमें रखिये वहापर पाखाना और पेशाबकी जगह भी पास है और थूकनेका भी आराम होगा, जहा चाहे वहा थूका करें और एक घण्टी इनके पास धर दीजिये जब कि इनको भूख प्यास लगे तब उस घण्टीको यह हिला दिया करै उसी जगहमे हम अन्न पानी इनको पहुँचादेंगी । लडकोंने विचार, यह तो अच्छी सलाह है इसमे पिताजीको बडा आराम रहेगा और घरके लोकोका भी आराम रहेगा । लडकोंने बापको समझा बुझाकर सबसे ऊपरके कमरेमे उनका डेरा लगा दिया, अब वह बूढे उसी जगहमे रहने लगे । जब कि भूख लगती या प्यास लगती तब घण्टीको हिला देते अन्न और जल उनको उसी जगहमें पहुँच जाता, जब कि उनको ऊपर रहते कुछ दिन बीते, तब एक दिन उनका छोटासा पोता ऊपर उनके पास चला गया और उस घण्टीसे वह खेलने लगा । वह भी तिससे लाड प्यार करनेलगे । थोड़ी देरके बाद वह लडका घण्टीको लिये हुए नीचे उतर आया । पीछे जब उनको भूख प्यास लगी तब देखे तो घटी नदारद है, आवाज निकलती नहीं । नीचे

उतरनेकी शरीरमें ताकत नहीं । अब वह क्या करें अब सिवाय शोकके और क्या होसक्ता है ? तब अपने मनमें वार २ कहते हैं हमने व्यर्थ आयु खो दी । जिन पुत्रोंको बडे कष्टसे पाला, वह तो सब धनको लेकर अलग होगये हैं अब कोई जलभी नहीं देता है, अब कोई उपाय भी नहीं बनता, बस ऐसा नोच करते २ थोड़ी देरमें वह यमपुरमें पहुच गये । रात्रिको जब ऋद्धके घरमें आये तब उन्होंने स्त्रियोंसे पूछा लालाको खाना दाना ऊपर पहुंच गया है ? उन्होंने कहा आज तो वंटीकी आवाज सुनाई नहीं पटी । मालूम होता है उनको आज भूख प्यास नहीं लगी है । लटकोंने जब ऊपर जाकर देखा तो काम तमाम था । फिर लाला २ करके रोने लगे और तुरन्त इमशानमें ले जाकर फूंकफूंक दिया. हे चित्तवृत्ते ! जो पिता अनेक कष्टोंको उठाकर पुत्रकी पालना करता है वही वृद्धावस्थामें पुत्रोंको ग्रहरूप करके प्रतीत होने लगता है और पुत्र पौत्र सब तिसके मरणका ही चिंतन करते हैं, न तो कोई प्रीतिसे सेवा करता है और न कोई कष्टमें सहायक होता है, केवल द्रव्यको लेनाही जानते हैं, तब भी मूर्ख लोक पुत्रोंमें मोहका त्याग नहीं करते हैं ॥ १४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको सुनो—एक बूढेको तिसके पोतेने किसी वार्तापर दो तीन बात मारी और घरसे बाहर करदिया. तब वह बूढा अपने द्वारपर बैठकर रोता भी जाय और पोतेको गाली भी देता जाय । इतनेमें एक महात्मा उस रास्तेसे आ निकले, उन्होंने बूढेसे पूछा बाबा ! क्यों रोते हो क्या कोई तुमको दुःख है ? बूढेने कहा हमारे पुत्र पौत्र सब बडे नालायक हैं, हमारे सब धनको अपने काबूमें करके अब हमको अच्छा खाने-को भी नहीं देते हैं, मैं बोलता हूँ तब दौडकर मारने लगते हैं, आज हमको मोतेने लातोंसे मारा है, इसीवास्ते मैं अब दु खी होकर रोता हूँ और गाली भी देता हूँ, सिवाय इसके ओर मेरेसे कुछ बन नहीं पडता है । महात्माने कहा शबा ! ये पुत्र पौत्र तो सब अपने २ सुखके यार हैं, जबतक तू इनको सुख देता रहा तबतक ये सब तेरी खातिर करते रहे, अब तुम इनको सुख देने लायक नहीं रहे, अब ये सब तुम्हारा निरादर करते हैं, ससारमें सब कोई

अपने सुखके लिये एक दूसरेसे प्रीति करते हैं । जिस कालमें जिसको जिससे सुख नहीं मिलता उस कालमें तिसका वह त्याग कर देता है या तिसका तिरस्कार करदेता है । बाबा ! इन सबका त्याग करके अब तुम हमारे साथ चलो और बाकी आयुको परमेश्वरके भजनमें व्यतीत करो, जो तुम्हारा परलोक भी बनजाय, इस मोह मायाका त्याग करके जल्दी उठो, अब देर करनेका समय नहीं है । बूढ़ेने कहा आपको किसने चौधरी बनाया है, जो हमसे वरको और सम्बन्धियोंके छोड़नेका उपदेश करने लगे हैं, वह हमारा पोता हम उसके दादे, तुम कौन हो ? जो उपदेश करनेको खड़े होगये हो, पोता हमारा जीता रहे हमको पडा मारे । बालक मारते भी हैं, तब क्या कोई उनके मारनेके पीछे अपना घर छोड देता है, जो आप हमको घर छोडनेका उपदेश करते हैं । महात्मा कहने लगे देखो मोहकी महिमा ! ऐसी दुर्दशा होनेपर भी मुखोंको सम्बन्धियोंसे और गृहसे वैराग्य नहीं होता है महात्मा ऐसे कहकर चले गये ॥ १५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! पुत्रकेही विषयमें एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

एक नगरमें एक साहूकार बडा धनी था, तिसके चार लडके थे । जब कि, वह चारों लडके दूकानका काम सँभालने लायक होगये तब साहूकारने थोडा २ धन उनको देकर अलग दुकानें करादीं और बाकी धनको जिस कमरेमें वह रहता था उसका दीवारोंके भीतर धरकर ऊपरसे चुनवाकर गच करवा दिया, दैवगतितसे थोडे दिनके पीछे वह बीमार होगया और एकदमसे तिसकी जवान बंद होगई । तब बिरादरोंके लोक और यार मित्र तिसको देखने आये और तिसकी बुरी हालतको देखकर लोकोंने तिससे कहा अब अंतका समय है कुछ दान पुण्य करिये । तब बनियेने कमरेकी दीवारोंकी तरफ हाथ किया उसका मतलब यह था जो इनमें धन गडा है निकालकर दान पुण्य करावो; लडके तिसके तात्पर्यको समझ गये जो इनमें हमसे छिपाकर इन दीवारोंमें धनको गाडा है, तब लडके कहने लगे लाला कहता है जो कुछ कि मेरे पास था वह तब तो मैंने दीवारों

पर लगा दिया अब दान कहासे कर्म । लोकोने कहा टीक कहता है तब
बनिया माथेपर हाथ धरकर रोने लगा, लडकोने कहा लाला रोओ मत,
हम तुम्हारे पीछे सब काम अच्छी तरहमें चलावेंगे । रानमें बनियाके प्राण
परलोकमें पहुँच गये । उठाकर लडकोने फफफाक दिया, मनका मनमें ही
एहगई । हे चित्तवृत्ते ! जिन पुत्रोंके लिये मैरुडो अनर्थोंको करने धनको
कमाते है और लाखों रुपयोंका धन उनको देजाने है उन पुत्रोंका यह हाड
है । फिर भी मूर्खलोक पुत्रोंमें मोहको नहीं त्यागते हैं इसीने वार वार जन्मते
मरते हैं ॥ १६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! और भी एक दृष्टान्तको सुनो-एक कालमें नारदजी अपने
शिष्य तुम्बुरुको साथ लेकर पृथ्वीपर पर्यटन करने लगे । एक नगरमें
जाकर नारदजी, बाजारमें एक पीपलका वृक्ष था तिसके थपेपर बैठ गये,
साथ उनका शिष्य तुम्बुरु भी बैठ गया, जहापर नारदजी बैठे थे इनके
सामनेही एक बनियेका दूकान था उस दूकानके आगेसे एक कसाई
बहुतसे बकरोंको लेकर अपने रास्तेसे चला जाता था । उन बकरोंमेंसे
एक बकरा कूदकर बनियाका दूकानके भीतर चला गया और अनाजके ढेर-
मेंसे उसने एक मुह मारा । बनियाने उस बकरेके मुखसे दाने निकास लिये और
तिसको गर्दनसे पकडकर कसाईके हवाले किया और कसाईसे कहा जब कि
इसको हलाल करोगे तब इसका गर्दनका मास मेरेको देना, कसाई बकरेको
लेकर जब चला तब नारदजी इस वृत्तांतको देखकर हसे । तब तुम्बुरुने नारद-
जीसे पूछा महाराज हँसनेका कारण क्या है ? नारदजीने कहा जिस बकरेने
इस बनियाकी दूकानमें घुसकर अनाजसे मुख भरा था वह बकरा पूर्वजन्ममें इस
बनियेका पिता था । इस दूकानमें जाने आनेका तिसका अभ्यास पडा था इसीसे
वह कूदकर इसी दूकानमें गया और एक मुट्ठी अनाजकी उसने अपने मुखमें ली ।
उसको भी तिसके बेटेने खाने न दिया, किन्तु तिसके मुखसे निकास लिया और
यह भी कसाईसे कह दिया जब इसको मारोगे तब इसका गर्दनका मास मेरेको
खानेके लिये देना । जिस बनियेने बडी २ देवतोंके आगे मानत मानकर

जैसे पुत्रको पायाथा, उस पुत्रने एक मुट्टी अन्नकी भी तिसको खानेको न दी इसी वार्त्ताको देखकर हम हँसे थे. नारदजी कहते हैं—जिन पुत्रोंसे किसीको सुखका केशमात्र भी प्राप्त नहीं होता है मूर्खलोक उन्हींकी उपासना करते है । अपने कल्याणके लिये एक क्षणभर भी निष्काम होकर ईश्वरकी आराधना नहीं करतेहैं। यदि कोई घडी दोघडी ईश्वरका स्मरण करताभी है तब भी वह पुत्रोंके सुखके लिये ही करताहै जो मेरे पुत्रादिक सब बने रहें । अपने कल्याणके लिये नहीं करता है । इससे बढकर और क्या अज्ञान होगा ? ॥ १७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जिन धनियोंके पुत्र नहीं होते हे वह किसी दूसरेके पुत्रको गोदमे लेकर सब धन उसको दे देते हैं, अपने उद्धारके लिये कुछ भी नहीं खर्च करते हैं, या जन्मभर इसी दुःखमें संतप्त रहते हैं । एक महात्मा अपने शिष्योंको साथ लेकर भिक्षाके लिये एक सेठकी दूकानपर गये और तिस सेठसे भिक्षा करनेको कहा और वह सेठ बडे भारी गदलेपर बैठा था । सोने चांदी और हीरे पत्तोंका ढेर तिसके आगे लगाथा । सेठने नौकारसे कहा इनको भीतर लेजाकर भिक्षा करा देवो । वह महात्मा भीतर जाकर जब भिक्षा करने लगे तब एक शिष्यने गुरुसे कहा, महाराज ! आप कहते हे कि, ससारमें सुखी कोई नहीं है, देखो ! यह सेठ कैसा सुखी है, लक्ष्मी इसकी नृत्तकारी कर रही है । गुरुने कहा चलतीं दंफा इससे सुखकी वार्त्ता पूँछकर तुमको बतावेगें, जब भोजन करके ब्रह्मात्मा बाहरको आये तब सेठसे पूँछ. तुम तो बडे सुखी प्रतीत होते हो, सेठ रोकर कहने लगा मेरे बराबर ससारमें कोई भी दुःखी नहीं है, परमेश्वरने मेरेको बहुतसा धन दिया है परन्तु पुत्रके विना सब धन व्यर्थ है। मेरेको यही बडा भारी दाह होरहा है, जो मेरे पीछे इस धनको कौन खायगा । गुरुने चेलेसे कहा तुम कहते थे यह बडा सुखी है । यह तो सबसे दुःखी निकला । अब चलो यहांसे, ऐसे कहकर महात्मा चले गये । हे चित्तवृत्ते ! पुत्र नः हुआ, हुआ भी तो दुःखको ही देता है ॥ १८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! पुत्र सम्बन्धी वासना भी परम दुःखकाही कारण है इसलिये विवेकी पुरुषको उचित है जो इन मलिन वासनाओंका भी त्याग ही करदेवे । हे

द्विनष्टने । यह जो परिवारका मोह है, यह बड़ा दुःखदाई है, विवेकी पुरुष मोहके हटानेके लिये स्त्री पुत्रादि परिवारका त्याग कर देने ह, अब इसी विषयमें तुमको एक दृष्टत सुनाते हैं—

एक नगरमें एक बनिया बड़ा धनिक रहता था । तिसकी स्त्री नवयौवना बड़ी रूपवती थी, दैवयोगसे तिसकी स्त्री किसी रोगसे बहुत बीमार होगई अर्थात् उसके बचनेकी कुछ भी उम्मेद न रही, तब वह बनिया स्त्रीके समीप बैठकर बड़ा रोदन करने लगा । स्त्रीने कहा तुम क्यों रोदन करते हो ? मेरे मरनेके पीछे तुम तो अपना और दूसरा विवाह भी करलेवोगे, दुःख तो मेरेको है जैसे मैं विनाही ससारिक सुखके दंगे भर जाऊँगी । बनियाने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, स्त्रीने कहा इस बातको मैं नहीं मान सकती, जो धनी होकर फिरभी दूसरा विवाह न करे । बनियाने मोहके वशमें होकर अपनी इन्द्रीको काटडाला और कहा अब तो तू मानेगी ? स्त्री चुप होगयी । दैवयोगसे वह धीरे २ अच्छी होगयी बनियाको फिर बड़ा भारी दुःख हुआ, क्योंकि स्त्री पुरुषकी इच्छा करै और बनियाके पास अब वह बात न रही जिससे कि तिसको प्रसन्न करै, तब तिसकी स्त्री परपुरुषोंके साथ खराब होनेलगी, बनियां रात्रि दिन इमी सतापसे जलता रहे, एक दिन दैवयोगसे गुरु नानकजी और भाई मरदाना तिस नगरमें आ निकले, तिस सेठकी विभूतिको देखकर भाई मरदानाने कहा गुरुजी ! यह सेठ तो बड़ा सुखी दिखता है । गुरुजीने कहा ऊपरसे सुखी दिखता है परन्तु भीतर कुछ न कुछ इसको भी जरूर दुःख होगा, देखो तुम्हारे सामने हम इससे पूछते हैं, गुरुजीने जब उस सेठसे सुख पूछा तब उसने अपने दुःखका सब हाल कह सुनाया । गुरुजीने भाई मरदानासे कहा इस गृहस्थाश्रममें रहकर कोई भी सुखी नहीं है अज्ञानी पुरुषोंको तो विषय अप्राप्ति कालमें भी दुःखदाई होते हैं, और विवेकी पुरुषोंको प्राप्ति कालमें भी दुःखदाई ही दिखाई पडते हैं, यह मोहही पुरुषोंको दुःख देता है इसका त्यागही सुखका हेतु है ॥ १९ ॥

हे चित्तवृत्त ! यह द्रव्यभी अनर्थोकार्ही कारण है और अनर्थोकारके ही सत्रह भी होता है और संग्रह हुआ भी दुःखको ही देता है, क्योंकि एक तो दसको रक्षा करनेमें बड़ा कष्ट होता है, फिर धनके लोभसे चौर मार भी डालते हैं, यदि चौरोंने धनको लेकर जीताभी छोड़ दिया, तब निज धनके चले जानेके रजसे आपही मर जाना है, फिर धनी लोकोंका परस्पर विरोध भी अधिक रहता है, धिक्की पुरुष दसको दुःखका कारण जानकर दससे अलगही रहते हैं। हे चित्तवृत्त ! चार पुरुष रास्तामें चले जातेये। आगे रास्तामें एक अशरफियोंकी थैली पडीयी चारोंने मिलकर उठा ली। एक बगीचामे जाकर उन्होंने आपसमें बांटनेकी सलाह की, तब एकने कहा भूख लगी है दो आदमी आममें जाकर दो खयेकी मिठाई लेआवो उस मिठाईको खाकर बाटेंगे और संगुनमी होजायेगा। दो आदमी मिठाई लेनेको जब गये तब उन्होंने आपसमें सलाह की कि, मिठाईमें विषको डालकर ले चलो जिमसे कि वह खातेही मरजाय और सब धनको हमही दोनोजने आधा २ बांट लेंगे। इधर तो यह विष डालकर मिठाई ले चले और उधर उन्होंने यह सत्यह की कि, जब वह मिठाई लेकर आवे दूरसे आवे हुओंको गोलियोंसे मारकर सब धन हमकी दोनों आपसमें बांट लेदेंगे, जो ही वह दोनों मिठाई लिये हुए आते उनको दिखाई पडे त्योही उन्होने गोलियोंका दागा, वह दोनों मरगये तब उन्होने कहा मिठाईको खाकर बाटेंगे। ज्योही उन दोनोंने मिठाईको खाया त्योही वह दोनोंभी मरगये और वह मोहरोकी थैली उसी जगहमे पडी रही। हे चित्तवृत्त ! हजारों व्यक्तों उस धनके ऊपर मरगये, धन किलीका भी न हुआ ॥ २० ॥

हे चित्तवृत्त ! यह राज्य भी महान् अनर्थोकार्ही कारण है, और दुःखका हेतु है। प्रथम तो राजाको नित्यही शत्रुओंसे भय बना रहता है, दूसरा चौरोंसे भय रहता है, तीसरा नम्यन्धियोंसे भी भय बना रहता है जो राज्यके लोभसे कोई बोखा देकर नगर न डाले, फिर अपने पुत्र और नाच्योंसे भी भय बना रहता है, क्योंकि राज्यके लोभसे पुत्र और भाई भी राजाको विष देकर मार डालते हैं। दूयें धनके द्वेष दिया था और भी धनको विष देकर राजाको मार

डाला है इन्हीं दुःखोंसे राजाओंका रात्रिमें निद्रा भी ठीक नहीं आती है और न वह रात्रिभर एक ही पर्यंकपर सांत हैं । कैकेयीने पुत्रके राज्यके लोभसे राम-जीको वनवास करादिया था सुग्रीवने वालिको मरवा दिया था, कसने देवकीके पुत्रोंकी हत्या करडाली, दुर्योधनने राज्यके लोभसे अपने वशका ही उच्छेदन करदिया और राजमद भी मैकडो अनर्थोंको कराता है जिसका फल फिर अन्तमें राजाको नरक भोगना पडता है । इसीवास्ते शास्त्रोंमें राजाका अन्न खाना भी मना लिखा है । मनुस्मृतिमें लिखा है, दश कसाईके अन्न खानेमें जितना दोष होता है उतनाही दोष एक कुंभारके अन्न खानेमें होता है और दश कुंभारके अन्न खानेमें जितना दोष होता है उतनाही दोष शराबको जो बेचता है उसके अन्न खानेमें होता है और कलवारोंके याने शराबके बेचनेवालोंके अन्न खानेमें जितना दोष होता है, उतनाही दोष एक वेश्याके अन्न खानेमें होता है और दश वेश्याके अन्न खानेमें जितना दोष होता है उतना ही दोष एक राजाके अन्न खानेमें होता है, क्योंकि राजाका द्रव्य अनेक प्रकारके अधर्मोंसे मिश्रित होता है इन्हींसे राज्यभी अनेक अनर्थोंका कारण है । यदि राज्य अनेक अनर्थोंका कारण न होना तो बड़े बड़े राजा इसका त्याग क्यों करदेते? और त्याग उन्होंने किया है इसीसे साबित होता है जो राज्य भी अनेक अनर्थोंका हेतु है । जिन्होंने इसको दुःखरूप जानकर स्वीकार ही नहीं किया है और जिन्होंने स्वीकार करके फिर पश्चात् इसका त्याग करदिया है उनको भी दो चार कथाओंको तुम्हारे प्रति सुनाते हैं ।

हे चित्तवृत्ते ! प्रथम तुम महान्मा प्रियव्रतकी कथाको सुनो । प्रियव्रत चक्रवर्ती राजा हुआ है और बहुत कालतक इसने राज्य किया है । एक दिन राजाके चित्तमें विचार उपजा तब राजा कहने लगा अहो ! बड़ा कष्ट है, दुःखरूप जो राज्य है इसमें सुख मानकर मैंने अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया और इन्द्रियोंके वशवर्ती होकर अविद्यारूपी कूपमें अपनेको गिरा दिया और कामके वशमें होकर मैं अपनी स्त्रीका दास बना रहा । कैसे वनका मृग बालकोंका क्रीडाके लिये होता है, तैमैं मैंभी अपनी स्त्रीको क्रीडाके लिये मृग बना । धिक्कार है मेरेको ! जो मैंने राज्यके भोगोंमें अपनी आयुको व्यर्थ खो

दिया, मेरे तुल्य संसारमें बैसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे उत्तम शरीरको पाकर फिर मिथ्या भोगोंमें अपनी आयुको न्यतीत करेगा । अब मैं इस राज्यका त्याग करके आत्मसुखके लिये एकान्त देशमें निवास करके आत्मविचार करूंगा । ऐसा विचार करके राजाने पृथिवीका विभाग करके अर्थात् एक २ खण्ड एक २ पुत्रको दे दिया, आप वनमें जाकर एकान्त देशमें बैठकर आत्मविचार करने लगा । हे चित्तवृत्ते ! यदि राज्यमें अधिक सुख होता तब प्रियव्रत राजा चक्रवर्ती राज्यका क्यों त्याग कर देता ? और त्याग तिसने किया है इसीसे जाना जाता है राज्य भी दुःखरूप है ।

हे चित्तवृत्ते ! कृतवीर्य नाम करके एक राजा बड़ा प्रनापी और धर्मात्मा हुआ है । बहुत कालतक वह पृथिवीका राज्य करता रहा है । जब कि तिसका देहांत हुआ तब मंत्रियोंने और पुरोहितोंने और प्रजाने मिलकर कृतवीर्यके पुत्र अर्जुनको राजसिंहासन पर बैठनेके लिये कहा, तब अर्जुनने कहा हम राजसिंहासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि अन्तमें इसका फल नरक होता है, राजाके लिये जो धर्म लिखे हैं उनका निर्वाह होना कठिन है, राजाके लिये जो कर लेना प्रजासे लिखा है उसी द्रव्यसे दीन प्रजाकी पालना करनी और चोरोंसे तिसकी रक्षा करनी कही है । अपने आरामके लिये प्रजासे द्रव्य लेना नहीं लिखा है और न अधिक लेना लिखा है, तब भी कहीं २ अधिक लिया जाता है । क्योंकि भृत्यलोक भी अपने लोभके लिये प्रजाको सताते हैं, अकेला राज कहातक सब प्रजाको देख सकता है और तिसका हाल जान सकता है । और जो प्रजा अधर्म करती है तिसका पाप भी राजाको लगता है और राज्यके विघातक राग द्वेषादिक शत्रु भी राजाके सिरपर सदैवकाल गरजते रहते हैं, सहान् सन्ध्याका कारण राज्य है इसलिये मैं राज्यका ग्रहण नहीं करूंगा ऐसा कहकर वह उपराम होगया । हे चित्तवृत्ते ! यदि राज्यमें सुख होता तब कृतवीर्यका पुत्र अर्जुननामक तिसका त्याग क्यों करता ? ॥ २१ ॥

वैराग्याश्रम कहते हैं—हे चित्तवृत्ते ! इक्ष्वाकु वंशमें एक बृहद्रथ नाम करके बड़ा प्रतापी राजा हुआ है, जब कि राज्यसम्बन्धी भोगोंको भोगने २ तिसको बहुतसा काल बीत गया तब तिसके मनमें एक दिन बड़ा भारी वैराग्य उत्पन्न

हुआ, जिस दिन तिसको वैगन्य हुआ उसी दिन उसने पुत्रको गज-सिंहासन दे दिया और आप वनमें जाकर तप करने लगा । जब कि राजाको तप करते २ बहुतसा काल व्यतीत हो गया तब एक दिन शाकावनमुनि तिनके समीप आकर कहने लगे, हे वन्म ! हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हुए हैं, आप अब हमसे मनो वालिन्त वग मागो । राजा मुनिको दडवत् प्रणाम करके कहने लगा यदि आप मेरे पर प्रमन्न हुए हैं, तब आप मेरेको आत्मज्ञानका उपदेश करै, यही वर मैं आपसे चाहता हूँ । मुनिने कहा “ हे राजन् ! यह वर बड़ा दुष्प्राप्य है और किमी वरको मांगो जो पदार्थ कि आपको न प्राप्त हो उसको मागो ” राजाने कहा भगवन् ! ससारके किसी पदार्थको भी मैं स्थिर नहीं देखता हूँ क्योंकि सब पदार्थ नश्वर हैं, काल पाकर प्रलयकी अग्निसे सब समुद्र भी मूख जाते हैं और पर्वत भी सब प्रलयकालकी अग्निसे भस्म हो जाते हैं और जितने कि ध्रुवसे आदि लेकर तारागण हैं वे भी सब टूट जाते हैं अर्थात् नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । इसी तरह वृक्षादिक भी सब काल पाकर नष्ट हो जाते हैं, और पृथिवी आदिक पाच भूत भी सब नाशको प्राप्त होजाते हैं । कारणका नाश होनेसे कार्यका नाश स्वयं ही हो जाता है, और जितने कि इन्द्रादिक देवता हैं, वे भी सब अपने अपने पदसे प्रच्युत होजाते हैं । हे मुने ! ससारमें कोई भी पदार्थ मेरेको स्थिर नहीं दीखता है तब मैं किस पदार्थको आपसे मागूँ । हे मुनि ! जैसे अन्ध मेडक तालमें निराश्रम होकर दुःखको प्राप्त होता है, तैने मैं भी निराश्रय होकर इस संसाररूपी तालमें दुःखको प्राप्त होता हूँ । हे मुने ! मेरेको इस महान् दुःखसे छुड़ानेके लिये आप ही समर्थ हैं, मैं आपकी शरणको प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार करिये । हे मुने ! यह जो स्थूल शरीर है, सो भी पुरुषके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है, इसी हेतुसे यह शरीर अति अपवित्र है, जिम्का कारण ही अपवित्र होवे, तिसका कार्य कैसे पवित्र हो सक्ता है । फिर यह शरीर अस्थियोंका एक कोट है और ऊपर इसके चर्म भटा है, भीतर इसके मलमूत्र भरा है, ऐसे महान् अपवित्र शरीरमें बैठकर अज्ञानी मूर्ख इसका अभिमान करते हैं, ज्ञानवान् नहीं करते हैं । हे मुने ! यह शरीरही नरक है, आपके बिना कौन मेरेको इस नरकसे छुड़ानेवाला है। इस

प्रकारके वैराग्य करके युक्त राजाके बच्चोंको सुनकर ऋषि बोले—“हे राजन् ! हम तुम्हारे पर बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हारेमें पूर्ण वैराग्य है, इक्ष्वाकुवंशमें तुम पताका हो, तुमने अपना जन्म सफल कर लिया है, अब तुम भय मत करो, तुम कृतकृत्य हो ” ।

ऋषि कहते हैं हे राजन् ! शब्द म्पार्शादिक जितने विषय हैं, यह सब अनर्थको ही करनेवाले हैं, और नाशी हैं और मनसे लेकर जितने इन्द्रिय हैं ये भी सब अनर्थकारी हैं, अर्थकारी नहीं हैं। क्योंकि सदैवकाल पुरुषको विप-
थोंकी तरफ ही ये सब लेजाते हैं और उत्पत्ति नाशवाले भी हैं और जो आत्मा है सो इन सबसे परे है और सबका साक्षी है, जिस आत्माकी प्राप्ति सत्यको आश्रय करनेसेही होती है । क्योंकि ऐसा नियम है । जिसने सत्यका आश्रय करलिया है, उसने आत्माका ही आश्रय करलिया है, और सत्यका आश्रय करनेसेही मनका निरोध भी होता है, मनके निरोध होनेके अनन्तर हृदयमें आत्माका प्रकाश भी स्पष्ट प्रतीत होता है, शुद्ध मनमें ही आत्माका प्रकाश होता है, अशुद्ध मनमें नहीं होता है, अशुद्ध मन बधनका हेतु है, शुद्ध मन मुक्तिका हेतु है, मनके शुद्ध होजानेसे शुभ अशुभ कर्मोंका भी नाश होजाता है, कर्मोंके नाश होजानेसे ही पुरुष जीवन्मुक्तिको प्राप्त होता है ।

हे राजन् ! जैसे लकड़ियोंसे रहित अग्नि अपने कारणमें लय होजाती है, तैसे वृत्तियोंसे रहित हुआ मन भी अपने कारणमें लय होजाता है और तिसी कालमें आत्माका भी साक्षात्कार होजाता है । सो कहा भी है—

समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे ॥

यद्येवं ब्रह्मणि स्याद्वै को न मुच्येत बंधनात् ॥ १ ॥

हे राजन् ! जैसे जीवोंका चित्त विषयोंमें आसक्त होरहा है तैसेही यदि ब्रह्ममें आसक्त होजावे तब कौन पुरुष है जो संसाररूपी बधनसे न छूटे ॥ १ ॥

वर्णाश्रमाचारयुता विमृष्टाः क्रमानुसारेण फलं लभन्ते ॥

वर्णादिधर्म हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति २ ॥

हे राजन् ! जो पुरुष वर्णाश्रमके आचारमें अतिशय करके प्रीति रखते हैं, आत्मविचारमें प्रीतिको नहीं रखते हैं, वह मूढ कर्मोंके अनुसार फलको प्राप्त होते हैं । जो पुरुष वर्णाश्रमोंके अभिमानसे रहित होकर आत्मविचारमें प्रीति-वाले हैं, वह पुरुष आत्मानन्द करके वृत्त होते हैं ॥ २ ॥

हृत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम् ॥

साक्षिणं बुद्धिनृत्यस्य परमप्रेमगोचरम् ॥ ३ ॥

हे राजन् ! अपने हृदयरूपी कमलमें परमेश्वरका ध्यान कर, जो बुद्धिकी नृत्यकारीका भी साक्षी है और जो परम प्रेमका विषय है ॥ ३ ॥

हे राजन् ! एक कालमें मैत्रेय ऋषिने कैलास सपर्वतपर जाकर महादेवजीसे कहा हमको आत्मतत्त्वका उपदेश कीजिये । महादेवजीने जो तिसको उपदेश किया है, उसको भी तुम सुनो—

देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः ॥

त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत् ॥ ४ ॥

यह जो देह है यही देवमंदिर है, जो कि इस देहमें चेतन जीव है वही केवल शिव है, अज्ञानरूपी शिवनिर्माल्यका त्याग करके 'सोहभाव' करके तिसका पूजन करो ॥ ४ ॥

अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥

स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ ५ ॥

आत्माको सबमें एकरूप करके जो देखना है इसीका नाम ज्ञान है और मनका विषयोंसे रहित होजाना ही ध्यान है, मनके मलका त्याग करनेका ही नाम स्नान है, इन्द्रियोंके निग्रह करनेका ही नाम शौच है ॥ ५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! ऋषिने राजाको इसप्रकार उपदेश करके कृतार्थ कर दिया । हे चित्तवृत्ते ! यदि राज्यमें सुख होता तब बृहद्रथ राजा राज्यको त्याग करके वनको क्यों जाते ? इसीसे सिद्ध होता है कि राज्यमें सुख किंचित् भी नहीं है ॥ २२ ॥

हैं चित्तवृत्ते ! सत्ययुगमें ऋभु मुनिका पुत्र निदाघ नाम करके मुनियोंमें उत्तम बड़ा वैराग्यवान् एक मुनि हुआ है, तिस मुनिने बाल्यावस्थामें ही सम्पूर्ण विद्याओंका अध्ययन करके अपने पितासे तीर्थयात्रा करनेके लिये कहा, पिताने तिसको तीर्थयात्रा करनेका आज्ञा देदिया, तब वह तीर्थोंमें जाकर बहुत कालपर्यन्त भ्रमण करता रहा और साठे तीन करोड़ तीर्थोंमें तिसने स्नान आदिक कर्मोंको भी किया और अनेक प्रकारके जप दानादिकोंको भी तीर्थोंमें किया । इतना बड़ा परिश्रम करनेपर भी तिसका मन शान्तिको प्राप्त न हुआ । फिर वह अपने गृहमें लौट आया और अपने पितासे सब तीर्थयात्राका वृत्तान्त कहा और फिर पितासे कहा, इतने तीर्थोंमें स्नान करनेसे भी मेरा चित्त शांतिको नहीं प्राप्त हुआ है । बिना चित्तकी शांतिके पुरुषको सुख नहीं होता है और पुरुष जन्म मरणरूपी ससारसे भी नहीं छूटता है । जो जन्मता है वह अवश्यही मरता है, जो मरता है वह फिर अवश्यही जन्मता है घटीयन्त्रकी तरह यह चक्र अनादिकालका चलाही जाता है । हे पिता ! इस जन्म मरणरूपी चक्रसे छूटनेका कोई उपाय कहिंसे । और जितने कि व्रतादिक और जपादिक विधान किये हैं उन सबको तो मैं कर चुका हूँ, ये सब तो भ्रमजालमें बालनेवाले हैं, छुड़ानेवाले नहीं हैं । हे पिता ! संसारमें वही पुरुष जीता है जिसका मन विषयोंकी तरफ नहीं जाता है, जिसका मन विषयोंकी तरफ जाता है वह पुरुष जीता नहीं है किन्तु मरा ही है । हे पिता ! जैसे विषयोंमें सर्गी पुरुषोंको आत्मज्ञान एक भार जान पड़ता है तैसेही विवेकी पुरुषोंको शास्त्रका अध्ययन और पठन पाठन भी एक भार ही जान पड़ता है और जिन पुरुषोंका मन तृष्णा करके व्याकुल हो रहा है, वह सदैवकाल इतस्ततः भ्रमतेही रहते हैं । हे पिता ! जितने कि, सासारिक दुःख हैं उन सबका मूलकारण एक तृष्णा ही है, यह तृष्णा कैसी है ? कभी तो स्वल्प पदार्थको पाकर अलं होजाती है और कभी इन्द्रादिकोंके भोगको प्राप्त होकरके भी अलं नहीं होती है । हे पिता ! यह जो स्थूल शरीर है सो मूल मूत्रका एक भाजन है, इसीसे अत्यन्तही अपवित्र है और कृतज्ञ भी है, नित्यही क्षीण भी होता रहता है, इस शरीररूपी भाजनमें स्थित जो कामदेवरूपी पिशाच है, वह पुरुषका नित्यही

तिरस्कार करता रहता है. निम्न कामदेवकी पिशाचके बर्गीभूत होकर यह जीव युवावस्थामें उन्मत्त होकर त्रियुके पीछे दौड़ता है फिर जब वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है तब स्त्री पुत्रादिक और ढासी ढाम भी इसका तिरस्कार करते हैं और हँसी करते हैं । हे पिता ! मसारके जितने पदार्थ हैं सब नाश हैं. कोईभी स्थिर नहीं - ओंज जो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवता हैं, ये भी सब कालके बशको प्राप्त होकर नाशको प्राप्त होजाते हैं. एक क्षणमें जीवका जन्म होता है फिर किमी दूसरे श्रणमें इसका नाश होजाना है यानी मरण होता है । हे पिता ! सामारिक जितने पदार्थ हैं, वह सब अनित्य हैं । जो कि नाशमें रहित पदार्थ है उसीका मेरेको उपदेश करिये । ब्रह्म मुनि. पुत्रके वैराग्यको श्रवण करके अब आत्मतत्त्वका तिसको उपदेश करते हैं । हे निदाघ ! जैसे इच्छासं रहित स्थित रत्नोकी विलक्षण शक्तिसे लोक चेषा करने लगते हैं और जैसे मुन्दर रूपका विलक्षण शक्तिसे लोक मोहको प्राप्त होजाते हैं और जैसे चुम्बक पत्थरकी विलक्षण शक्तिसे लोहा चेषा करने लगता है, तैसे ब्रह्मचेतनकी विलक्षण शक्तिसे वह जगत् भी चेषा करता है । यह जगत् सब जड है, नाशी है और दृ.खरूप है, यह ब्रह्म नेतन है, नित्य है, सुखरूप है और वास्तविक इच्छासं रहित होनेसे यह अकर्ता है और व्यापक होनेसे सबके साथ सन्निधिमात्र होनेसे वह कर्ता है और एकही चेतन उपाधियोंके भेदसे नानारूप हो गहा है फिर एकका एक ही है, जैसे एक ही आकाश घट मठादि उपाधियोंके घटाकाश मठाकाश कहा जाता है और उपाधियोंसे रहित महाकाश कहा जाता है. तैसे ही जीव ईश्वरका भी भेद जान लेना। अन्त.करणरूपी उपाधियोंके अन्तर्गत चेतन जीव कहा जाता है, अन्त.करणरूपी उपाधियोंसे रहित ईश्वर कहा जाता है, वास्तवमें जीव ईश्वरका भेद नहीं है क्योंकि चेतन निरवयव निराकार है, निरवयवका भेद बिना उपाधिके कदापि नहीं होसकता है इसमें कोईभी दृष्टान्त नहीं मिलता है अतएव जीवही ब्रह्मरूप है, जैसे ब्रह्म चेतन अकर्ता अभोक्ता है, तैसे जीव चेतन भी अकर्ता अभोक्ता है। जैसे ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध है, तैसे जीव भी नित्यही शुद्ध बुद्ध है । हे निदाघ ! ऐसा निश्चय करनेसे पुण्य मुक्त होजाता है सो तुम भी ऐसा निश्चय करो इसी निश्चयका

नाम आत्मज्ञान है और ऐसेही निश्चयवालेका नाम आत्मज्ञानी है, जो ऐसे निश्चयसे रहित है वही अज्ञानी है । हे चित्तवृत्ते ! पिताके उपदेशसे निदाघको अपने स्वरूपका बोध हुआ । हे चित्तवृत्ते ! आत्मज्ञानको प्राप्तिका मुख्य साधन वैराग्य है सो तुम भी प्रथम वैराग्यका आश्रयण करो ॥ २३ ॥

चित्तवृत्ति विवेकाश्रमसे कहती है हे भ्राता ! मेरेको अब आप कुछ और भी वैराग्यवानोंकी कथाओंको सुनाओ जिनकी कथाओंको सुनकर मेरा भी चित्त वैराग्यवाला होजावे ॥

विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तवृत्ते ! किसी नगरमें एक राजाने नवीन चालका एक बड़ा भारी मकान बनवाया जब कि, वह मकान बन कर तैयार होगया, तब राजाने तिस मकानमें एक दिन सभा की और सब नगरनिवासियोंको निमन्त्रण दिया, सब लोक जिस कालमें तिस मकानके अन्दर आने लगे तिसी कालमें एक विरक्त महात्मा भी किसी रास्तासे पर्यटन करते हुए आ निकले और लोकोको मकानके अन्दर आते देखकर वह भी लोकोके साथ तिसी मकानमें चले आये, जब कि सब लोक आकर बैठगये तब राजाने कहा "मैंने यह मकान नया बनवाया है और आप लोकोको इस वास्ते बुलाया है जो आप लोक इस मकानके गुण दोषोको देखकर हमको बतावै । यदि किसी तरहको इस मकानमें कसर रह गई हो तब आप उसको मेरेको बता दीजिये तिस कसरको मैं हटा देऊंगा" । राजाकी वार्ताको सुनकर सब लोकोंने कहा यह मकान बहुतही उत्तम बना है किसी प्रकारकी भी कसर बाकी नहीं है । राजाकी और लोकोकी वार्ताको सुनकर वह महात्मा रोने लगे । राजाने उज्रपे पूछा आप रुदन क्यों करते हैं ? महात्माने कहा इस मकानमें दो कसरे बड़ीभारी रह गई हैं और वह किसी प्रकारसे भी हटा नहीं सकती हैं, इसवास्ते रुदन करता हूँ । राजाने कहा आप बता दीजिये उन कसरोको जहातक वनेगा हम उनके हटानेकी कोशिश करेंगे । महात्माने कहा एक कसर तो यह है कि जो एक ऐसा दिन आवेगा जिस दिन यह मकान सब नष्ट अष्ट होजावेगा, दूसरी कसर यह है कि एक दिन वह होगा जिस दिन मकानका

जनवानेवाला भी नहीं रहेगा, येही दो कसरें हटनी मुश्किल हं, इसी वास्ते हम रुदन करते हैं, जो आप वृथाही मकानका अहंकार कर रहे हैं । महात्माकी वार्ताको सुनकर राजाके मनमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और तिन्नी दिनसे राजा वैराग्यवान् महात्माओंकी सगति करने लग गया ॥ २४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी प्रकारका एक और भी दृष्टांत तुमको हम सुनांत हैं । हे चित्तवृत्ते ! एक महात्मा रास्तामें चले जाते थे, चलते चलते जब थक गये, तब उन्होंने दो घड़ी विश्राम करनेके लिये स्थानको इधर उधर देखा तब सड़कके किनारेपर एक अति रमणीय मंदिर उनको दिखाई पडा, महात्मा तिसके भीतर चले गये, वहापर पलगके ऊपर राजा बैठे थे और सिपाही लोग आगे तिसके हाथ बांधकर खडे थे, महात्मा भी जाकर वहांपर राजाके सामने खडे होगये, तब एक सिपाहीने महात्माको डाट करके कहा तुम यहापर क्यों आये हो ? महात्माने कहा हम इस मकानको धर्मशाला जानकर दो घड़ी आराम करनेके लिये यहापर आये हैं, सिपाहीने फिर डाटकर कहा अरे साधु ! तू कैसा बोलता है, महाराजके मकानको धर्मशाला बनाता है ? महात्माने कहा इस वर्तमान महाराजसे पहले इस मकानमें कौन रहता था ? राजाकें सिपाहीने कहा इन महाराजसे पहले इस मकानमें महाराजके पिता रहते थे । तब कहा उनसे पहले कौन रहते थे ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । फिर कहा उनसे पहले कौन रहते थे ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । महात्माने कहा जिस मकानमें मुसाफिर हमेशा ही आते जाते रहे वह धर्मशाला नहीं तो क्या है ? इस राजाके पूर्वज कितने ही इस मकानमे रह गये हैं, और आगे भी कितने ही रहेंगे फिर यह मकान भी धर्मशाला नहीं तो क्या है ? हमने इसमें क्या बेजा कहा है जो तुम हमपर नाराज हुए हो ? महात्माकी वार्ताको सुनकर राजाको बडा वैराग्य हुआ और राजाने अपनी भूलका महात्मासे बखशाया । हे चित्तवृत्ते ! जितनेक ससारमें लोकोंके गृह हैं, ये सब धर्मशालाही हैं, जीवरूपी पथिक तिसमें निवास करते चले जाते हैं, अज्ञानी उनमें ममताको करते हैं, ज्ञानी ममतासे रहित होकर निवासको करते हैं ॥ २५ ॥

विवेकाश्रम कहते हैं—हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं ।

पांचाल देशके किसी नगरके एक मन्दिरमें एक महात्मा रहते थे, वह महात्मा बड़े अभ्यासी थे, अभ्यास करते २ उनकी अवस्था चढ़ गई थी, योगवासिष्ठमें जो जीवन्मुक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका लिखी है, वह तिस पांचवीं भूमिकामें प्राप्त होगये थे, सदैवकाल हँसते रहते थे, किसीसे भी न बोलते थे न चालते थे । एकदिन दोपहरके वक्त तिस मन्दिरमें खेलनेके लिये चार पाच लडके छोटे २ जा निकले । एक लडकेने दूसरे लडकेसे कहा महात्माकी जाघे बड़ी मोटी २ हैं । इनकी एक जाघपर चौपड बनाकर खेलो । लडके तो मूर्ख होते हैं, तुरन्त दूसरा लडका अपने घरसे चक्कूको ले आया और चक्कूसे उनकी जांघके ऊपर लकीर खैचकर चौपड बनाना लगा । महात्मा न तो बोलते थे और न अपने आप कोई चेष्टाही करते थे महात्मा उनको मना कैसे करे, उनके आगे जांघको धर दिया, जब कि लडकोने दो चार चक्कू जांघ पर चलाये तब रुधिरकी धारें बहने लगीं लडके तो सब रुधिरको देखकर भाग गये । अब रुधिर बह रहा है और महात्मा हँस रहे हैं । इतनेमें कोई मयाना आदमी मंदिरमें आ निकला, तिसने देखा तो महात्माकी जांघसे रुधिर बह रहा है, महात्मा हँस रहेहे, तिसने जांघके औंठीको खबर की और भी दश बीस आदमी इकट्ठे होगये, उन्होंने इधर उधरसे इर्यापत किया तब मालूम हुआ जो यहांपर लडके खेलते थे, एक लडकेसे पूछा तब तिसने सब हाल कह सुनाया । फिर लोकोने सलाह की, किर्मा जराहको बुलाकर जखम सिलाकर मलहम पट्टी करना चाहिये । एक आदमी उनमेंसे जाकर एक जराहको बुला लाया । जब कि, जराह टांगको पकड़ कर नीचे लगा तब महात्माने उसके हाथको हटा दिया, कितनाही लोकोने टांगके जखमको सीनेके लिये बन्ध किया परन्तु महात्माने जखमको सीने न दिया उसी तरह तीन चार दिन रुधिर बहता रहा । यहांपर किसी और मंदिरमें एक महात्मा रहते थे, उनको जब कि यह हाल मिला तब उन्होंने एक आदमीसे कहला मेजा कि जिस मकानमें पुरुष रहे, मुनासिब है तिस मकानकी सफाई रखनी । आप इस शरीररूपी मकानमें रहते है, आपको उचित है,

कि इसकी टवाई करनी । तब उस महात्माने उस लक्ष्मण चानवाले के जग-
महात्माने कह देना तुम जन कि तीर्थोंमें गये थे तो गन्ताने वीथी धर्मशास्त्रोंमें
एक २ रात्रि रहे थे अब वह धर्मशास्त्रोंमें जन गिरनी जाती है । उनकी मरम्मत
आप जाकर क्यों नहीं करते हैं । जिन तरह आप रात्रिभर रहनेके कामने
उनकी सफाई और मरम्मतको नहीं करते हैं, उसी तरह हम भी उन शरीर-
रूपी धर्मशास्त्रोंमें आयुष्मयी रात्रि भर रहना है, वह रात्रि भी व्यनीत होचडी है
हम अब इसकी सफाई क्या करें ? उननाही बोलकर फिर चुप होगये पाच
मात दिनके व्यतीत होनेपर उन्होने शरीरका त्याग कर दिया । हे चित्तवृत्ते !
जो कि पूर्ण वैराग्यवान् पुरुष हैं, वह इस शरीरको धर्मशास्त्र जानकर इनमें
ममताको नहीं करते हैं ॥ २६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! तुमको एक और लौकिक दृष्टांत सुनात ।

एक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक वैराग्यवान् महात्मा कुटी बना-
कर रहते थे और निष्काम होनेसे किसी राजा वावृक पास नहीं जाने थे किन्तु
हमेशा आत्मविचारमें ही रहते थे । उनके त्याग और वैराग्यकी नगरमें बडी
चर्चा फैली थी । एक दिन राजाके दरबारमें भी किसी वार्तापर एक आठमी
उनकी स्तुति करने लगा, तब राजाको भी उनके दर्शनकी लालसा हुई ।
राजाने अपने वजीरको उनके वृत्तान्तके लिये भेजा, वजीरने जाकर नम्रता-
पूर्वक कहा राजाको आपके दर्शनकी लालसा हुई है और कृपा करके मेरे साथ
चलकर राजाकी दर्शन दीजिये । महात्माने विचार किया यदि हम अब
वजीरके साथ राजाके पास नहीं जाते है तब राजा अपना निरादर समझकर
हमसे कोई बुराई करेगा क्योंकि एक तो राजमद करके राजालोक प्रमादी
होते है दूसरे, हम उसके राज्यमें रहने है और यदि हम जाते है तब
महात्माओंकी सभामें और परमेश्वरके समीप हमारा मुंह काला होगा
क्योंकि महात्मा वैराग्यवान् कहेंगे, देखो निष्काम होकर फिर राजाके
द्वारपर गये और परमेश्वर कहेगा हमारे पर भरोसा न रख कर राजाके
द्वारपर गये, वह पीछे हमारा मुंह काला करेगा । इस लिये

प्रथमसेही अपना मुँह काला करके राजाके पास चंडना चाहिये ऐसा विचार करके महात्माने न्याहाले अपना मुँह काला कर मन्त्रीके साथ राजाके पास चल दिया । जब राजाके दरबारमें गये तब राजाने इनका बड़ा मन्कार किया और अपने सिंहासनपर बैठकर कुछ काल करनेका वृत्तांत पूछा, तब महात्माने अपना सब विचार कह दिया । राजाने कहा सब सत्य है थोड़ी देर बैठकर महात्मा अपने आसनपर चढ़े आये । तात्पर्य यह है जो कि पूर्ण वैराग्यवान् निष्काम महात्मा है वह किसी भी राजा और धनीके द्वारपर अपने शरीरके निर्वाहके लिये नहीं जाते हैं । जो सकामां हैं वेराग्यसे ग्रन्थ हैं, वही राजा बाबुओके द्वारोंपर मारे २ घूमने दें ॥ २७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक राजाने नगूर्ग पृथिवीको जय करके अपना नाम सर्व-जीत रखाया तब सब लोग तिसको सर्वजीत करके पुकारने लगे । जब घरमें जाता तब राजाकी जो माता थी वह तिसको सर्वजीत नाम करके न पुकारती किन्तु पूर्ववाले नामसेही पुकारती थी । एक दिन राजाने अपनी मातासे कहा माताजी ! सब लोक तो मेरेको सर्वजीत नाम करकेही पुकारते हैं परन्तु आप तिस नामसे नहीं पुकारती हैं इसमें क्या कारण है ? माता राजाकी बड़ी विचारशील थी । माताने कहा बाहरकी विलायतके जीतनेसे पुरुष सर्वजीत नहीं हो सकता है किन्तु अन्दरकी विलायतके जीतनेसे और शरीररूपी विलायतके जीतनेसे पुरुष सर्वजीत होसक्ता है, बाहरके शत्रुओके जीतनेसे पुरुष शत्रुजीत नहीं होसक्ता है किन्तु मन और इन्द्रियरूपी शत्रुओके जीतनेसे पुरुष शत्रुजीत होसक्ता है । तुम कहते हो सारी पृथिवी मेरी आज्ञामें है प्रथम तो तुम्हारा शरीरही तुम्हारी आज्ञामें नहीं है, प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन ऐसा होगा जो यह शरीर नाशका प्राप्त होजावैगा, इन्द्रिय और तुम्हारा मन भी तुम्हारे वशमें नहीं है, नित्यही यह तुमको विषयोंकी तरफ और कुशलोंकी तरफ भटकाते हैं । पहले तुम शरीर मन इन्द्रियोंको जय करो । जब कि तुम इन सबको जय करलेोगे तब मैं भी तुमको सर्वजीत नाम करके पुकारा करूंगी । हे राजन् ! व्यासस्मृतिमें ऐसाही लिखा है—

न रणे विजयाच्छूरोऽध्ययनान्न च पंडितः ।

न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये शूरो धर्मं चरति पंडितः ।

हितप्रायोक्तिभिर्वक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ २ ॥

रणमे जय करनेसे शूर नहीं कहा जाता है और शास्त्र पढ़नेसे पंडित नहीं होसकता है, वाणीकी चातुर्यतासे वक्ता नहीं होसकता है, धनके दान करनेसे दाता नहीं होजाता है ॥ १ ॥ किन्तु इन्द्रियोके जय करनेसे शूर वीर कहा जाता है और धर्मका आचरण करनेवाला पंडित कहा जाता है, जो दूसरेकी हितकी कहे वही वक्ता है, जो दूसरोंका सन्मान करे वही दाता है ॥ २ ॥

और नीतिमें भी कहा है—

यौवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता ।

चञ्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत् ॥ ३ ॥

यौवन १, जीना २, मन ३, शरीरकी छाया ४, धन ५, स्वामिता ६ ये छहों बड़े चञ्चल हैं अर्थात् स्थिर होकर नहीं रहने हे ऐसा जान पुरुष धर्ममें रत हो ॥ ३ ॥

मर्तृहरिने कहा है—

यौवनं जरया ग्रस्तमारोग्यं व्याधिभिर्हितम् ।

जीवितं मृत्युरभ्येति तृष्णैका निरुपद्रवा ॥ १ ॥

यौवन जरा अवस्था करके प्रसा है, आरोग्यता व्याधियों करके हत हो रही है, जीवित मृत्यु करके प्रसी है, एक तृष्णाही उपद्रवसे रहित है ॥ १ ॥ हे राजन् ! काम और क्रोध ये दोही जीवोके महान् शत्रु हैं । दुर्वासा ऋषि ज्ञानी भी थे तवभी क्रोधके वशमें होकर नानाप्रकारकी विपदा उनको भी भोगनी पडी और कामके वशमें होकर इंद्रादिक देवतोंको भी महान् कष्ट हुआ इसलिये तुम पहले कामक्रोधरूपी शत्रुओंको जय करो तव मैं आपको सर्व-जित कहा करूँगी । माताके वचनको सुनकर राजाको भी बड़ा वैराग्य हुआ और कामादिकोंके जय करनेमें यत्न करने लगा ॥ २८ ॥

प्रथम किरण ।

वैराग्याश्रम कहते हैं । हे चित्तवृत्ते ! एक महात्माकी वार्त्ताको सुनो:—

एक नगरके बाहर एक ठाकुरजीका मंदिर था । तिस मंदिरमे एक वैराग्य-वान् महात्मा रहतेथे और रात्रिभर खडे होकर भजन करतेथे । एक आद-मीने उनसे कहा, महाराज ! इस मंदिरमे किसी चोरचकारका डर नहीं है, फिर आप रात्रिभर किसके डरसे खडे होकर जागते रहते हैं ? महात्माने कहा, बाहरके चोरोका भय तो हमें किंचित् भी नहीं है, परन्तु अन्तरके चोर जो काम-क्रोधादिक है उनका भय हमको सदैवकाल बना रहता है । न जाने किस समय वह आकर हमको दवाले, क्योंकि उनके आनेका कोई समय नियत नहीं है । उनसे बचनेके लिये हम रात्रिभर खडे रहते हैं ॥ २९ ॥

एक महात्मा जङ्गलमे रहते थे और रात्रि दिन भजन करते थे । एक पुरुषने उनसे कहा, महाराज ! आप भजन करनेमें बडा भारी परिश्रम करते हे क्या जाने परमेश्वर-तुम्हारे इस परिश्रमको मंजूर करे या न करे ! महात्माने कहा, हम अपना फरज अदा करते हैं, आगे परमेश्वरकी मरजी । वह अपना फरज अदा करे या न करे, क्योंकि जैसे राजाका हुक्म अपने भृत्यपर होता है, भृत्यका हुक्म राजापर नहीं होता है, तैसे परमेश्वरका हुक्म हमपर है, हमारा हुक्म तिसपर नहीं है । जब कि हम अपना फरज अदा करदेवैगे, तब वह यह नहीं कहसकेगा जो तुमने फरज क्यों नहीं अदा किया । इसलिये हम बहुत परिश्रम करते हैं । हे चित्तवृत्ते ! इस कथाका यह तात्पर्य है, कि मनुष्यशरीरको धारण करके जो पुरुष अपने फरजको अदा नहीं करता है वह कदापि उत्तम गतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ३० ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक लौकिक दृष्टान्तको तुम सुनो, जिसका तात्पर्य भी अलौकिक है:—

एक नगरके राजाने बहुतसा धन इकट्ठा किया, क्योंकि वह अति कृपण था । वह राजा धनका संग्रह करना ही जानता था, धनके सुखको वह नहीं जानता था । जिस हेतुसे वह बडा कदर्य था, इसी हेतुसे वह अपने पुत्रको भी धनका सुख नहीं लेने देता था और खरचेसे डरता हुवा अपनी युवावस्थाको कन्याकी शादीको भी नहीं करता था । एक दिन एक नटिनी नाटक दिखानेके

लिये तिस राजाकी सभामें कहींसे आकर विराजमान होगई और अपने नाटक दिखानेके लिये राजासे तिसने प्रार्थना की । राजाने कहा, किसी दिन तुम्हारा तमाशा कराया जावेगा । नटिनी तिसके नगरमें रहने लगी । जब कि कुछ दिन बीते तब नटिनीने फिर एक दिन तमाशा करनेके लिये राजासे प्रार्थना की । राजाने कहा, अभी ठहरो फिरहोगा । इसी तरह जब जब वह कहे तब तब राजा टालाटूली करदे । जब कि तिस नटिनीको वहापर रहते बहुत काल बीतगया तब तिसने तग होकर वजीरसे कहा, या तो राजासाहब हमारा तमाशा देखै, नहीं तो हमको साफ जवाब देवै, जो हम अन्यत्र कहीं जाकर अपनी जीविकाको खोजै । वजीरने मिलकर राजासे कहा, आज रात्रिको इस नटिनीका तमाशा आप देखिये, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, हम लोग आपसमें मिलकर इसको कुछ द्रव्य देदेवैगे । अगर यह नटिनी यहासे खाली चली गई तब आपकी बड़ी बदनामी होगी । राजाने कहा, अच्छा आज रात्रिको इसका तमाशा हो । सभार्का तैयारी हुई । रात्रिके समय जब कि सर्व सभासद आकरके बैठे, तब नटिनीने तमाशेका प्रारंभ किया । बहुत तरहके नटिनीने राजाको तमाशे दिखलाये और तमाशा करते करते जब कि दो घड़ी रात्रि बाकी रहगई और राजाने तिसको कुछभी इनाम न दिया, तब नटिनीने एक दोहेमें नटको समझाया ॥

दोहा ।

रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आय ॥

कह नटिनी सुन मालदेव, मधुरा ताल बजाय ॥ १ ॥

आगेके एक दोहेमें नट नटीके प्रति कहता है ।

दोहा ।

बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय ॥

कहे नाट सुन नायका, तालमें भंग न पाय ॥ २ ॥

नटके इस दोहेको सुनकर तिसी समयमें एक तपस्वी जो कि तमाशा देखनेको आया था उसने अपना कंबल ओढनेका तिस नटको देदिया और

राजाके लडकेने अपनी जडाऊ कडोंकी जोड़ी तिसको देदी और राजाकी कन्याने हीरोंका हार गलेसे उतारकर तिस नटनीको देदिया । राजा देखकर बडा चकित हुआ । प्रथम राजाने तपस्वीसे कहा, तुम्हारे पास एकही कंबल था और कोई वस्त्र भी नहीं है, तिस कंबलको जो तुमने इसके प्रति देदिया है सो क्या समझकर दिया है ? तपस्वीने कहा, आपके ऐश्वर्यका देखकर मेरे मनमे भोगोंकी वासना उठी थी, जब कि मैंने इस नटके दोहेको सुना तब मैंने विचार किया जो बहुतसी आयु तो तपस्यामें व्यतीत होगई है, चाँकी थोडीसी रहगई है, अब इसको भोगोंकी वासनामें खराब मत करो । ऐसा मेरेको इसके दोहेसे उपदेश हुआ है, इस लिये मैंने अपना कंबल इसको दिया है, क्योंकि वही मेरे पास था और तो कुछ था नहीं । फिर राजाने अपने लडकेसे पूछा, तुमने क्या समझकर इतनी वेशकामता कडोंकी जोड़ी नटको देदी ? लडकेने कहा, मैं बहुत दुःखी रहता हूँ क्योंकि आप मेरेको किंचित्भी द्रव्य खर्चनेके लिये नहीं देते हैं । दुःखी होकर मैंने यह सलाह की थी, कि राजाको विष दिलवाकर मारडालें । इस नटके दोहेको सुनकर मेरेको यह उपदेश हुआ है, बहुत आयु तो राजाकी व्यतीत होगई है, अब बूढ़ होगया है, दो चार बरस अब बाकी रहगई है, सो यह भी जानेवाली है, पितृहत्याको मत लेवो । ऐसा विचार होनेसे मैंने कडोंकी जोड़ी इस नटकी इनाम देदी है । फिर राजाने अपनी कन्यासे पूँछा, तुमने क्या समझकर हीरोंका हार नटीको देदिया ? कन्याने कहा मैं चिरकालसे युवावस्थाको प्राप्त होचुकी हूँ और आप खरचेके डरसे मेरा विवाह नहीं करते हैं, कामदेव बडा बली है, कामकी प्रबलतासे मेरा विचार अब वजीरके लडकेके साथ निकलजातेका हुआ था । इस नटके दोहेको सुनकर मैंने भी विचार किया कि बहुतसी आयु तो राजाको गुजर चुकी है, अब थोडीसी बाकी है, वह भी गुजरनेवाली है, अब थोडे दिनोके लिये पिताकी कलंक लगाना मुनासिब नहीं है, ऐसा उपदेश नटके दोहेसे मेरेको हुआ है इसलिये मैंने नटीको हार दिया है, इस नटके दोहेने राजन् ! आपकी जान और इज्जत बचाई है इसलिये आपको भी इस नटीके प्रति इनाम देना मुनासिब है । राजाने भी जानलिया, बात तो ठीक

है । राजाने भी बहुतसा द्रव्य तिस नटीको देकर विदा करदिया । तत्पश्चात् राजाने वजीरके लडकेके साथ कन्याकी शादी करदी । फिर राजगर्दी पुत्रको देकर राजा वैराग्यवान् होकर आत्मविचारमे लगगया । हे चित्तवृत्ते ! इस दृष्टान्तका यह तात्पर्य है, जो कि पिछली आयु व्यतीत होगई है वह तो अब किसी प्रकारसे भी लौटकर वापस नहीं आसकती है, परन्तु जो बाकी बची है इसीको सार्थक करो, क्यों कि यदि बाकी भी व्यर्थ जायगी तब पछताना ही होगा । इसीपर एक कविने भी कहा है—

सवैया ।

पुत्र कलत्र सुभिन्न चरित्र, धरा धन धाम है बन्धन जीको ।
वारहिं वार विषै फल खात, अघात न जात सुधारस फीको ॥
आन औसान तजो अभिमान, कही सुन कान भजो सियपीको ।
पाय परम्पद हाथसों जात, गई सो गई अब राख रहीको ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयका एक और दृष्टान्त तुम सुनो:—

किसी नदीके किनारेपर एक किसानका खेत था, जब कि तिसके खेतके पकनेके दिन आयें तब वह खेतमें मंचानको बांधकर खेतकी रक्षा करने लगा । एक दिन वह नदीके किनारेपर दिशा फिरनेको जब गया तब वहापर रात्रिको नदीका अरार जो गिरा तिसमें एक लालोकी भरीहुई हडिया भी निकलकर किनारेपर गिरपडी थी, यह भी उसी जगहमें तिस हडियाके समीप बैठकर झाटे फिरने लगा । रतनेमें किसानकी नजर उन लालोंपर जा पडी । किसानने उनको पत्थर जानकर कपटेमें बांधकर लाकर अपने मंचानपर धर दिया और उन लालोसे पक्षियोंको उडाने लगा । जब जब पक्षी तिसके खेतको खानेके लिये आकर बैठें तब तब वह एक एक लालको उठाकर उनको मारे, उससे पक्षी तो उड जायँ और लाल नदीमें जा गिरें । इसीतरह एक एक करके सब लाल तिसने नदीमें फेंक दिये । एक लाल जिससे कि तिसका लडका खेलना था, वह लडकेके पास रह गया । जब कि थोडासा दिन बाकी रहा

तब तिसकी स्त्री अपने लडकेको और तिस लालको लेकर घरमें चली गई । जब कि वह रसोई बनाने लगी तब उसने देखा जो नमक बरमें नहीं है और न कोई पास पैसा है, तब वह उसी लालको लेकर बाजारमें गई और एक बनियांसे तिसने कहा, इस पत्थरपर हमको नमक बदल कर देदे । वहापर एक जवाहिरी खडा था उसने लालको लेलिया और बनियांसे एक पैसेका नमक तिसको दिलवा दिया और तिसके मकानका पता पूंछकर कहा, इस पत्थरका जो दाम लगेगा सो तुम्हारे घरमें भेज दिया जावेगा । दूसरे दिन तिस जौहराने तिस हारेका दाम लगाकर एक लीखे रुपैया तिसके घरमें भेज दिया । किसानकी स्त्रीने लेकर कुछ रुपयोंका तो एक बडा भारी आलीशान मकान बनवाया और सब चीजे आरामकी तिसमें जमा कीं और बाकीका रूैया कहीं व्याजपर किसी महाजनके पास जमा कर दिया । और खेतमें जाकर अपने पतिसे कहा, बहुत दिन बीत गयेहैं, तुम अपने घरमें नहीं गये हो, आज घरपर चले जाओ, घरकी रचनाको देखो । किसान तिसके घरमें जाकर तब घरकी तरफ देखकर पीछेको हटा और कहा, इसमें किसी महाजनका है इसमें मेरेको तू क्यों लेजातेहै ? तब तिसकी स्त्री ने कहा, नहीं है यह घर तुम्हारा ही है । उसने कहा, हमारा घर पत्थर का था, हमारा यह कैसे है ? स्त्रीने कहा वह जो एक पत्थर लाल रङ्गका नदीमें फेकनेसे बचगया था जिससे कि लडका खेलता था तिमके दामसे यह बना है । इतना सुनतेही वह बेहोश होकर गिर पड़ा । तिसको यह सुना जो इतनी बडी कामतवाले पत्थर हमने मुफ्तमें अपनी नखतासे नदीमें फेकदिये । तब तिसकी स्त्री तिसपर जल छिटकर चेतन करके कहने लगी, जो फेकदिये सो तो अब लौटकर नहीं आतेहै, जो कि एक बचगया है इन्की आनन्दको भोगो । इन्को भी अब अफसोस करके मत खोवो । स्त्रीकी बातका सुनकर वह उठकर बैठ गया और अपने घरमें जाकर भोगोंको भोगने लगा । वैराग्याश्रम कहतेहैं, हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, इसको तुम दार्शनिक शरीररूपी हांडीमें, श्वासरूपी लाल भरें हैं उनको तुमने पत्थर जातकर विषयरूपी पक्षियोंके उड़नेमें अर्थात् विषयभोगोंमें जो फेक

दिया है, वह तो अब फिर लौटकर नहीं आसकेहैं । हां, जो कि बाकी बच
हैं इनको अब मत व्यर्थ विषयोंमें फँको, किंतु आत्मविचारमें इनको ग्रन्थ करके
इन्हींका आनन्द लूटो । यही वार्ता "गुरकौमुदी" में भी कही है:—

अरे भज हरेनाम क्षेमधाम क्षणेक्षणै ।

वहिस्सरति निःश्वासे विश्वासः कः प्रवर्तते ॥ १ ॥

अरे जीव ! हरिके नामको क्षण क्षणमें तू भज । कैसा ब्रह्म नाम है, कन्या-
णका एक मंदिर है । जब कि वास्तवमें श्वास निकलता है तब तिसके भीतर
आनेका कौन विश्वास है आवे यानि आवे (१) ॥ ३१ ॥

हे चित्तवृत्त ! महाभारतमें एक छोटामा इतिहास क्या है उनको भी तुम
सुनो:—

एक द्विज कहीं विदेशको जाता था, रास्ता भूलकर वह एक सघन वनमें
जा निकला । वह सघन वन बड़ा भयानक अर्थात् तूफानेवाला
तिस वनमें चारों तरफसे बड़े भयानक शब्द होते
जीव तिसमें घूमरहे थे, बड़े भारी हाथियोंके मुँहोंके
थे और चारों तरफ बड़े भयानक रूपवाले सर्प भी तिस
उन भयानक जीवोंको देखकर वह द्विज भयभीत होकर दूधरे ऊपर दो-
लगा अर्थात् अपनी रक्षाके लिये स्थानको खोजने लगा । तब उसका नाम
नेसे आतीहुई एक पिशाचिनी देख पड़ी, जिसने बड़ी बड़ी पाशोंका
हाथमें लिया है ।

फिर वह द्विज क्या देखता है, पर्वतोंके समान पांच शिरोयात्रे सब भी
तिस सघन वनमें घूमरहे हैं । उन सर्पोंसे भयभीत होकर यह द्विज, जब कि
एक तरफको चला, तब तिसने एक कुआँ देखा । जिसके भीतर अन्धकार
मरा है और उससे वह तृणकरके आच्छादित है और तिसके भीतर अनेक
प्रकारकी लटक रही है । द्विजने विचारा, इस कुएँके अतिरिक्त और कोई
भी स्थान इस वनमें नहीं है जहा पर कि, मैं छिपकर अपनेको इन भयानक
जीवोंसे बचाऊ । तब वह द्विज कुएँके ऊपर जो बेल थी तिसको पकड़कर

नीचेकी तरफ अपना शिर करके तिस कुएँमें लटक रहा । थोड़ी देरके पीछे जब कि, नीचेकी तरफ तिसने देखा तब एक बड़ा भारी सर्प कुएँमें बैठा हुआ तिसको दिखाई पड़ा । ऊपरको जब देखा तब एक हाथी बड़ा बली खड़ा हुआ तिसको दिखाई पड़ा । कैसा वह हाथी है, छह हे मुख जिसके, श्वेत और श्याम है वर्ण जिसका अर्थात् आधा शरीर, तिसका श्वेत है और आधा शरीर तिसका श्याम है और जिस बेलिको वह द्विज पकड़े हुए है तिसको वह हाथी खा रहा है, फिर वह द्विज क्या देखता है, दो बड़े भारी मूसे तिस बेलिकी जड़को काट रहे हैं । हे चित्तवृत्ते ! यह ही दृष्टांत है अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाते हैं । हे चित्तवृत्ते ! यह जीवरूपी तो द्विज है और ससाररूपी सघन बन है । अपने स्वरूपसे भूलकर तिस बनमें यह घूम रहा है और कामक्रोधादिरूप मयानक जीव तिस बनमें घूम रहे हैं और स्त्रीरूपी पिशाचिनी, भोगरूपी पाशकी लोकर इसको फाँसने लिये सम्मुख चली आती है । तिस ससाररूपी बनमें गृहस्थाश्रम में है, स्त्रीरूपी बह्वीको पकड़कर यह जीव तिसमें लटककर है । आप तिस कुएँमें बैठा हुआ इसकी तरफ देख रहा है । मूसे तिसकी आयुरूपी बह्वीको काट रहे हैं और हाथी तिसकी आयुरूपी बह्वीको खा रहा है । पट्ट कतु तिस वर्षरूपी बह्वीको काट रहे हैं और चक्र कण्ठ दो पक्ष, तिसके दो वर्ण हैं । ऐसे कष्टमें जीव वैराग्यको प्राप्त नहीं होता है, विना वैराग्यके और तिसमें रहने की इसका लटकारा नहीं है ॥ ३२ ॥

इसी विषयका एक और दृष्टान्त तुमको सुनाते हैं -
 और एक मेडक दोनों बड़े जाते थे । सर्पने मेडकको अपने मुखमें पकड़ा और तिसको खानेके लिये किनारेकी तरफ लेचला । इससे तिसका मुखमें पकड़ा हुआ भी मुखको फाँडकर मच्छरके आनका देखा । मच्छर यह नहीं जानता कि, मैं तो अभीही दूसरेका आहार कर रहा हूँ । तिसका पलमे खायाजाऊगा । हे चित्तवृत्ते ! यह तो द्विज है । तिसको सुनो - यह जीवरूपी तो मेडक है और कालरूपी सघन बन है । यह मालूम नहीं कि, काल इसको किस घड़ी

पलमें खा डालता है, तब भी यह मूर्ख विषयरूपी मच्छरोंके खानेकी इच्छा करता है अपनी तरफ नहीं देखता है, जो कि, मैं आपही दूसरेका खाद्य हो रहा हूँ, किञ्चिन्मात्र भी वैराग्यको यह नहीं प्राप्त होता है । इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ॥ ३३ ॥

वैराग्याश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! एक और वैराग्यवान्के दृष्टान्तको सुनो:—

एक राजाने दूसरी विजयतके राजापर चढाई की, दोनों राजोंका परस्पर घोर युद्ध होने लगा । जिस राजापर चढाई की गई थी वह राजा तिसी घोर युद्धमें मारा गया और उसके देशको दूसरे राजाने अपने कब्जेमें कर लिया । जब कि, कुछ दिन तिस राजाको वहापर रहते बीते, तब तिसका अपने देशको जानेका विचार हुआ । राजाने लोकोंसे पूछा कि, इस राजाके कुलमें कोई है ? लोकोंने कहा, इस राजाके वंशमें तो कोई भी नहीं है, परन्तु इसका गोतिया एक मनुष्य है । राजाने पूछा, वह कौनसा है ? लोकोंने कहा, वह ससारको त्याग करके श्मशानोंमें रहता है । राजाने कहा, वह राजा तो भी वह नहीं आया । जब कि, दो चार दफा बुलानेपर भी वह राजा पालकमें सवार होकर आपही तिसके पास गये और उससे कहा, हमसे कुछ मागो, जिस वस्तुकी तुमको इच्छा हो वही मागो । यदि राज्य इच्छा हो तो राज्यको मागो, हम तुमको देंगे । उसने कहा, हमको किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है । जब कि, राजाने बहुतसा आग्रह किया कुछ मागो कुछ मागो तब तिसने राजासे कहा, इतनी वस्तु हमको चाहिये, जिसके पास हो तो हमको दीजिये । एक तो वह जीना जिसके साथ मरना ही है, दूसरा वह खुशी जिसके साथ रख न हो, तीसरी वह जवानी जिसके साथ जीना न हो, चौथा वह सुख जिसके साथ दुःख न हो । ये चार वस्तु हमको मागो । राजाने कहा, इन चारोंमेंसे एकके देनेकी भी मेरी सामर्थ्य नहीं है । ये सब मागो तब तिसके पास नहीं हैं, किन्तु यह सब ईश्वरकेही पास हैं । वही देसक्ता है, दूसरा दे नहीं सकता है । तब तिसने कहा, मैंने भी परमेश्वरका ही आश्रयण किया है । तब तिसने पदा-

धोको मैं नहीं चाहताहूँ । राजा लौटकर चले आये । हे चित्तवृत्ते ! यह वैराग्यका फल है, जो राज्य मिले और तिसको ग्रहण न करे । ऐसे जो कि, वैराग्यवान् महात्मा हैं वही संसारमें जीवन्मुक्त सुखी हैं ॥ ३४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और महात्माके वैराग्यका हाल सुनो—एक महात्मा देशाटन करते फिरते थे, एक दिन वह कुछ रात्रिके बीत जानेपर एक नगरके द्वारपर पहुँचे । आगेनगरका फाटक बन्द होगया था । महात्मा बाहर फाटकके पड़े रहे । उस नगरका राजा मरगया था । राजाको संतति भी नहीं थी और न कोई निसके कुलमें ही था । मंत्रियोंने आपसमें यह सलाह करी थी कि, जो पुरुष प्रातःकाल आकरके नगरके फाटकको हिलवै उसीको राजगद्दीपर बिठा देना चाहिये । इधर तो मन्त्री लोक रात्रिको तिस फाटकके भीतर मिलकर सब पड़े रहे और उधर फाटकके बाहर महात्मा आकर पड़े रहे । जब प्रातःकाल हुआ तब महात्मा फाटकके द्वारको हिलाने लगे, क्योंकि वह पहले दिनके भूखे थे । उनको भूखने सताया था । मंत्रियोंने तुरन्त फाटकको खोल दिया और उनको भीतर लेकर खान कराया सुन्दर वस्त्र पहराकर राजसिंहासनपर बैठाके दिया और कहा, आप हमारे अब राजा होगये हैं, हुकम करिये । महात्माने कहा, हमारी जो दो लँगोटी है उनको थोकर सुखाकर पकड़ करके तिसको ताला लगा दीजिये और जितना कि राजकाज है उसको आप अपनी बुद्धिमानीसे करिये, हमसे कुछ भी न पूछिये । घाटे बाढके माछुक हीपका ही होना पडेगा । हम तो दो रोटी खा लवैगे और कुछ काम नहीं करेगें । मन्त्रीलोक सब राजकाज करने लगे । महात्मा राजसिंहासन पर बैठ मजेन करत रह । इमी तरह जब कुछ काल व्यतीत होगया तब एक और राजाने तिस राज्यपर चढ़ाई की । मंत्रियोने महात्मासे कहा, एक शत्रुने राज्यपर आक्रमण किया । महात्माने कहा, उस सन्दूकको खोलो जिसमें हमारी लँगोटिय रखी है । वैजरोने खोल दिया । महात्माने अपनी लँगोटिये बांधली और कहा, हमने चार दिन इस गद्दीपर बैठकर हलवा पूरी खा ली है और चार दिन दूसरा राजा खा लवै, हम तो जाते हैं, घाटा बाढा तुम्हारा रहा । ऐसा कहकर महात्माने चल दिया । हे चित्तवृत्ते ! वैराग्यवान् महात्मा किसी पदार्थमें

आसक्त नहीं होते हैं । राजसिंहासन और मिश्राटन दोनों उमकां दृष्टिमें बराबर हैं ॥ ३५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! संसारमें तीन तरहके पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ । उत्तम पुरुषोंके लिये तो शास्त्रका एक वाक्यही सुनना बहुत है, और मध्यम पुरुषोंके लिये सब शास्त्र है और कनिष्ठोंके लिये सब निष्कण्ड है । मो प्रथम हम तुमको उत्तम अधिकारोंके दृष्टान्तोंको सुनाते हैं -

हे चित्तवृत्ते ! एक घोड़ेका सवार कहींकले जाना था चलते चलते जब कि वह थक गया, तब एक ग्रामके बाहर एक मंदिरके समीप वह घोड़ेपरसे उतरकर एक वृक्षके नीचे बैठकर सुस्ताने लगा और घोड़ेको तिसने वृक्षके साथ बाध दिया और दधर उधर देखने लगा । इतनेमें मंदिरकी नरफ जब कि, तिसकी दृष्टि पडी तब बहुतसे आदमी तिसको मंदिरमें धंटे हुये दिखाई पडे । एकसे तिसने पूछा मंदिरमें इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं ? तिसने कहा मंदिरमें वेदान्तकी कथा होती है, तिम कथाको सुननेके लिये जमा हुए हैं । वह सवारभी भीतर कथा सुननेके लिये उन आठमियोंमें जाकर बैठ गया और कथाको सुनने लगा । उस दिन देवयोगसे वैराग्यका प्रकरण चला हुआ था और वक्ताजी संसारको दुःखरूपता करके श्रोतोंके प्रति दिखला रहे थे । तिस कथाको सुनकर तिस सवारको बडा वैराग्य हुआ । जब कथा समाप्त हुई तब उस सवारने बाहर आतेही घोडा एक आठमीको देदिया और वाकीका भी सब असबाब उसने उसी जगह लोकोको बाट करके विरक्त होकर चला दिया । बारह बरस तक वह विरक्त होकर देशान्तरमें रमण करता रहा और बारह बरसके पीछे देवयोगसे फिर वह उसी रास्तासे आनिकला और उसी वृक्षके नीचे बैठकर सुस्ताने लगा । और मंदिरमें लोकोकी भीडभाडको देखकर एक आदमीसे पूछा इस मंदिरमें पुरुषोंकी भीडभाड क्यों होरही है ? तिसने कहा कथा होती है कथाके श्रोता लोकोकी भीडभाड होरही है । सवार विरक्तने पूछा ये श्रोतालोक कबसे तिस कथाको सुनते हैं और वह वक्ता कबसे कथाको सुनाता है ? उसने कहा वक्ता तो बीस बरससे इस मन्दिरमें कथा

कहता है और श्रोतालोगोंका कुछ ठीक नहीं है कोई दश बरसका कोई बीस बरसका कोई पांच सात बरसकाही है । चिरकने कहा, हमने तो एकही दिन इसका कथाको सुना था, हमारे मुँहपर शास्त्रका एकही चपेट लगा जिसके लगनेसे आजतक हमारा होश विगडा है, धन्य ये चिरकालके श्रोतालोक है जो नित्यही शास्त्रकी चपेटोंको अपने मुखपर लगवाते हैं और लज्जित नहीं होते हैं । ऐसे कहकर वह चल दिया । हे चित्तवृत्ते ! वह उत्तम अधिकारी था, जिसको एक दिनकी कथा श्रवण करनेसे वैराग्य उत्पन्न होगया ॥ ३६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और उत्तम अधिकारीकी कथाको मैं तुम्हारे प्रति सुनाता हूँ, तू नाबधान होकर सुन -

एक नगरमें किसी मंदिरमें नित्यही कथा होना थी और बहुतसे श्रोता-लोकमें वहांपर कथाके समय पर जमा होते थे, एक बनियाभी नित्यही कथा सुननेके लिये तिस मंदिरमें जाता था । एक दिन उधर तो बनिया कथा सुननेके लिये मंदिरमें गया और उधर तिसके पीछे तिसको दूकानपर एक ग्राहक कुछ सौदा लेनेको पहुँचा । उसने बनियाके लडकेसे पूछा तुम्हारे पिता कहाको गये हैं ? उसने कहा कथा सुननेको गये हैं । उस खरीददारने कहा हमको कुछ सौदा लेना है, तुम जल्दी जाकर अपने पिताको बुला लाओ । लडकेने मंदिरमें जाकर अपने पिताके कानमें कहा एक आदमी दूकानपर सौदा लेनेके लिये आपको बुलाता है । पिताने कहा तुम जाकरके तिससे कह देओ अभी आते हैं । लडकेने जाकरके कहदिया अभी आते हैं । जब कि, वह थोड़ी देर तक न आया तब तिस ग्राहकने लडकेमें कहा तुम जन्दी अपने पिताको बुला लाओ नहीं तो हम दूसरी जगहसे सौदा खरीदकर लेवेंगे । फिर लडकेने जाकरके पिताके कानमें कहा खाला ! वह उक्ताया हुआ है, वह कहता है जन्दी आकर हमको सौदा देवें, नहीं तो हम दूसरी जगहसे खरीदकर लेवेंगे । तिसके पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा कहता था मगर आज तो इसने बड़ा रामचाणा छोडदिया है, तुम चलो मैं आता हूँ । लडकेने आकर ग्राहकसे कहा अभी आते हैं, फिर तिसने लडकेसे कहा तुम अबकी बार जाकर

उसको कह दो यदि नहीं आना हो तो हमको जवाब देदे हम और जगहसे खरीद करलेवै । लडकेने फिर जाकर बापके कानमें कहा लाला जल्दी चलो नहीं तो वह जाता है । तिसके बापने और दो चार गाली पडितको टेकर कहा तुम चलो मैं अभी आताहूँ । लडका दो तीन मिनट वहापर खडा होगया उस उमय ऐसी कथा होती थी कि, भगवान् उद्धवसे कह रहे थे हे उद्धव ! सब प्राणियोंमें एकही आत्माको तुम जानो, सो आत्मा मैं ही हूँ मेरेसे भिन्न कोई भी जीव नहीं है, इसलिये किसी प्राणीमात्रसे भी विरोध मत करो । इतनी कथा सुनकर लडका जब दूकानमें आकर बैठा तब एक गैया आकर उसके अनाजके दौरेमेंसे अन्नको खाने लगी, लडका मनमें विचार करता है जब कि इसका और हमारा आत्मा एकही है तब हम किसको हटावें । इतनेमे तिसका बाप भी कथ्यसे उठकर दूकानकी तरफ चला । दूरसे तिसने देखा गैया तो अनाज खारही है और लडका देख रहा है गैयाको हटाता नहीं है । तब वह दूरसेही गाली देने लगा, समीप आकर तिसने एक लाठी गैयाको पीठ पर जोरसे मारी गैया तो भाग गई, परन्तु लडका चिल्लाकरके रोने लगा । बापने कहा मैंने तो गैयाको लाठी मारी है, तुम क्यों चिल्लाकर रो उठे हो ? लडकेने कहा आज जो कथामे निकला था कि, सब प्राणियोंमें एकही आत्मा है । मैं उसका विचार कर रहा था और मेरे आत्माका गैयाके आत्माके साथ अभेद होरहाथा इसलिये वह लाठी हमको लगी है । इतना कहकर लडकेने जब कुडता उतार कर अपनी कमर बापको दिखलाई तब उसकी कमर पर लाठी लगनेका निशान पडगया था, बापने गुस्सेमें आकर कहा अरे मूर्ख ! वहाका कथा वहा परही छोडी जाती है । क्या कोई तुम्हारी तरह साथ बाध लाता है । लडकेने कहा जो हुआ सो हुआ अब हमारा रास्ता दूसरा है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है । इतना कहकर लडका वहासे चलदिया । हे चित्तवृत्ते ! वह लडका उत्तम अधिकारी था इसीवास्तु उसको एकही वाक्य श्रवण करनेसे पूरा बोध ही गया था और तिस कथाके सुननेवाले मध्यम अधिकारी थे क्योंकि यत्किञ्चित् धारण करतेथे और लडकेका बाप कनिष्ठ अधिकारी था जो कि, एक कानसे सुनता था दूसरेसे निकाल देना था। ससारमे प्रायः करके तो कनिष्ठही अधिकारी बहुत हैं, मध्यम तो

कोई एक है, उत्तम तो करोड़ोंमें भी मिलना दुर्लभ है. बिना उत्तम अधिकारीके दूसरेका मोक्ष नहीं होता है ॥ ३७ ॥

एक राजाने किसी वार्तासे प्रसन्न होकर अपने मन्त्रीको एक दुशाला इनाम दिया, मन्त्री दुशालेको लेकर जब कि, दरवारसे बाहर निकला तब तिसका नाक बहने लगा उस कालमें वजीरके पास कोई रूमाल नहीं थी, इसलिये वजीरने दुशालासेही नाकको पोछ दिया । उस जगहपर एक मन्त्रीका द्रोही खडा देखता था उसने राजासे जाकर कहा आपने जो वजीरको इनाममें दुशाला दिया है तिस दुशालेको तुच्छ समझ कर वजीरने तिससे नाक पोछ दिया है । राजाने वजीरको बुलाकर डाटा और नौकरीसे निकाल दिया । अर्थात् वजीरसे उतार दिया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टान्त है । दार्ष्टान्तमें परमेश्वरने जो जीवको मनुष्यशरीररूपी दुशाला दिया है तिसके साथ जो विषयभोगरूपी नाकको पोछता है तिसका आदर नहीं करता है, जो यह शरीररूपी दुशाला मोक्षको प्राप्तिका साधन है उसको परमेश्वर मनुष्यपदसे उतार कर पशुआदिक योनियोंमें बारबार फेंकता है, क्योंकि यह शरीर वैराग्यकी प्राप्तिका साधन है भोगोंमें राग करनेका साधन नहीं है ॥ ३८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टान्तको तुम सुनो, यह दृष्टान्तभी वैराग्यका उत्पादक है.—

एक राजाके कोईभी पुत्र नहीं था, और अनेक प्रकारके यत्नोंके करनेसे भी तिसके पुत्र जब कि उत्पन्न न हुआ तब राजाने मनमें विचारा, कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे राज्यभी मेरे पीछे बना रहे और कोई एक पुरुष इसका मालकभी न होने पावे, राजाने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि पांच मन्त्री मिलकर राज्यका प्रबन्ध हमेशा किया करें । उनमें एक मन्त्री प्रधान बनाया जावे, वह सबके सारे नगरमें घूमकर प्रजाके हालको देखा करे और छह महीनोके पीछे वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय और एक नया बनाया जावे । फिर दूसरेको पाँचोंमें प्रधान बनाया जावे । अब येही प्रबन्ध राजाने जारी कर दिया । जो प्रधान बनाया जावे वह छह महीनोंके पीछे नदीपार किया जावे

जब कि, वह नदी पार जंगलमें जाय वहापर बिना खानेसे दुःख पाकर मर जाय इसीतरह बहुतसे मन्त्री जब नदी पार किये गये, तब एक मन्त्री जो प्रधान बना वह बड़ा चतुर था और जो प्रधान बनता था उसको सब तरहके अखत्यारात मिल जाते थे । उस मन्त्रीने नदीपार बहुतसे मकान और बगीचे तथा कुएँ बगैरह बनवाडिये और आरामदारीके लिये सब प्रकारके सामान चहांपर जमा करादिये । जब कि छह महीने पूरे हुए तब वह वजीर नदीके पार जाकर जैसे कि, इसपार आनन्द करता था वैसेही उसपारभी आनन्द करने लगा । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टात है, अब दार्ष्टान्तमें इसको बटाइये । यह मनुष्य जन्म छः महीनेका बजीरी है जो कि, मूर्ख हैं, वह इसको विषयमोगोंमें लगाकर छः महीनेरूपी अपने पदको व्यतीत कर देते हैं । जो कि, विचारवान् हैं, वह परलोकका सामग्रीकोभी साथ २ जमा करते रहते हैं । नदीपार कौन है लोकान्तरमें जन्मान्तरका होना, लोकान्तरमें जन्मान्तरमें जाकर फिर वहां परभी आनन्दकोही प्राप्त होते हैं; सो बिना वैराग्यके लोकान्तरके साधन जमा नहीं हो सकते हैं, इसलिये वैराग्यको आश्रयण करनाही मनुष्यजन्मका मुख्य प्रयोजन है ॥ ३९ ॥

हे चित्तवृत्ते ! वैराग्यवान् दो और महात्माओंके दृष्टातको तुम सुनो:—

एक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक कुटी बनाकर दो महात्मा बड़े वैराग्यवान् रहते थे और किसीभी राजा बाबूके द्वारपर नहीं जाते थे । अपनी भिक्षा मागकर निर्वाह करते थे । प्राणधारणके अतिरिक्त जिनका और कोईभी व्यवहार नहीं था । लोकोंमें उनके गुणोंका बड़ी चर्चा फैली, क्योंकि वह बड़े भारी त्यागी थे । राजाके दरबारमेंभी उनके त्यागका चर्चा फैली । तब राजाके मनमेंभी उनके दर्शन करनेकी इच्छा हुई । एक दिन राजाभी पालका पर सवार होकर उनके पास गये, आगे उसीवक्त वह महात्मा भिक्षा मागकर लाये थे और हाथ पाव धोकर खानेको बैठे थे । राजाको आते हुए दूरसे जब उन्होंने देखा तब आपसमें विचार किया, इस राजाको श्रद्धाको हटाना चाहिये नहीं तो राजाके संगसे वैराग्य ढील हो जायगा । ऐसा विचार

कैसे जब कि, राजा समीपमें आगये तब वह दोनों आपसमें एक रोटीके टुकड़ेपर लडने लगे । एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कहे तुमने अधिक खाई है, राजा उनका लडाईके देखकर दूरसेही लौट गया । राजाने जान लिया यह दोनों कंगले हैं, जो एक रोटीके टुकड़ेपर परस्पर लडते हैं । हे चित्तवृत्ते ! पूर्ण वैराग्यवान् राजोंसे भेट नहीं करते हैं । और न तिनका अनेही खाते हैं । जो कि, दाम्भिक है, कामनासे भरे हैं वह अनेक प्रकारका झूठा त्याग दिखलाकर राजा वावुओंको अपना सेवक बनाते हैं । और बहुतसे ऐसे भी हैं, राजा वावुओंको फँसानेके लिये बीचमें दलाओंको दाल कर उनको अपना पशु बनालेते हैं वही नरकगामी होते हैं ॥ ४० ॥

हे चित्तवृत्ते ! राजोंकी सगति वैराग्यवान्के लिये बहुत ही बुरी है । जिसको दृढ़ वैराग्य है, वह राजोंसे दूर भागता है । इसमें तुमको दृष्टान्त सुनाते हैं—

एक महात्मा वैराग्यवान् एक नगरके बाहर वनमें रहतेथे । और उसी नगरके राजाके मंदिरोंमें राजाके पास एक और महात्मा रहते थे । दैवयोगसे वह राजा और तिसके पास रहनेवाले महात्मा दोनों मरगये, कुछ दिन पीछे एक दिन उन वनवासी महात्माके समीप गरीब सत्संगी दो चार बैठेथे । इतनिमें एकस्मान्ही वह महात्मा हँसने लगे, तब उन सत्संगियोंने पूछा महाराज ! बिना ही प्रयोजनके आप आज क्यों हँसे हैं । महात्माने कहा बिना प्रयोजनके हँस नहीं हँसे हैं । एक प्रयोजनको लेकरके हम हँसे हैं । राजाके पास जो महात्मा रहतेथे वह और राजा दोनों मृत्युको प्राप्त होगये हैं । राजा तो उत्तम गतिको गया है । क्योंकि, राजाका मन नित्यही महात्मामें और उनके वाक्योंमें लगा रहताथा और वह महात्मा अवोगतिको गये हैं । क्योंकि राजाका अन्न खाकर, उनका मन नित्यही राजामें और राजसन्बन्धी भोगोंमें रहता था. हे चित्तवृत्ते ! राजोंकी सगतिका ऐसा अनिष्ट फल है इसीवास्ते वैराग्यवान् पुरुषके लिये राजाका अन्न और राजाकी संगतिको करना मत्ता किया है ॥ ४१ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और महात्माके दृष्टान्तको सुनो.—

पूर्वकालमें एक विरक्त महात्मा एक लंगोटीको धारण करके कई बरसतक गंगाके तीरपर विचरते रहे. तत्पश्चात् काशीमें आकर उन्होंने निवास किया । जब कि, उनको दश पाच बरस काशीमें व्यतीत होगये तब लोक उनके पास बहुतसे जानेलगे और हरएक आदमी उनको भोजनके लिये अपने घरमें ले जाया करे । तब उन्होंने देखा लोकोंके घरोंमें जानेसे तो बहुत विक्षेप होता है, कोई ऐसी युक्ति करै जो लोक हमको अपने घरोंमें न लेजाया करें । ऐसा विचार करके उन्होने लंगोटियोंकोभी फेक दिया । लंगोटियोंके फेकनेसे उनका मान आगेसे भी सौगुणा अधिक बढ़गया । धीरे २ अब राजा बाबू उनको चले होने लगे । थोड़ेही दिनोंमें हजारो चले होगये और दिनरात चेलोंकी भीट लगने लगी । अब तो केवल नगाही रहना रहगया बाकीके सब गुण जाते रहे । क्योंकि, रात दिन उनका मन राजोंकी बडाईमें और मुलाकातमें लगा रहै । एक दिन एक महात्मा उनके पास ऐसे वक्तपरही गये जिस वक्त वे अकेले पड़े थे, महात्माने पूँछा क्या हालचाल है ? उन्होने कहा ब्रह्मानीरकी बीमारीसे मरते हैं, महात्माने कहा लोक तो आपको सिद्ध बताते हैं, तब उन्होने अपने चित्तका सच्चा हाल कहा, लोक मूर्ख हैं हमको तो सैकड़ों वासना भरां हैं, न मादूम हम किस नीच योनिमें जन्मेंगे, हमारा तो सबवैराग्य इन धनियोंकी सगतिमें नष्ट होगया । हे चित्तवृत्ते ! निवृत्तिमार्गवालेको प्रवृत्ति-मार्गवालेकी सगत खराब करदेती है ॥ ४२ ॥

चिन्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! निवृत्तिवाला पुरुष यदि उपकार करनेके लिये धनी राजोंकी सगत करे तब तो तिसकी कुछ हानि नहीं है । विवेकाश्रम कहने है तब भी तिसकी बड़ी हानि है । इन्हींमें एक दृष्टान्तको दिखाने हैं:—

हे चित्तवृत्ते ! एक राजाके दरबारमें एक भांडने तमाशा किया और अनेक प्रकारके स्वांग राजाको दिग्गये, राजाने भांडसे कहा एक विरक्त अबधूत मग नत्का भी स्वांग इनको दिग्गयो । भांडने कहा फिर कभी हम आपको

विरक्तका स्वांग दिखलावेंगे । जब छह महीना व्यतीत होगया और राजा वह बात भूल गये तब वह भांड एक दिन एक लंगोटी बांधकर और बदनमे घूली लगाकर अतीव विरक्तकी सूरत बनाकर नगरसे थोड़ी दूर नदीके किनारे जगलमे आकर आख मुँदकर बैठ गया । और जो कोई आवै उससे बातचीत भी न करे । कोई आदमी कुछ धर जाय, कोई उठा ले जाय किसीकी तरफ भी न देखे । थोडे ही दिनोमें नगरमे तिसके महत्त्वकी बड़ी चर्चा उठी, अब तो हजारो आदमी तिसके दर्शनको आने लगे । राजा-तक उसके महत्त्वकी खबर पहुँची । राजा भी परिवारके सहित आये और आकर एक हजार अशरफियोकी थैली तिसके आगे धर दी । तिसने राजासे कहा राजन् ! इस उपाधिको उठा लीजिये, यह तो विरक्तके लिये त्रिपके समान है, विरक्तका धर्म नष्ट करनेवाली है । राजाने कहा महाराज ! किसी शुभ काममे लगा दीजिये । विरक्तने कहा राजन् ! आप क्यों नहीं शुभ काममे लगा देते ? हम अपने एक हाथमें थुकाकर दूसरेके मुँह पर मलते फिरै । लेना और दिलवाना ये तो दोनों बराबर ही हैं । जो विरक्त आप नहीं लेता है दूसरेको दिलवा देता है, यह विरक्त नहीं कहा जाता है । क्योंकि, दूसरा जो देता है वह तो उस विरक्तको ही देता है तिसपर तिसकी श्रद्धा है दूसरे पर तो तिसकी श्रद्धा है नहीं, इसलिये प्रतिग्रहका लेनेवाला वह विरक्त हो जाता है । जो एकसे लेकर दूसरेको दिलवाता है वह विरक्त नहीं कहा जाता है. वह दाम्भिक कहा जाता है । विरक्त वही है जो न आप द्रव्यको लेता है और न दूसरेको दिलवाता है । राजाने कहा सत्य है, राजा अपनी अशरफियोको लेकर चले आये । दूसरे दिन वह भांड भी वहाँसे उठ गया और अपने घरमे जाकर भांडोवाली पगड़ी बांधकर और लम्बा अंगरखा पहनकर राजाके दरबारमें आकर कहने लगा महाराजकी जै जैकार हो इनाम मिले । राजाने कहा कैसा इनाम ? भांडने कहा कल जो आपने विरक्तका स्वांग देखा है और आप परिवारके सहित हमारे पास आये थे और एक हजार अशरफियोकी थैली आपने मेरे आगे धरदी थी मैंने तिसको नहीं लिया था और आपको विरक्तका स्वरूप दिखला दिया था । उसी स्वांगका मैं इनाम मांगता हूँ । राजाने कहा जबकी हमने तुम्हारे आगे

एक हजार अशरफी धर दी थीं, तब तुमने क्यों न लीं ? इतने भारी द्रव्यका त्याग करके अब थोडासा द्रव्य इनाम मागनेको आया है, यह कौन अकलकी बात है। भाडने कहा राजन् ! आप तो सत्य कहते हैं, यदि मैं उस वक्त वह द्रव्य ले लेता तब फिर आपके पास इनाम मागनेको न आता परन्तु दो बात इसमें होजाती। एक तो दम्भ सावित होता दूसरा स्वागको वद्वष्टा लग जाता फिर वह विरक्तका स्वाग पूरा न उतरता, इन दो बातोंको ' हटानेके लिये हमने आपसे अशरफियोंकी थैलीको नहीं लिया था। इसी वास्ते वह स्वाग निर्दोष पूरा उतर गया। राजा उसकी वार्त्ताको सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और तिसको बहुतसा इनाम दिया। हे चित्तवृत्ते ! स्वागका धारण करना तो सहज है परन्तु पूरा उतारना कठिन है ॥ ४३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक नगरके समीप एक जगलमें महात्मा रहते थे, एक दिन राजा उनके पास गये और कुछ द्रव्यको राजाने उनके आगे धरकर कहा महाराज ! कोई ससारसे छुडानेवाली वार्त्ताका मेरेको उपदेश करिये। महात्माने कहा राजन् ! इस द्रव्यके तो हम अधिकारी नहीं हैं, इस द्रव्यको तो आप किमी अधिकारोंके प्रति दे दीजिये। क्योंकि, हम जगलमें रहते हैं इसके रखनेकी जगह हमारे पास नहीं है। फिर इस द्रव्यके पीछे कोई चोर हमारी जान-तोडी लेयेगा, हम लोगोके लिये यह अनर्थका हेतु है। जब तुम इसको उठा लेयोगे तब हम तुमको उपदेश करेगें। राजाने द्रव्यको जब उठा लिया तब महात्माने कहा राजन् ! भारी उपदेश हमारा यही है जो ह्रवक्त मरनेको याद रखना। राजाने कहा मरनेको याद रखनेने क्या होगा ? महात्माने कहा पुण्यते जिनने पाप होने हं वह सब मरनेको भुजानेसे ही होते हैं, जिनको ह्रवक्त करना याद रहता है उनने कोई पाप नहीं होता है। वैराग्यका मूल कारण मरनेको याद रखना ही है, राजाने कहा ठीक ॥ ४४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृशन्त तुमको सुनाते हैं:—

एक वैराग्यवान् महात्मा कहींको जाते थे, रास्तामें एक नदी आगई तिस नदीने पार होनेके लिये बहुतसे लोक नावमें बैठे थे, महात्मा भी उनके साथ जिन नावों में बैठ गये, जब कि नाव किनासे खुलकर नदीके बीचमें

पार जानेके लिये चलने लगी तब तिस नावमें एक बंद आदमी बैठा था वह उस महात्माको हँसी दिल्लीसे मारने लगा, इस कदर उसने महात्माको मारा जो उनके खून बहने लगा । इतनेमें आकाशवाणी हुई, महात्मासे आकाशवाणीने कहा यदि आपका हुक्म हो तो इस नावको डुबो दिया जावे । महात्माने कहा हम ऐसे बुरे हैं जो हमारे सबबसे इतने आदमी नाहक डुबो दिये जायँ ? फिर आकाश वाणीने कहा हुक्म हो तो इस बंदमाशको डुबो दिया जाय । महात्माने कहा मैं नहीं चाहता हूँ जो कि मेरे साथका डुबोया जाय । फिर आकाशवाणीने कहा कुछ न्याय तो होना चाहिये । महात्माने कहा इसकी बुद्धि धर्ममें हो जावे यही न्याय हो, तुरन्त उसकी बुद्धि धर्ममें हो गई, वह महात्मासे अपनी भूलको वरुशा लगा । हे चित्तवृत्ते ! जो वैराग्यवान् पुरुष है वह किसीका भी बुरा नहीं चाहता है ॥ ४५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयका और भी दृष्टान्त तुमका सुनाते हैं:—

एक नदीमें एक नाव परले किनारेको जाती थी, तिसमें बहुतसे आदमी बैठे थे, एक महात्मा परमहंस मुंडित शिर भी तिसमें बैठे थे और उसी नावमें एक साहूकार और एक भांड भी बैठा था । जब कि, नाव चली, तब भांड तमाशा करने लगा और लोगोंको हँसानेके लिये महात्माके शिर पर अपने जूतेको फेरने लगा । वल्कि दो चार जूते तिसने उन महात्माके शिर पर लगा भी दिये महात्मा तब भी कुछ नहीं बोले । उस साहूकारने महात्माको पहचान करके उस भांडको डाटा और महात्मासे कहा मैंने आपको पहचाना है आप फलाने राजा हैं राज्य छोडकर आपने फकारी लई है, इस भांडने जो कि आपसे बुराई की है, उसको आप माफ करे । महात्माने कहा इस भांडने कोई भी बुराई नहीं की है इसने हमारे शिरको दण्ड दिया है क्योंकि यह पहले किसीके भी आगे नहीं झुकता था, यदि इससे भी अधिक इसको दण्ड मिलता तो अच्छा होता । हे चित्तवृत्ते ! इतनी बड़ी क्षमा होनी, यह वैराग्यका ही फल है ॥ ४६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और वैराग्यवान्‌की कथाको सुनो:—

एक नगरके समीप वनमें कुटी बनाकर एक महात्मा रहते थे और किसी राजा वावूसे मुलाकात नहीं करते थे किंतु भिक्षा मांगकर अपनी धुवाकी निगुत्ति कर लेते थे । राजाने जब लोकोंसे उनके त्यागको सुना तब राजाके भी मनमें उनके दर्शनकी इच्छा हुई । तब राजा भी पालकी पर सवार होकर उनके दर्शनको गये । जब कि, महात्माकी कुटीके समीप पहुँचे तब महात्माने अपनी कुटीका दर्वाजा बन्द करलिया । राजाने जाकर कितना ही कुटीके त्रिपाटको हिलाया और खोलो २ करके पुकारा परन्तु महात्माने किंवाडा नहीं खोला । तब राजाने कहा आप धन्य हैं और आपका वैराग्यभी धन्य है क्योंकि आपने इस लोकको लात मार दी है । महात्माने कहा आप भी धन्य है और आपका राग भी धन्य है, क्योंकि आपने परलोकको लात मारी है । महात्माने उत्तरको सुनकर राजाको भी वैराग्य हुआ तब महात्माने जिगड खोल दिया और राजासे कहा हे राजन् । ससारके भोगोंमें जो राग है वही इस लोक परलोकमें दुःखका हेतु है, इनसे जो वैराग्य है वही दोनों लोकोंमें सुखका हेतु है और राग ही अज्ञानका चिह्न है, सो पञ्चदशी ग्रन्थके कथा भी है—

रागो लिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु ।

कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ १ ॥

चित्तकी विस्तृत भूमियोंमें अज्ञानका चिह्न पदार्थोंमें राग ही है । जिस वृक्षके कोटरमें आग लगी है तिस वृक्षको हरियालता कैसे हो सकती है किन्तु कदापि नहीं ।

हे राजन् ! जिन पुरुषोंका स्त्री पुत्रादि भोगोंमें राग बना है, उनके निय सुगती प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है । राजाने कहा महाराज ! गृहस्थ्याश्रममें गृहकर स्त्री पुत्रादिकोंमें राग तो अवश्यही कुछ न कुछ बनाही रहेगा रागका अमात्र तो किसी कालमें भी नहीं होगा । तब गृहस्थाश्रमीका मोक्ष कदापि नहीं होना चाहिये । महात्माने कहा ऐसा नियम नहीं है जो

गृहस्थाश्रममें सदैवकाल स्त्रीपुत्रादिकोंमें राग ही बनारहे, किसी कालमेंभी उनमें वैराग्य न हो । किन्तु ऐसा नियम तो है कि, गृहस्थाश्रममें एक न एक दुःख अवश्य बना रहता है-उस दुःखके बने रहनेसे कुछ न कुछ वैराग्य भी बना रहता है । क्योंकि, विषयोंमें दुःखबुद्धि ही वैराग्यका हेतु है और विषयोंमें सुख बुद्धि रागका हेतु है । जो कि, अतीव मूढ पुरुष है, उनको भी यत्किंचित् वैराग्य बना रहता है, परन्तु वह मन्द वैराग्य होता है । जिस क्षणमें स्त्री-पुत्रादिकोंमें कोई कष्ट आकर बना तिसी क्षणमें वह अपनेको और संसारको धिक्कार देने लगते हैं, जब कि वह कष्ट हट जाता है फिर उनका वैराग्य भी नहीं रहता है, वैराग्यका कारण गृहस्थाश्रमही है । क्योंकि जितने बड़े २ नहांआ हुए हैं, जैसे रामचन्द्रजी वसिष्ठजी आदिक सबको गृहस्थाश्रममें ही वैराग्य हुआ है और जितने कि बड़े बड़े संन्यासी हुए हैं उनको भी प्रथम गृहस्थाश्रममें ही वैराग्य हुआ है । तत्पश्चात् उन्होंने गृहस्थाश्रमका त्याग कर दिया है, विना गृहस्थाश्रमके तो किसीकी उत्पत्ति भी नहीं होती है । इसलिये गृहस्थाश्रम ही सबका मूल कारण है । और ऐसा भी नियम नहीं है, जो गृहस्थाश्रममें ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि, जनकादिक सब गृहस्थाश्रममें ही ज्ञानी हुए हैं । ज्ञानका कारण वैराग्य है, जिसको गृहस्थाश्रममें भी सदैवकाल वैराग्य और विचार बना रहता है, उसके ज्ञानी होनेमें कोई भी सन्देह नहीं है और संन्यासाश्रममें भी जिसका पदार्थोंमें राग बना है, उसके अज्ञानी होनेमें भी कोई सन्देह नहीं है । वैराग्यकोही आत्मज्ञानके प्रति साधनता कही है वह ब्रह्मचर्याश्रममें हो, गृहस्थाश्रममें हो, वानप्रस्थाश्रममें हो, या संन्यासाश्रममें हो, विना वैराग्यके ज्ञान नहीं होता है और ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता है, ऐसा वेदने नियम कर दिया है । हे राजन् ! जो पुरुष गृहस्थाश्रममें अनासक्त होकर उसमें कमलकी तरह रहता है उसके मुक्तिमें कोई भी सन्देह नहीं है । इसमें जनकजीके दृष्टान्तको तुम्हारे प्रति सुनाते हैं ।

जिस कालमें व्यासजीने, शुकदेवजीको राजा जनकजीके पास उपदेश देनेको भेजा है और शुकदेवजीने द्वारपर जाकर अपने आनेका खबर जनक-

जीको भेजी है, तब जनकजीने शुकदेवजीकी परीक्षाके लिये कहला भेजा अभी द्वार पर ठहरो । जनकजीका यह तात्पर्य था देखे इनको क्रोध होता है या नहीं । तीन दिन शुकदेवजी द्वार पर खड़े ही रहे और उनको कुछ भी क्रोध न आया । तब जनकजीने चौथे दिन शुकदेवजीको भीतर बुलाया जब कि शुकदेवजी भीतर गये तब देखा कि, जनकजी स्वर्णके सिंहासन पर स्थित है और सुन्दर सुन्दर स्त्रिये चरण दवा रही हैं । और मधुर गीतको गायन कर रही हैं और अनेक प्रकारके भोग खान पानादिक चारों तरफ धरे है, वदीगण स्तुति कर रहे हैं, जनकजीकी विभूतिको देखकर शुकदेवजीके मनमे घृणा एगजी । यह तो भोगोंमें अति आसक्त है, यह कैसे ज्ञानी होसकते हैं, जो मेरेको पिताने उपदेश लेनेके लिये इनके पास भेजा है । जनकजी शुकदेव-जीके चित्तकी वार्ताको जान गये. तब जनकजीने एक ऐसी माया रची जो मिथिलापुरीको आग लग गई और बाहरसे दूत दौड आये और उन्होने कहा मट्टाराज मिथिलाको आग लग गई है और अब द्वार पर भी आ गई है थोड़ी देरमें अन्दर भी आना चाहती है तब शुकदेवजीके चित्तमे फुरा बाहर द्वार पर तो हमारा भी दण्ड कमण्डलु पटा है कहीं जल ही न जाय । जनकजी जानगये और तिस कालमे जनकजीने इस आगेवाले श्लोकको पढा—

अनन्तवत्तु मे वित्तं यन्मे नास्ति हि किञ्चन ॥
मिथिलायां प्रदग्धयां न मे दह्यति किञ्चन ॥ १ ॥

जनकजी कहते हैं मेरा जो आत्मरूपी वित्त धन है सो अनन्त है अर्थात् वित्तका अन्त कदापि नहीं हो सक्ता है । इस मिथिलापुरीके दग्ध होनेसे मेरा तो किञ्चित् भी दग्ध नहीं होता है ॥ १ ॥

इस वाक्यसे जनकजीने पदार्थोंने अपनी अनासक्ति दिखलाई । अर्थात् जनकजीने अपनी असगताको दिखलाया । तब शुकदेवजीको पूर्ण विश्वास होगया कि जनक भी ब्रह्मज्ञानी है, फिर जनकजीने शुकदेवजीको उपदेश किया । महात्मा राजासे कहते हैं, यदि जनककी तरह तुम भी आसक्तिको

त्याग करके राज्य करोगे तो तुमभी मुक्त होजावोगे । हे चित्तवृत्ते ! राजाभी महात्माके उपदेशको ग्रहण करके ज्ञानवान् होगया ॥ ४७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! वैराग्यका जनक एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं । नदीके किनारे पर एक विधवा स्त्रीका मकान था और तिसके समीप राजाका भी एक बाग था । एक दिन राजा जो अपने बागमे गये तब राजाके मनमें आया यदि इस विधवा स्त्रीका मकान लेकर बागमे मिलाया जावै तो बाग बहुत बड़ा हो जायगा । बड़ा होजानेसे सुन्दर चौरस भी हो जायगा । तब राजाने तिस स्त्रीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो । स्त्रीने कहा, मेरा पति नहीं है एक लडका और एक छोटीसी मेरी लडकी है । मैं इनको लेकर तहा जाऊँगी ? मैं अपना मकान नहीं देऊँगी । तब राजाने अपने नौकरको हुक्म दिया इस स्त्रीको मकानसे निकाल दो । नौकरने मार पीटकर मकान निकाल दिया । स्त्रीके पास एक गधा था वह गधेपर लडका लडकीको चढ़ा कर रुदन करती हुई वहासे चल पड़ी । जब कि, वह रोती रोती थोड़ी दूर गई तब वहापर एक महात्मा खड़े थे । उन्होंने स्त्रीसे पूछा तू क्यों रुदन करती है ? स्त्रीने अपना सब हाल उन महात्मासे कहा । महात्माने कहा तू हमारे साथ एक दफा राजाके पास चल, हम एक युक्तिसे राजाको समझावेंगे । स्त्री उनके साथ चलपड़ी जब कि महात्मा राजाके समीप गये, तब राजासे कहा हाराज ! इस स्त्रीकी इच्छा है जो थोड़ीसी मिट्टी मेरे मकानकी जमीनकी तुझको मिले जो मैं जहापर जाकर मकान बनाऊँगी वहापर उस मिट्टीको गाड़ कर अपने बडोका एक समाधि यादगारीके लिये बनाऊँगी, राजाने कहा ब्रह्म लेवे, महात्माने बहुतसी मिट्टी खोदकर एक बोरामें भरकर राजासे कहा हाराज ! इस मिट्टीके बोरेको जरा आप उठवाकर गधे पर लदवादीजिये, राजाने कहा क्या इतना भारी मिट्टीका बोरा हमसे उठया जाता है ? जो हम उसको गधेपर लदवादे । महात्माने कहा जब कि यह मिट्टीका बोरा आपसे नहीं उठया जाता है तब इतनी बड़ी जमीन और मकान आपसे कैसे उठया जावैगा ? जो आपने इसका छील लिया है फिर इसको किस तरहसे उठाकर आप मरती बार अपने साथ लेजावैगे, महात्माकी वार्ताको सुनकर राजाको

भी वैराग्य होगया और तिस स्त्रीके मकानको फेर दिया, बल्कि अपना भी चाग तिसीको देदिया । हे चित्तवृत्ते ! ससारमें जो कि मूर्ख अज्ञानी हैं, दूसरोंकी जमीन और धनको अधर्मसे दवालेते हैं, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं है जोकि यह शरीर भी तो साथ नहीं जायगा तब और पदार्थ कैसे जायेंगे ? यदि ऐसा विचार उनको हो तब क्यों दूसरोंकी जमीनको दवालेते ? वही लोभ मरकर बार बार पशुयोनिमें जाते हैं और जोकि विचारशील वैराग्यवान् हैं वह ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते हैं धर्म अधर्म ही पुरुषके साथ जाते हैं । और सब माल धन तो मरे पीछे दूसरे तिसके वारस लेलेतेहैं इसलिये वैराग्यकाही आश्रयण करना उत्तम है ॥ ४८ ॥

हे चित्तवृत्त ! ससारमें पुरुष कौन और स्त्री कौन है ? इसपर एक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं । एक राजाके घरमें सन्तति नहीं होती थी बहुतसा यत्नकरनेसे एक कन्या तिसके घर उत्पन्न हुई । वह कन्या बाल्यावस्थासेही वस्त्रोंको नहीं पहनती थी जब कि वह बड़ी होगई तब भी उसकी वही आदत रही वस्त्रोंको न पहनना कितु नगीही रहना तिसको पसन्द था । राजाने कोटिन यत्न किये तब भी तिसने वस्त्र न पहने जब कि जोरसे तिसको वस्त्र पहनाते तब तुरन्त फाड़कर फेंकदेती । एक दिन दैवयोगसे वहापर एक महात्मा साधु आगये । उनको देखकर वह लडकी लज्जायमान होगई और तुरत उसने वस्त्रोंको पहन लिया । तब राजाने प्रसन्न होकर अपनी लडकीसे पूछा आज क्या उत्तम दिन है ? जो आपको सुमति आगई है । भला यह तो बताओ आगे बडे २ हमने यत्न किये तब भी तुमने वस्त्रोंको न पहरा और आज एक साधुको देखकर आपसे आप तुमने वस्त्रोंको पहन लिया इसका कारण क्या है ? उस कन्याने कहा, राजन् ! स्त्रीको मर्दसे शर्म लज्जा होती है स्त्रीसे स्त्रीकी लज्जा नहीं होती है, जबसे मैंने होश संभाला है, तबसे तुम्हारे नगरमें कोई भी हमको पुरुष नहीं दिखाई पडा, आज हमने एक पुरुषको देखा है उससे हमने लज्जा की है, लज्जा होनेसे मैंने कपडोंको भी पहन लिया है । हे राजन् ! मर्द नाम उसका है जिसने अपने शरीर और इंद्रियोंको अपने काबूमें कर लिया है और जिसने अपने शरीर और इंद्रियोंको अपने वश नहीं किया है वह मर्द नहीं है । सो

वैराग्यवान्से बिना दूसरा कोई भी अपने इन्द्रियोंको अपने वशमें नहीं कर-
सक्ता है इसलिये वैराग्यवान् पुरुष ही मर्द है, रागवान् स्त्री है । आज मैंने एक
वैराग्यवान्को देखा है इसलिये वस्त्रोंको भी मैंने पहन लिया है ॥

हे चित्तवृत्ते ! गागीने भी इसी वार्ताको याज्ञवल्क्यके प्रति कहा है—

आत्मपुराण ।

अहं पश्यामि विप्रेन्द्र जगदेतदपौरुषम् ।

नपुंसकमहं तद्ददहं स्त्री च पुमानहम् ॥ १ ॥

गागी कहती है हे याज्ञवल्क्य ! इस जगत्को मैं अपौरुष अर्थात् पुरुषसे
हीन देखती हूँ, मैं ही नपुंसक हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री हूँ ॥ १ ॥

नपुंसकः पुमान् ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितम् ।

पुरुषं स्वप्रकाश तमानंदात्मानमव्ययम् ॥ २ ॥

जो पुरुष अपने हृदयमें स्थित आत्माका नहीं जानता है, वह नपुंसक है ।
कैसे आत्माको ? जो पुरुषरूप है और स्वप्रकाश आनन्दरूप अव्यय है ॥ २ ॥

अयमेव पुमान् योषिन्नाहं पीनपयोधरा ।

यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरस्ति स्त्रिया यथा ॥ ३ ॥

गागी कहती है जो पुरुष हृदयमें स्थित आत्माको नहीं जानता है वही स्त्री
मैं पीनपयोधर स्त्री नहीं हूँ क्योंकि जैसे स्त्रीका अपनेसे भिन्न पति होता है,
तैसे तिसने भी अपनेसे भिन्न पति मान रक्खा है ॥ ३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जो पुरुष वैराग्यसे और आत्मविचारसे शून्य है, वह पुरुष
नहीं है किन्तु शास्त्रदृष्टिसे वह स्त्री है ॥ ४९ ॥

हे चित्तवृत्ते ! अब तेरेको एक प्रमादी धनीकी कथाको सुनाते हैं,—

दक्षिण देशके एक नगरमें धनमदाघ एक बनियां रहता था, अपने तुल्य
किसीको भी वह बुद्धिमान् और धनी नहीं जानता था । दिन रात्रि
द्रव्यके ही कमानेके फिकरमें रहता था और कभी भी किसी साधु ब्राह्मणको
भोजन नहीं कराता था । दैवयोगसे एक दिन एक महात्मा उस

रास्तासे आनिकले कि जहापर उसकी दुकान थी । महात्मा उसकी दुकानके सामने जाकर खडे होगये और तिस बनियेकी तरफ देखने लगे । वह बनियां अपने धनके मट करके ऐसा उन्मत्त था जो उसने आखको उठाकर महात्माकी तरफ न देखा, क्योंकि धनमद बटा भारी होता है । आत्म-पुराणमे कहा है:—

समर्थः श्रीमदांधोर्यं राजानं देवतां गुरुम् ।

अवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाश्रितः ॥ १ ॥

जो पुरुष समर्थ है और धनके मद करके अधा हो रहा है, वह अपने बलको आश्रयण करके राजाको, देवताकी तथा गुरुकी भी अवज्ञा कर देता है ॥ १ ॥

समर्थो धनलोभेन परदारान् धनादिकम् ।

हत्वा चोपहसत्यन्यान्सर्वशोच्यो नराधमः ॥ २ ॥

जो समर्थ धनी है वह धनके लोभ करके दूसरोकी स्त्रियोंको और धनादिकोंको भी जबरदस्ती छीन लेता है और हसता है, वही पुरुषोमें अधम है ॥ २ ॥

मातरं पितरं पुत्रान् ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान् ।

कर्मणा मनसा वाचा समर्थो हंति मोहितः ॥ ३ ॥

धनमदाध. समर्थ जो है सो माता, पिता, पुत्र और वेदपाठी ब्राह्मणको कर्म करके मन करके वाणी करके मारता है ॥ ३ ॥

फिर महात्माको दया आई क्योंकि महात्माका टयालु स्वभाव होता ही है महात्माने मनमें कहा इस कीचमे इसको निकासना चाहिये ऐसा विचार करके उस माहृकारसे कहा राम राम कहो, वह साहूकार बोला ही नहीं, जब कि दो तीन बार कहनेसे भी वह नहीं बोला तब महात्माने सोचा यह भारी नूर है उस तरहमे यह नहीं मानेगा, इसको टण्ड टिया जावेगा तब यह मानेगा ऐसा विचार करके महात्मा नदीके तीरपर चले गये । सबेरे वह

साहूकारमी नदीके तीरपर स्नान करनेको जाताथा दूसरे दिन सबेरे जब कि साहूकार नदीपर स्नान करनेको गया तब महात्माने अपने योगबलसे अपनी उस बनियांकी तरह सूरत बनाली । वह तो अभी स्नानही उधर करने लगा इधर महात्मा तिसके घरकी तरफ आये, आगे लडकोने देखा पिताजी आज जल्दी स्नान करके चले आये हैं, उन्होंने पूछा आज जल्दी आनेका क्या कारण है ? उन्होंने कहा आज एक ठग हमारी सूरत बनाकर आवेगा हम देख आये हैं वह नदी किनारे पर बैठा बनाता, था तुम लोगोने होख्यार रहना अभी थोड़ी देरमे वह आवेगा उसको धक्के देकर निकाल देना यदि कुछ बोले तब दो चार जूता लगाना लडकोसे ऐसा कहकर वह तो भीतर जाकर पलग पर लेट रहे । उधर सेठजी स्नान करके घरको चले । जब कि समीप घरके पहुँचे तब लडकोने डाटा क्यों तुम इधरको आते हो ! सेठने कहा बेटा ! मैं अपने घरको आता हूँ तुम हमारे लडके हो मैं तुम्हारा बाप हूँ आज क्या तुमको कोई पागलपना तो नहीं होगया जो तुम हमको ऐसा कठोर शब्द बोलते हो । लडकोने कहा हम तुम्हारे लडके नहीं हैं, जिसके हम लडके है वह घरमे बैठे हैं तुम तो कोई बहुरूपिया हो । हमारे बापका स्वांग बनाकर हम लोगोको बंचन करनेके लिये आयेहो । सूधी तरहसे पीछेको लौट जाओ नहीं तो मार खाकर जाओगे । ज्योही सेठ आगेको बढ़ा त्योही दो चार शक्के लगा दिये तब सेठने गुस्सेमे आकर ज्योही लडकोको गाली दी त्योही एक लडकेने दशपाच जूते सेठके सिरपर लगादिये अब तो सेठजी भागे और राजाके पास जाकर सब अपना हाल कहा । राजाने सेठके लडकोको बुलाकर जब पूँछा तब उन्होंने कहा हमारा बाप तो हमारे घरमे है यह तो कोई बहुरूपिया है । राजाने घरबाले उनके बापको बुलाकर देखा तो दोनोंकी एकही तरह सूरत दिखाई पडी किसी अंगमेभी यत्किञ्चित् फरक नहीं था तब राजा बडे शोचमे पडे अब किसको सच्चा कहा जावे और किसको झूठा कहा जावे । महात्माने कहा राजन् ! यदि यह असली सेठ है तब यह इस वार्ताको वेत्तावे बडे लडकेकी शादीमे कितना रुपया लगा था, जब कि मकान

बना था तब मकानपर कितना रूपैया लगा था । राजाने सेठसे पूँछा सेंठने कहा हमको याद नहीं है महात्माने योगबलसे सब जबानी बतला दिया जब कि वही खाता देखा गया तब वह ठीक निकला । राजाने भी सेठको झूठा करके निकाल दिया । अब तो सेठजीका सब धनका मद उतर गया और नदीके किनारे पर जाकर अपने भाग्यको धिक्कार देकर रोने लगे । दूसरे दिन महात्मा सवेरे नदीपर स्नान करनेको जब गये तब देखा सेठजी रुदन कर रहे हैं और बड़े दुःखी हो रहे हैं तब महात्माने अपना असली रूप बना लिया और सेठके पास जाकर ऐसा कहा राम राम कहो, महात्माके वाक्यको सुनकर सेठ कापने लगा और राम राम करके पुकारने लगा, जब कि सेठ बार बार रामको प्रेमसे कहने लगा तब महात्माने सेठसे कहा अब तू धक्के और जूते खाकर राम राम करने लगा है यदि पहलेसेही तू राम नामसे प्रेम रखता तब क्यों जूते खाकर घरसे निकाला जाता ? जिन लडकोंके सुखके लिये तुमने व्यनथोंसे धनको जमा किया था उन्ही लडकोने तेरेको जूते मारकर निकाल दिया है फिर जो उनसे तू राग करेगा तब आगेसे भी अधिक जूते खायगा, अरे मूर्ख ! तूने अपना जन्म व्यर्थ खो दिया अब तो वैराग्यको प्राप्त हो, महात्माके चरणोंपर सेठ गिर पडा तब महात्माने कहा जो तुम्हारे घरमें सेठ घुसे थे तुमको दण्ड दिलानेके लिये मोहमर्ही हैं, अब तुम अपने घरमें जावो और आनन्दसे रहो परन्तु उन्माद मत करना, धर्म करना सत्सग करना ऐसा उपदेश करके महात्मा तो चले गये और सेठ घरमें आकर उसी दिनसे वैराग्यपूर्वक धर्म करने लगा और महात्माओंकी सेवा करने लगा ॥ ९० ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और आलसी व्रनियेकी कथा तुमको सुनाते हैं.—

हे चित्तवृत्ते ! पूर्वदेशके एक नगरमें एक वनियां बडा धनी रहता था धनके कमानेमें और सग्रह करनेमें तो वह बडाही निपुण था, परन्तु भजन स्मरणमें बडा आलसी था, किसी क्षणमें भी वह वैराग्यको प्राप्त न होता और न कभी मुग्धसे राम इस नामका उच्चारण करता था, परन्तु तिसकी स्त्री बडी विचारवाली थी, और भजन स्मरणमें तथा उदारतामें भी वह एक ही

थी, वह नित्यही प्रतिसे कहाकरे हे स्वामिन् । यह मनुष्यशरीर विषयमौर्गोंके लिये नहीं है यह परमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये है आपभी नित्य एक दो घडी भजन स्मरण बिना करे क्योंकि बार बार यह शरीर मिलना कठिन है तब बनियां कहा करे कोई जल्दी नहीं है भजन स्मरणभी कर लेंवेंगे । इसी तरह कहने सुनने बहुत काल बीतगया । एक रोग बनियां बीमार होगया स्त्रीसे बनियाने कहा किसी वैद्यको बुलाओ स्त्रीने एक वैद्यको बुलाया वैद्यने आकर बनियाने हाथ देखकर दवाई लिखदी और तिनका अनुपान भी बता दिया स्त्रीने दवाईको मँगाकर ताखे पर धर दिया, दिन भर बीत गया बनियाको दवाई तिनने न दी, तब संन्यासे समय बनियाने स्त्रीसे कहा औषधिको आगने मँगाया है वा नहीं ' स्त्रीने कहा औषधिको मँगाकर मँने रखा है, बनियाने कहा तिनको तू मेरे प्रति देती क्यों नहीं है ' स्त्रीने कहा कुछ जल्दी नहीं है आज न दी जायगी कल दी जायगी, कल न दी जायगी परसों दी जायगी, कभी तो दी जायगी । बनियाने कहा यदि मैं मरगया तब यह औषधि हमारा क्या काम देगी ? स्त्रीने कहा मरनेको तो आप मानते नहीं हैं यदि मानते होते तब मैं जब आपको भजन स्मरणके लिये कहती थी आप यही कह देते थे कोई जल्दी नहीं है, फिर होजायगा । यदि आपको मरना याद होता तब ऐसा न कहते क्योंकि क्या जाने फिर तबतक शरीर रहे या न रहे, आज औषधिके लिये आप मरनेको भी याद करने लगे हैं । यदि इन जन्ममे न भी औषधि दी जायगी तब दूसरे जन्ममे दी जायगी यदि कहे औषधिकी हमको इनी जन्ममे जरूरत है, क्योंकि वर्तमान दुःख तिसके बिना दूर नहीं हांता है । तब भजन स्मरणकी भी तुमको इसी जन्ममे जरूरत है फिर क्या जानै कहीं पशु आदि योनि मिल जावेगी तब उस योनिमे तो होना कठिन है । स्त्रीके उपदेशसे बनियांको भी वैराग्य हुआ और भजन स्मरणमें लगा स्त्रीने औषधि पिलांदी वह अच्छा भी होगया । हे चित्तवृत्ते ! बिना वैराग्यके पुत्र्यका मन भजन स्मरणमे भी नहीं लगता है इसलिये वैराग्यही कल्याणका कारण है ॥ ५१ ॥

हे चित्तवृत्ते ! विना वैराग्यके देहादिकोंमें जो अभिमान होरहा है वह भी दूर नहीं होता है । इसीपर तुमको एक महात्माके दृष्टांतको सुनाते हैं ।

एक महात्मा गुरु और एक उनके चेला दोनों देशाटन करते फिरते थे । एक दिन रास्तेमें चलते २ चलेने गुरुसे कहा महाराज ! कुछ उपदेश करिये । गुरुने कहा बेटा ! कुछ बनना नहीं जो पुरुष कुछ बनता है वही मारा जाता है जो कुछ भी नहीं बनता है उसको कालभी मार नहीं सक्ता है । चलेने कहा सत्य वचन । आगे थोड़ी दूरपर सडकके किनारे एक राजाका बाग था उस बागमें एक बड़ी भारी कोठी बनी थी उसी बागमें गुरु चेला चल गये और तिस कोठीमे जाकर एक कमरेके पलंग पर गुरु सो रहे । दूसरे कमरेके पलंगपर चेला सोरहा । जब कि तीसरा पहर हुआ तब राजा हवा खानेके लिये तिस बागमें आये प्रथम उस कमरेमें गये जिसमें चेला पलंगपर सोया था तिसको देखकर राजाके सिपाहीने कहा अरे तू कौन है ? जो महाराजके पलंगपर सो रहा है । चलेने कहा मैं साधु हूँ सिपाहीने कहा तू कैसा साधु है, तू तो बडा मूर्ख है, जो महाराजके पलंगपर आकर सो रहा है, दो चार थप्पड लगाकर तिसको बाहर निकाल दिया, फिर राजा धूमते फिरते उस कमरेमें जा निकले जिसमें गुरु पलंगपर सोये थे, सिपाहीने जाकर कितनाही पुकारा परन्तु वह आगेसे विलकुल न बोले । जब कि, सिपाहीने पकडकर हिलाया तब आख मलते २ उठे परन्तु मुखसे कुछ भी न बोले तब राजाने सिपाहीसे कहा तुम इनको कुछ मत कहो माझम होता है यह कोई महात्मा है । इनको बागसे बाहर कर देवो सिपाहीने उनका हाथ थामकर उनको बागसे बाहर कर दिया रास्तेमें जाकर दोनों गुरु चेला फिर मिले तब चलेने गुरुसे कहा महाराज ! हमको तो बडी मार पडी है गुरुने कहा कुछ बना होगा । चलेने कहा मैं कुछ बना तो नहीं था कहा था मैं साधु हूँ, गुरुने कहा फिर साधु तो बना जो कुछ बनता है वह मारा जाता है । देखो हम कुछ भी नहीं बनेथे इसलिये हम मारे भी नहीं गये हैं । महात्मा वही है, जो कुछ भी नहीं बनता है कि, जो मान और प्रतिष्ठाके लिये विरक्त और अवधूत बनते हैं वह भी

मारे पीटे जाते हैं क्योंकि जो कुछ बनते हैं और अपनेको मानी और प्रतिष्ठित मानते हैं, वही मारे पीटे जाते हैं क्योंकि उनमें अनेक प्रकारकी कामना भरी रहती है। इसीसे वह आटम्बर करके मानके लिये चेले चाटियोंको बढ़ाते वह शास्त्र दृष्टिसे महात्मा नहीं कहे जाते हैं; शास्त्रदृष्टिसे वही महात्मा है जो निष्काम है ॥ ५२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी अभिमानपर तेरेको एक और दृष्टात सुनाते हैं:—

पञ्जाबके मालवा देशके एक ग्रामसे हरद्वारके मेलपर बहुतसे लोक जाने लगे। तब उस ग्रामके निवासी एक चमारने जिमीदारोसे कहा मैं भी आपके साथ हरद्वारके मेलपर जाऊंगा। जिमीदारोने कहा तू भी चल वह चमार भी उनके साथ हरद्वारपर गया और सबके साथ तिसने भी गंगामें स्नान करके पडोको दान यथाशक्ति दिया। पडे फिर सब यात्रियोंको अक्षयवटके नीचे लेगये और सबसे यह वार्ता कही तुम सब कोई इस वटके नीचे एक २ फलको छोड देवो सबने एक २ फलको छोड दिया। फल छोडनेका यह तात्पर्य है जिस फलको लोक वहापर छोड आते हैं अर्थात् जिस फलका त्यागकर देते हैं फिर उस फलको नहीं खाते हैं। चमारसे फल छोडनेके लिये पडेने कहा तब चमारने कहा मैं आजसे बोझा ढोना छोड देता हूँ। आजसे फिर कभी भी मैं बोझा नहीं ढोवोगा, ऐसा कहा चमारने और पडेने जाना बोझा ढोना भी कोई फल ही होगा। वहासे फिर जब सब यात्री अपने २ घरोंको आये तब चमार भी उनके साथ अपने घरको लौट आया। और अपने घरमें आनन्दसे रहने लगा। कुछ दिनके पीछे जब कि बिगार पडी तब सिपाहियोंने आकर उसी चमारको बिगारी पकडा। चमारने उनसे कहा मैं हरद्वार अक्षयवटके नीचे बोझा ढोनेको छोड आया हूँ, सिपाहियोंने उसकी बातको न समझा और तिसको पकडकर जब कि लेचल तब चमारने कहा तुम नम्बरदारोंसे चलकर पूछ लेवो मैं हरद्वारपर बोझा ढोना छोड आया हूँ। चमार सिपाहियोंको नम्बरदारके पास लेगया और उनसे कहने लगा नवरदार साहिब मैं आपके सामने धर्मसे कहता हूँ कि, हरिद्वार पर बोझा ढोना छोड आया हूँ

और यह सिपाही इस बातको नहीं मानते है आप इनको समझा दीजिये । नवरदारोंने कहा बोझा ढोना तो तुम छोड आयेहो, परन्तु चमारपना तो तुमने नहीं छोडा है जबतक तुम्हारेमे चमारपना रहैगा तबतक तुमको बोझ ढोना पडेहांगा । फिर सिपाही तिसको पकडकर लेगये । हे चित्तवृत्त ! यह तो दृष्टांत है दार्ष्टान्तमे यह जो चमारका स्थूल शरीर है, तिसके अभिमानिका नाम ही चमार है, जाती आदिक जो कि शरीरके वर्म हैं उनको जो आत्माके धर्म मानता है वही चमार है अभिमानसे जो रहित है वही ज्ञानी है ॥ १३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! विवेक वैराग्यके बिना ज्ञानवान् भी शोभाको नहीं पाता है इसीपर एक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं—

उत्तरखडमे एक धर्मात्मा राजा रात्रिके समयमें भेप बदलकर अपने नगरमें नित्यही घूमता था जिसको वह गरीब दुःखी जानलेता उसके दुःखको धन ठेकर दूर कर देता । एक दिन रात्रिके समय एक अँधेरी गलीमे राजा जा निकला और अँधेरेमे खडा होकर एक गरीब घरवालोका वातोंको सुनने लगा उस घरवाले बडे गरीब थे नित्यकी मजदूरीसे अपना पेट भरते थे उस दिन उनको कहींसे मजदूरी नहीं मिली थी. वह परस्पर अपने दुःखका वातोंको कर रहे थे । राजाने उनके भीतर जरासा ताक दिया उन्होने जाना कोई बाहर चोर खडा है, आकर उन्होने राजाको पकड लिया और मारने लगे । चोरकी आवाज सुनकर इधर उधरसे दो चार आदमी बत्ती लेकर आये जब चादनेमें उन्होने देखा तब उनको मादम हुआ कि, चोर नहीं है यह तो राजा है तब अपनी भूलको दरशाने लगे, राजा अपने घरमें चले गये । हे चित्तवृत्ते ! यद्यपि वह राजाही थे तथापि राज्यकी सामग्री जो कि, छत्र चामरादिक हैं उनके न होनेसे उन्होने मार खाई क्योंकि छत्र चामरके बिना वे राजा जान नहीं पडते थे वैसे ही ज्ञानवान्के चिह्न भी छत्र चामरादिक विवेक वैराग्य हैं इनके बिना ज्ञानवान् भी शोभाको नहीं प्राप्त होता है और दुर्जनोके कुवाक्यरूपी मारको खाते हैं इसलिये ज्ञानवान्को भी वैराग्ययुक्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और वैराग्यवान् राजाकी कथाको तुम सुनो:—

एक राजा बड़ा धर्मात्मा और सत्संगी था । राज्य करते २ जब कि, उसको हुत काल व्यतीत होगया तब एक दिन उसको राज्यसे बड़ी ग्लानि हुई । क्योंकि, राज्यके प्रबन्ध करनेमें अनेक प्रकारके विक्षेप नित्यही बने रहते है । राजाको जब वैराग्य हुआ तब उसने अपने पुत्रको राज्य सिंहासन देदिया और आप वनमे जाकर तप करने लगा । राजाने जब राज्यको त्याग दिया तब उसके त्यागकी बड़ी चर्चा फैली । उसके राज्यके समीप एक दूसरे राजाका राज्य था, तिस राजाको भी मालूम हुआ कि, अमुक राजाने राज्यको त्याग दिया है, तब इस राजाको तिसके मिलनेकी इच्छा हुई । यह राजा वनमे शिकारके बहानेसे जाकर तिसकी खोज करने लगे । खोजते २ एक वनमें एक वृक्षके नीचे बैठे । उनको देखकर राजाने दडवत प्रणाम किया और समीप बैठकर क्षेम कुशलको पूछा । तत्पश्चात् कुछ सत्संगकी वाते होनेलगीं । जब कि, राजा आने लगे तब राजाने कहा, भगवन् ! एक मेरी प्रार्थना है वह यह है जो आप कल सबेरे मेरे गृहमें चलकर भोजन करै, इस मेरी इच्छाको आप पूर्ण करें दीजिये । उन्होंने कहा अच्छा कल हम आपके घरपर सबेरे आकर भोजन करेंगे । राजा अपने मकानपर चले आये । दूसरे दिन सबेरे राजाने अपने भृत्योंको रास्तामे खडा करदिया और कहा जिस कालमे वह महात्मा आवें तुरन्त हमको खबर करनी । जब कि, जगलसे वस्तीकी तरफको आये उनको दूरसेही आते देखकर राजाके भृत्योंने जाकर कहा महात्माजी चले आते हैं । राजा उनकी पेशवाईको गये और उनको लाकर अपने सिंहासनपर बैठाया । थोड़ी देरके पीछे राजाने अपने मन्त्रीसे कहा महात्माको लेजाकर हमारी विमृति सब दिखलादेओ । मन्त्रीने महात्माको लेजाकर जितने कि, उत्तम २ राजाके घोड़े हाथी और जवाहिरात वगैरह पदार्थ थे वे सब दिखलादिये । राजाने वजीरसे पूछा, महात्मा सब पदार्थोंको देखकर कुछ बोले थे ? वजीरने कहा कुछ भी नहीं बोले थे । इतनेमें राजाका भोजन तैयार होगया ।

राजा महात्माको भीतर लेगये और एक आसनपर बिठाकर आप दूसरे आसनपर बैठे । रानीने दो थालोंमें भोजन परोसकर दोनोके आगे धर

दिया । एक २ थालमे चार २ वाजरेके पिसानकी रोटी और थोडा बथुवेका साग । महात्मा भोजनको देख करके हसे तब राजाने कहा आप हमारे हाथी घोडे और खजाने वगैरहको देखकर नहीं हसे हैं अब इस भोजनको देखकर आप क्यों हसते हैं; कुछ कृपणताके सबबसे मैं ऐसा मोटा खाना नहीं खाता हूँ, इस मोटे खानेका सबब यह है, मैं राज्यसम्बन्धी खजानेसे एक पैसा भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि राज्यके अशको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, ये जो हमारे घरके पीछे पाच दस बीघा जमीन है इसमें मैं और रानी दोनों मिलकर खेती करते हैं, उसमे जो कुछ उपजता है उसीको हम खाते हैं । इसीसे हमारा खाना मोटा है । महात्माने कहा तुम धन्य हो और तुम्हारा वैराग्य भी धन्य है । एक तो वह लोक है हम सरीखे जिन्होंने राज्यको त्याग करके फकीरी ली है । तब भी उनको फकीरीकी लज्जत नहीं मिली है । एक आप सरीखे हे जो कि अमीरीमें फकीरी कर रहे हैं । अमीरीमें फकीरी करनी बडे शूरोका काम है इसी वार्तापर हम हंसे हैं । हे चित्तवृत्ते ! वैराग्यवान् घरमें भी रहकर शोभाकोही पाता है । रागवान् वनमें रहकरके भी शोभाको नहीं पाता है ॥ १५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! अप्राप्त पदार्थके त्याग करनेवाले पुरुष तो ससारमे बहुतही हैं और वह त्यागी भी नहीं कहे जाते हैं । त्यागी वही कहा जाता है जिसको पदार्थ मिले और तिसको त्याग देवे वही त्यागी है । सो ऐसे सब्बे त्यागी ससारमे है क्योंकि, बिना तीव्र वैराग्यके सब्बा त्याग नहीं होसक्ता है । अतः हम तुमको सब्बे त्यागीके इतिहासको सुनाते हैं:—

एक राजा सालके साल जन्माष्टमीपर एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराता था । एक समय राजाने जन्माष्टमीका उत्साह किया और ब्राह्मणोंको नैवता भेज दिया । जन्माष्टमीके त्रतके दूसरे दिन जब कि, भोजनका समय हुआ, तब दूर २ के ब्राह्मण भोजनके लिये आने लगे । दैवयोगसे एक तपस्वी ब्राह्मण भी कहींसे आ निकले । राजा जब सब ब्राह्मणोंके चरण धोता २ उनके पास गया और उनके चरणोंको धोने लगा तब उनके चरणोंको मिट्टीमें लिपटेहुए देखकर और नीचेसे फटे हुए देखकर राजाने कहा, महाराज ! आपके चरण तो बडे खौरे हैं । वह तपस्वी ब्राह्मण बोले राजन् ! तुमने कभी ब्राह्मणोंके

चरण नहीं धोये हैं, तुम पतुरियोके चरण धोते रहे हो, इसलिये तुमको ब्राह्मणोंके चरणोंकी परीक्षा नहीं है। ब्राह्मणके इसी तरहके वचनको सुनकर राजा चुप होगये। जब कि, राजा सबके चरण धो चुके तब पत्तल सबके आगे बिछाई गई। सब भोजन करने लगे। प्रथम यह चाल थी कि, जब कि ब्राह्मण भोजन करलेते तब भोजनवाला कहता एक २ लड्डुवा और लीजिये चार आना एक लड्डुवाकी दक्षिणा मिलेगी। जब कि, एक २ सब खा लेते तब आठ आना करदेते, फिर चारह आना फिर एक रुपयातक एक लड्डुवाके खानेकी और दक्षिणा देते थे। राजाने भी ऐसेही किया और ब्राह्मण भी तृप्तिका भोजन नहीं करतेथे क्योकि, दक्षिणाके लोभसे और खानेकी जगा पेटमें रख लेते थे। इस तपस्वी ब्राह्मणने एकही बार अपना तृप्तिका भोजन करलिया और आचमन करके बैठरहे। इतनेमे राजाने कहा एक लड्डुवाका चार आना मिलैगा अर्थात् जो एक लड्डुवा और खायगा उसको चार आना दक्षिणा और बेशी मिलैगी। सब ब्राह्मण खाने लगे जब कि, एक २ खाचुके, तब राजा आठ आना बोले फिर बारा आना बोले फिर एक रुपैया बोले सब ब्राह्मण खाते ही रहे। जब कि, राजाने इस तपस्वी ब्राह्मणकी तरफ देखा तो यह चुपचापसे बैठेथे। राजाने इनसे कहा महाराज ! सब ब्राह्मण तो भोजन करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं ? ब्राह्मणने कहा राजन् ! हम तो एक बार ही भोजन करते हैं सो हमने भोजन करके आचमन कर लिया है। अब बार २ हम भोजन नहीं करते हैं। राजाने कहा यदि आप एक लड्डुवा और भोजन करैँ तब आपको मैं पांच रुपैया दक्षिणा देऊंगा। ब्राह्मणने नहीं माना तब राजा दस रुपैया बोला तब भी तिसने नहीं माना, राजा बढने लगे। बढते २ एक हजार रुपैया एक लड्डुवा खानेके बढलेमे राजाने कहा। तब ब्राह्मणने कहा यदि लाख रुपैया भी आप देवैँगे, तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोडूँगा अर्थात् आचमन किये पीछे और लड्डू दूसरी बार नहीं खाऊंगा। तब राजाने कहा देखो ऐसा दाता नहीं मिलेगा, जो एक लड्डूके बढले एक हजार रुपैया देता है। ब्राह्मणने हँसकर कहा हमको तो आप सरीखे दाता बहुतसे मिले हैं और मिलेगे परन्तु आपको भी ऐसा त्यागी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। राजा चुप होगये। ब्राह्मण

हाथ धोकर चल दिया । कितनाही राजाने उनके रखनेके लिये जार लगाया परन्तु वह नहीं रहे । हे चित्तवृत्ते ! पूर्वकालमें वैसे २ वैराग्यवान् त्यागी ब्राह्मण होते थे, उन्हींमें ब्रह्मतेज चमकता था, उन्हींका वर शाप लगता था, वही ज्ञानी कहे जाते थे । जवसे ब्राह्मणोंमेंसे त्याग और वैराग्य जाता रहा तबसे ब्रह्मतेज भी नष्ट होगया और वर शापका भी लगना दूर होगया । हे चित्तवृत्ते ! पूर्ण वैराग्यवान्में ही इतना बडा त्याग रहसक्ता है, यह वैराग्यका ही फल है ॥ १६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! सबे त्यागीकी कथाको तुमको सुना दिया है, अब झूठे त्यागीकी कथाको भी तुम सुनो.—

एक नगरके बाहर एक बाबाजी कुटी बनाकर रहने लगे और दो तीन उनके साथ चेले थे । वह भी उनको सेवाके लिये उनके पास रहते थे । चेलोंने बाबाजीको सिद्ध और त्यागी लोकोंमें प्रसिद्ध कर दिया और लोकोंमें उनको झूठी २ सिद्धियोंको मशहूर करके लोकोंको फँसाने लगे । जो कोई पुरुष बाबाजीके आगे द्रव्य लाकर रखे, चेले तिसको कहे इसको मन रखो बाबाजी त्यागी हैं द्रव्यको न छेते हैं न छूते हैं । अब बाबाजीके आगकी चर्चा नगरमें फैली, क्योंकि पीरोफो मुरीद लोकही उडाते हैं और जिना दलालीके दुकान चलती भी नहीं है । तिस नगरमें एक बनिया बडा धनिक रहता था, परन्तु कृपण वह अब्बल दरजेका था, कर्मा भी किसी गरीबको तिसने एक टका नहीं दिया था । उस बनियाने जय कि, बाबाजीके त्यागका महत्त्व सुना तब तिसके मनमें आया हम भी चलकर बाबाजीके आगे एक हजार रुपैयाकी थैली धरदें, बाबाजी तो लेवेगे नहीं, परन्तु उदारतामें हमारा भी नाम हो जावेगा । बनिया भी एक हजार रुपैयाकी थैली लेकर बाबाजीके पास गया और दण्डवत् प्रणाम करके थैलीको बाबाजीके आगे धरदिया । बाबाजीने कुटीमें तिस थैलीके रखनेका इशारा किया । चेलोंने थैलीको उठाकर भीतर कुटीके धर दिया । अब बनियाके होश बिगडे । मनमें कहताहै यह तो द्रव्यको लेते नहीं ये अब क्या हुवा हमारा तो मतलब दूसरा था यहा तो औरका और ही होगया । फिर कहने लगा बाबाजी हमसे हँसी

करते होंगे. शायद थोड़ी देरमें देदेवेंगे । जब कि, दो चार घड़ी व्यतीत होगई और बाबाजीने रुपयोंकी थैली तिसको वापस न दी तब बनियासे रहान गया । बनियाने कहा महाराज ! हमने तो सुना था आप द्रव्यका ग्रहण नहीं करते हैं वह तो बात झूठी निकली । क्योंकि द्रव्यको आपने अब ले लिया है, बाबाजीने कहा भाई एक या दो दश बीस रुपयोंको हम ग्रहण नहीं करते हैं आजतक किसीने भी हमारे आगे हजार रुपयोंकी थैली नहीं रखी थी, यदि कोई रखता और हम न लेते तब तो हम झूठे होते । आपने आज प्रेम-पूर्वक हजार रुपयोंकी थैली भेंट की है, हमने भी तुम्हारा प्रेम रखनेके लिये उठाली है । किसी शुभकर्ममें इसको हमभी लगा देंगे, अब तुम पश्चात्ताप न करो नहीं तो तुम्हारा पुण्य निष्फल होजायगा । बनिया माथा ठोंकर चल दिया । इधर बाबाजीका मतलब होगया, बाबाजी भी चलदिये । हे चित्तवृत्ते ! ऐसे २ पाखण्डोको करके जो लेनेवाले हैं वे झूठे त्यागी हैं क्योंकि ये वैराग्यसे शून्य हैं ॥ १७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! अब हम तुमको बन्धुज्ञानियोंके इतिहासोंको प्रथम सुनाते हे तन्पश्चात् सच्चे ज्ञानियोंके इतिहासोंको सुनावेंगे:—

पञ्जाब देशके किसी ग्राममें एक निर्मल सन्त रहते थे और सधरे वह वेदात्की कथा करते थे । बहुत लोग उनकी कथा सुननेको आते थे, निर्मल सन्त भाईजी करके तिस देशमें गये जाते हैं और उनके नामके आदिमें भाईजी शब्द जोड़ा जाता है । दोपहरके वक्त वह स्त्रियोंको पढाते थे । सब लोग उनको ज्ञानवान् जानते थे । एक दिन दोपहरके वक्त वह एक युवतीको सथा दे रहे थे, तिस युवतीके रूपको देखकर उनका मन चलायमान होगया, क्योंकि कामदेव बड़ा बली है तब वह धीरे २ तिसकी छातीपर हाथ फेरने लगें, युवतीने पीछे हटकर कहा, हाय हाय ! क्या आप करने लगे हे । अभी तो आपने हमको विचारसागरमें पढ़ाया है कि स्त्रीका स्पर्श करनेसे बड़ा भारी पाप होता है और भाईजी ! इसी ग्रन्थमें कितनी बड़ी स्त्रीको निन्दा लिखी है और स्त्रीके संगसे अनेक प्रकारके दोष दिखाये हैं । क्या आपने उन सबको भुलाया है ?

जब युवतीने ऐसे २ वाक्य कहे तब महात्मा भाईजी कहने लगे हम तो तुम्हारी परीक्षा करते थे जबतक देहमे अध्यास बना रहता है तबतक पक्का ज्ञान नहीं होता है हम इस वार्ताकी परीक्षा करते थे । तुम्हारे देहमे अध्यास है, वा नहीं सो आज हमको मालूम होगया । तुम्हारे देहमें अध्यास बना है, तुमको अभी पक्का ज्ञान नहीं हुआ है । युवतीने कहा तुम्हारा तो अभी देहमे अध्यास छूटा ही नहीं है । यदि तुम्हारे देहमें अध्यास न होता तो तुम हमको हाथ भी न लगाते । कामातुर होकर तुमने हमको हाथ लगाया है अब बाते बनाते रो. तुम सन्त नहीं हो, कुसन्त हो। इस तरहके वाक्योंको कहकर वह युवती अपने घरमें चली गई और भाईजीने भी लज्जाके मारे तिस ग्रामको छोड दिया । हे चित्तवृत्ते ! ऐसे २ जो पुरुष हैं वही ध्यज्ञानी कहे जाते हैं । दसीवास्ते शास्त्रोंमे स्त्रीके ससर्गका निषेध किया है ।

आत्मपुराणके सातवें अध्यायमें कहा है:—

स्मरणाज्जायते कामो वधूनां धैर्यनाशनः ॥

दर्शनाद्वचनात्स्पर्शात्कस्मादेष न संभवेत् ॥ १ ॥

स्त्रीका स्मरण करनेसे ही धीरताका नाश करनेवाला कामदेव उत्पन्न हो जाता है। फिर दर्शनसे भाषणसे स्पर्श करनेसे क्यों नहीं उत्पन्न होगा किंतु अवश्य होगा ॥-१ ॥

आत्मनः क्षेममन्विच्छंश्चतुर्थाश्रमभागतः ॥

न कुर्याद्योषितां संगं मनसा वपुषोद्विष्यैः ॥ २ ॥

जो सन्यासाश्रमको अपने कल्याणके लिये प्राप्त हुआ है, वह मन और शरीर तथा इंद्रियोकरके भी स्त्रीका संग न करै, क्योंकि तिस आश्रमसे स्त्रीका संग पतन करनेवाला है ॥ २ ॥

विलीयते घृतं यद्दग्धेः संसर्गतस्तथा ॥

नारीसंसर्गतः पुंसो धैर्यं नश्यति सर्वथा ॥ ३ ॥

जैसे अग्निसम्बन्धसे घृत पिघल जाता है, तैसे स्त्रीके ससर्गसे पुरुषकी धीरता भी नष्ट होजाती है ॥ ३ ॥

एक एव प्रतीकारो नारीसर्पविषे भुवि ॥

आसाञ्च स्मरणं तद्दर्शनादेश्च वर्जनम् ॥ ४ ॥

पृथिवीतलमें स्त्रीरूपी सर्पके विषके हटानेका एकही उपाय है, स्त्रियोंके रूपका स्मरण न करना और उनके दर्शन आदिकोंका न करना ॥ ४ ॥

वासना यत्र यस्य स्यात्स तं स्वप्नेषु पश्यति ॥

स्वप्नवन्मरणे ज्ञेयं वासनातो वपुर्नृणाम् ॥ ५ ॥

जिसमें जिसकी वासना रहती है सो तिसको स्वप्नमें देखता है, स्वप्नकी तरह मरणमें भी जान लेना । मरणकालमें जिसकी वासना जिसमें रहती है, उसीको वा उसी रूपको वह प्राप्त होता है, क्योंकि वासनामय ही इसका वपु है ॥ ५ ॥

कामिनां कामिनीनां च संगत्कामी भवेत्पुमान् ॥

देहांतरे ततः क्रोधी लोभी मोही च जायते ॥ ६ ॥

कामी पुरुषोंके और स्त्रियोंके सगसे पुरुष भी कामी हो जाता है और जन्मान्तरमें देहान्तरमें भी क्रोधी लोभी मोही होता है ॥ ६ ॥

कामक्रोधादिसंसर्गादशुद्धं जायते मनः ॥

अशुद्धे मनसि ब्रह्मज्ञानं तच्च विनश्यति ॥ ७ ॥

काम क्रोधादिकोंके सम्बन्धसे मन भी अशुद्ध होजाता है, अशुद्ध मनमें उपदेश किया हुआ ब्रह्मज्ञान भी नष्ट होजाता है ॥ ७ ॥

कामक्रोधादिसंसक्तो ब्रह्मज्ञानविवर्जितः ॥

मार्गद्वयपरिभ्रष्टस्त्वतीयं मार्गमात्रजेत् ॥ ८ ॥

जो पुरुष काम क्रोधादिकोंमें आसक्त है और ब्रह्मज्ञानसे हीन है, वह दोनों मार्गोंसे अर्थात् ज्ञान और उपासनासे भ्रष्ट हुआ तीसरे मार्गको याने कामि-कीटादियोनियोको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

तृतीयेऽध्वनि संप्राप्तः पुण्यविद्याविवर्जितः ॥

कीटादिदेहभाजी सन्नरकाच्च न निःसरेत् ॥ ९ ॥

तीसरे मार्गमें प्राप्त होकर फिर वह पुण्यविद्यासे रहित होजाता है । फिर कीटादिशरीरको मजनेवाला होकर नरकसे कदापि नहीं निकल सकता है ॥ ९ ॥

श्रेयस्कामस्ततो नित्यं चतुर्थाश्रममागतः ॥

कामिनां कामिनीनां च संगं सर्वात्मना त्यजेत् ॥ १० ॥

कल्याणका अर्थी जो चतुर्थाश्रमको प्राप्त हुआ है वह कामी पुरुषोंकी और स्त्रियोंकी संगतिका सर्व प्रकारसे त्याग कर देवै ॥ १० ॥

पचदशीमें भी कहा है:—

बुद्ध्वाऽद्वैतस्य तत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ॥

शुनां तत्त्वदृशां चैवं को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ११ ॥

जिसने अद्वैत तत्त्वको जान लिया है और फिर वह यदि यथेष्टाचरणको करता है अर्थात् सन्यासको धारण कर अद्वैतको जानकरके भी यदि वह मांस-मटिरा परस्त्रियोंका संग करता है तब क्रूरमें और तिसमें क्या फरक है अर्थात् बुरा भी नहीं है । क्योंकि क्रूर भी वमन करके फिर तिसको भक्षण करता है और तिस पुरुषने भी वमन करे हुए विषयोको फिर ग्रहण करलिया वह भी क्रूर ही है । हे चित्तवृत्ते ! वध्यज्ञानियोंका यथेष्टाचरण होता है, सबे ज्ञानियोंका नहीं होता है ॥ १८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक वनावटी अवधूतकी कथाको सुनो:—

एक ग्रामके समीप जगलमे एक अवधूत महात्मा रहने थे । लंगोटी तक भी नहीं रखते थे और अपने हाथसे भोजन भी नहीं करते थे । यदि कोई दूसरा उनके मुखमें डालता तब खाते थे और जहा तहा झाडा पेशाबको भी फिर देते थे, उनको लोक विदेही मानते थे । एक दिन राजाकी रानी उनके दर्शनको गई और एक थालमें लड्डू पेड़ोंको भरकर लेगई, जाकर उनके समीप बैठ गई । थोटी देरके पीछे वह अवधूत तिस रानीकी गोदमे आकर बैठ गये । रानी अपने हाथसे उनके मुखमें पेडाको देने लगी और वह खाने लगे । अभी दो तीनही ग्रास रानीने उनके मुखमें दिये थे कि, इतनेमे उस अवधूतने रानीकी गोदमे दिशा करदिया । रानी एक पेडाके साथ तिस मैलेको लगाकर तिसके मुखमे जत्र देने लगी तब तिस अवधूतने मुखको फेर लिया । रानीने अवधूतको गोदमे पटक दिया और ऊपरसे दो तीन लत तिसको मारी और कहने

लगी इतना तो तुमको होश नहीं जो यह रानीकी गोद है वा पाखानाकी जगह है, और इतना तेरेको होश है जो मलको पेड़ेके साथ लगाकर यह हमको खिलाती है, इसलिये तुमने अपने मुखको फेर लिया । रानीने नौकरोको हुक्म दिया इस पाखण्डीको हमारे देशसे बाहर कर देओ । रानी सुशीला स्नान करके घरको चली आई । हे चित्तवृत्ते ! ऐसे २ पाखण्डोंको करनेवाले वध्यज्ञानी कहे जाते है ॥ ९९ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और वध्यज्ञानीके दृष्टांतको तुम सुनो—

लैली मजनू नाम करके दो आशक माशूक हुये हैं । लैली तो बादशाहकी लडकी थी और मजनू एक तसबीर खैचनेवाले कारीगरका लडका था । मजनूका बाप बादशाहके महलोमे काम करनेको जाता था, मजनूभी छोटीसी उमरसे बापके साथ बादशाहके महलोमे जाने लगा । एक दिन लैलीको मजनूने देखा. लैलीकी भी उमर तब छोटीसी थी, मजनूका मन लैलीमे लग गया फिर लैलीके बापने लैलीको मदरसामें पढनेके लिये विठला दिया और मजनू भी पढनेके वहानेसे तिसी मदरसामे जा बैठा । वहापर मजनू और लैलीका परस्पर नित्य वातचीत होनेसे प्रीति बढने लगी । दोनोंका आपसमे इतना प्रेम बढगया कि, बिना देखे एक दूसरेको चैन न पडे । थोडे दिनोंके पीछे उनके प्रेमकी वार्ता सब नगरमें फैल गई । बादशाहको भी मालूम होगई तब बादशाहने लैलीका जाना मदरसेमें बंद करदिया और लैली अपने घरसे बाहर आने न पाई । अब मजनूको लैलीका देखना भी बंद होगया तब मजनू फकीर बनके जगलमें जाकर रहने लगा । कुछ दिनके पीछे बादशाहके दिलमे आया, मजनू खाने पीनेके बिना तंग होता होगा उसके लिये खाने पीनेका कोई प्रवध कर देना चाहिये । बादशाहने वजीरसे कहा नगरमे नोटिस देदो कि, मजनू जिसका दूकानसे जो वस्तु उठा ले उसका हाथ कोई भी न रोकै, तिसका दाम बादशाहके खजानेसे मिलेगा । वजीरने नोटिस जारी करदिया । इस वार्ताको सुनकर दश बीस माधुओंने कपडोंको उतार दिया और मजनू वनकर लोकोकी दूकानोंसे खाने पीनेकी चीजोंको उठाने लगे । जब कोई उनसे पूछै तुम कौन हो तब वह कहदे हम मजनू हैं । वाह मजनूका नाम सुनकर चुप रह जातेथे । अब धीरे २ मजनू बढने

लगे चार पाच सौ मजनु बन गये और सैकडो रुपैया नित्य खजानेमे दूकान-दारोको वर्जीरको देना पडै । तब वर्जीरने वाहशाहसे कहा मजनु तो बहुतसे जमा होगये हैं । इनके खर्चके मारे खजाना खाली हुआ जाता है, कोई उपाय करना चाहिये । तब वादशाहने लैलीसे पूछा वह जो तुम्हारा प्रेमी मजनु है वह बहुतसे है या कोई एक है । लैलीने कहा बापू ! वह एकही है बहुत नहीं है । वादशाहने कहा उसकी पहचान कैसे होगी ? लैलीने कहा अपने गृहके आगनमें एक लोहेका खम्भा गाडिये और तिसपर एक चौकीको बाध दीजिये ऊपर उन चौकीके मेरेको बिठला दीजिये, नीचे गिरदे तिस खम्भेके चारोतरफ अग्निके अगारोको बिछा दीजिये और नगरमे हुक्म देदीजिये सब मजनु आवे । लैलीने मजनुओको याद किया है जो मजनु आकर उस आगको देखकर भागे तिसको कैद कर डालो जो सच्चा मजनु आवैगा वह नहीं भागेगा । वादशाहने इसी तरहसे किया । अब जो मजनु भीतर आगनके आवे वह पूछे लैली कहाँ है ? जब तिसको लैली ऊपर बैठी बताई जावे तब वह पीछेको भागे, पकड करके कैद किया जाय, इसी तरह सब बनावटीके मजनु कैद किये गये, तब किसीने जाकर जगलमें तिस सच्चे मजनुसे कहा लैली तुमको याद करती है । वह भी चले, जब कि, वह घरके भीतर अगनमे पहुँचे तब मजनुने पूछ लैली कहा है लोकोंने ऊँचे ! खम्भेपर बैठी हुईको बतादिया । जब मजनुने ऊपर खम्भेकी चौकीपर बैठी हुई लैलीको अपनी आँखोंसे देख लिया तबसे फिर मजनुकी निगाह नीचे आगपर न पटी किन्तु ऊपरको देखते हुए और लैली २ करते हुए मजनु आगेको बढे और आगके अगारोपर दौडते चले गये परन्तु उनके पाव न जले, क्योंकि, उनका मन अपने शरीरमे न था वह लैलीके पास चला गया था आगका ज्ञान कैसे होता । इसीसे उनको आगका ज्ञान भी न हुआ । जब चौकीके नीचे मजनु पहुँचे और मजनुने दोनों हाथ ऊपरको उठाये ऊपरसे लैलीने तिसके हाथोको पकडकर अपने पास खैचकर चौकीपर बिठालिया और वापसे कहा ये ही वह सच्चा हमारा प्यारा मजनु है । वादशाहने तिसी मजनुके प्रति अपनी प्यारी बेटी लैलीको दे दिया और बनावटी सब मजनुओंको कैद करलिया । यह दृष्टान्त है

दार्ष्टान्तमे; जो कि, सच्चा ज्ञानी है वह तो हजारों लाखोंमें कोई एकही है और जो बनाबटी है वह ज्ञानी बनकर मजनुबोंकी तरह छूट मार करके खा रहे है वह सब वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं क्योंकि वह वैराग्यादिक साधनोंसे ग्रन्थ हैं ॥ ६० ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और वंध्यज्ञानियोंके दृष्टातको सुन —

एक ग्राममें जुलाहे बहुतसे रहते थे, उनसे थोड़ी दूरपर एक क्षत्रियोंका ग्राम था। एक दिन जुलाहोंने आपसमें सलाह की कि चलो क्षत्रियोंको चलकर छूट लावें, रात्रिके समय वह जुलाहे सब मिलकर क्षत्रियोंके ग्रामको छूटने लगे। आगे क्षत्री बड़े शूरवीर ये वह शस्त्र अस्त्रोंको लेकर जुलाहोके मारनेके लिये दौड़े। जुलाहे भागे, जब कि, भागते २ कुछ दूर निकल गये तब एक जुलाहेने कहा भागे तो जाते हो मारो मारो तो करते चलो। तब सब जुलाहे भागते भी जायँ और मारो मारो भी करते जायँ यह तो दृष्टात है। दार्ष्टान्तमे; जो कि, वंध्यज्ञानी है वह विवेक वैराग्यादिक साधनोंसे भागे तो जाते है क्योंकि साधन उनसे हो नहीं सक्ते हैं तब भी वह मुखसे मारो २ भेदवादियोंको करते ही जाते हैं ॥ ६१ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और दृष्टात तुमको सुनाते है.—

एक नगरमें एक बनियां बड़ा धनिक रहता था। उसकी भैस और गैयाकों चरवाहा नित्यही जगलमें चरानेके लिये ले जाता था। एक दिन वह चरवाहा जंगलमें भैसोंको पडा चराता था कि इतनेमें एक सिंह जगलसे निकला और उन भैसोंमेंसे एक भैसको उठाकर लेगया। चरवाहेने आकर रात्रिमें बनियासे कहा आज सिंह एक भैसको उठाकर लेगया है। बनियाने मुनीमसे कहा वही खातेको देखो सिंहका कुछ हमारी तरफ निकलता तो नहीं है? मुनीमने वहीको देखकर कहा सिंहका हमारी तरफ कुछ भी नहीं निकलता है। तब बनियाने कहा फिर सिंह हमारी भैसको क्यों लेगया? बनियाने चरवाहेसे कहा कलको हम भी तुम्हारे साथ जगलमें चलेंगे और सिंहसे भैस लेजानेका कारण पूछेंगे। दूसरे दिन बनियां चरवाहेके साथ जगलमें जाकर एक वृक्षकी छायामें बैठ रहा।

जब कि, तीसरा पहर हुआ तब सिंह वनसे निकला और भैंसोंका तरफ चला तब बनियाने सिंहसे कहा हमने अपना वहीखाता सब देख लिया है तुम्हारा हमारी तरफ कुछभी हिसाब नही निकलता है फिर तुम हमारी भैंसको क्या उठाकर लेगये ? बनियेकी वार्ताको सुनकर सिंह गरजा और गरज करके एक और भैंसको उठाकर ले भागा । तब बनियाने कहा यदि हिसाब देखा जाय तब तो तुम्हारा कुछ भी हमारी तरफ नही निकलता है और जो तुम केवल गरजन दिखाकर हमारी भैंसको खाना चाहो तब तो हमारा तुम्हारे पर कुछ भी जोर नही चलता है । तुम वेशक खाजाओ । यह तो दृष्टात है । दार्ष्टान्तमें; जितने कि वध्यज्ञानी हैं यदि ज्ञानकी वारणाका और ज्ञानके सुखका उनसे कुछ हिसाब पूछा जाय तब तो उनके पास बाकी कुछ भी नहीं रहता है, केवल ज्ञानकी बातोंके गरजनेको दिखाकर वह लोगोको लूट कर चले जाते हैं । इसीसे वह वध्यज्ञानी कहे जाते हैं । हे चित्तवृत्ते ! हरएक वस्तुकी सिद्धि किसी प्रमाणसे होती है, या किसी लक्षणकरके होती है बिना इन दो बातोंकी नही होती है, सो ज्ञानके जो लक्षण शास्त्रोमे किये हैं, वह वध्यज्ञानियोंमें नहीं घटते हैं । प्रथम तो जिसका किसी भी पदार्थमें राग न हो वल्कि स्त्री पुत्रादिकोमें भी राग न हो और यदि सन्यासी हो तब मठो और चेलोंमें तथा द्रव्यादिकोमे जिसका राग न हो फिर सब जीवोंमें शत्रु मित्रादिकोमें भी जिसका समबुद्धि हो और किसीका भी जिसको भय न हो और किसीको भी जिससे भय न हो वही पूरा २ ज्ञानी है । यह बातें जिसमे नही घटती हैं, केवल ज्ञानकी बातें ही करता वैराग्यसे भी शून्य है वही वध्यज्ञानी है ॥ ६२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! अब तुमको सच्चे निष्काम ज्ञानीकी कथाको सुनाते हैं —

सिंधु नदीके किनारेपर जहासे कि, नाव इसपार उसपार जाती आती थी वहापर एक क्षत्रिय जातिवाला पुरुष दूकान करता था, उसकी दूकानमें पावनातही रुपयोंका सौदा रहता था, सो कोई साधु नदीके पारको जाता था या इस पारको आता था । उसकी दूकानके आगे एक पलग बिछा रहता था

जिस वृक्षकी छाया थी, उस पलंगपर वह महात्माको बिठाकर तीन मुड़ी चनेको खिलाता और ठंडा पानी अपने हाथसे पिलाता पत्ता करता कुछ देरतक पांव दबाता था, ऐसा तिसका नियम था । एक दिन एक रसायनी महात्मा साधु वहांपर आगये, उसने उन महात्माकी सेवा भी उसी तरहसे की जैसी औरोंकी करता था । महात्माने उसका दूकानकी तरफ जब देखा तब उनको आश्चर्य हुआ यह तो बहुत ही गरीब है । क्योंकि तिसकी दूकानमें उनको कुछ सामग्री दिखाई न पडी तब महात्माने कहा इसको कुछ देना चाहिये । उन्होंने एक रसायनका बिल निकालकर तिसको दिया और कहा इसको किसी ताकेके पर घर डीजिये तुम्हारे काम आवेगा । उसने बिलको लेकर ऊपर ताकेके धरदिया, महात्मा नाचमे बैठकर उस पारको गये । एक सालके पीछे वह फिर उसी रास्तासे आ निकले और मनमे विचार किया अब तो वह बड़ा धनी होगया होगा क्योंकि हमने उसको रसायनका बिल दिया था । जब उसकी दूकानके सामने पलंगपर आकरके बैठे तब जैसी पहले उसकी दूकानको उन्होंने देखा था, वैसीही फिर भी देखा । तब उन्होंने मनमें सोचा हमने इसको बिल तो दिया था परन्तु सोना बनानेकी तजवीज इसको नहीं बताई थी । इसीसे यह गरीब रहगया है । महात्माने कहा बाबा ! परसाल हम तुम्हारे यहां आयेथे आपने हमको पहचाना है या नहीं ? उसने कहा महाराज ! मैंने नहीं पहँचाना है । क्योंकि, हमारे यहां नित्यही दस पांच साधु आते हैं वह पार जानेका रास्ता है । इसलिये मैंने आपको नहीं पहँचाना है । महात्माने कहा हमने आपको एक बिल दिया था, और आपने उसको ऊपर ताकेके धर दिया था उसने देखा तो वह बिल उसी जगह धराथा, उठाकर महात्माके आगे तिस बिलको धर दिया । महात्माने कहा बाबा ! इससे सोना बनता है, हमने तुमको गरीब जानकर दिया था जो यह धनी होजावे । महात्माने कहा तुमको हमने सोना बनानेकी विधिको नहीं बताया था सो इससे तुमने सोना नहीं बनाया है । उसने कहा महाराज ! अब आप सोना बनानेकी विधिको बता दीजिये । महात्माने कहा तावा लाकर एक मिट्टीकी कुठाली बनाकर कोइलाको मरवाकर तिसमें कुठालीको धरकर नौशादर और सुहागाको

तिसमें डालो, जब कि, तावा गलजाय, तब इस विलमेंसे एक रत्ती दवाईको तिसमें छोड़ दीजिये सोना बन जायगा । तब उसने कहा तावा लावें, कोइला, लावें, गलावे, दवाईको तिसमें छोड़ै, इतना यत्न करै, तब सोना बनै । उस क्षत्रियने महात्मासे कहा आपको सोनेकी जरूरत है ? महात्माने कहा हा, तब क्षत्रियने अपनी लाठीको लेकर तोलनेके जो पत्थर पड़े थे उनपर मारना शुरू किया, जिस पत्थरपर वह लाठीको मार कर कहे सोना हो जा वह तुरन्त ही स्वर्ण हो जाय, इसी तरह सब पत्थर स्वर्णके होगये । क्षत्रियने महात्मासे कहा बाबा ! यदि तुमने सोना बनानेके लिये ही मूँडको मुड़ाया है तब जितना सोना तुमको चाहिये उतना उठाओ यह भेष तुम्हारा सोना जमा करनेके लिये नहीं है किंतु सोनाके त्यागके लिये है और आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये है । तुम वैराग्यसे शून्य होकर अनात्म पदार्थमें सुख मान रहे हो अभी तुम्हारी भोगोंसे वासना दूर नहीं हुई है । महात्माने तिसके चरणोंको पकड़ लिया और दोनों वहासे चल दिये । हे चित्तवृत्ते ! सबे ज्ञानी ऐसे निष्काम होते हैं ॥ ६३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और ज्ञानवानकी कथाको तुम सुनो.—

काशीपुरीमें वरणाके संगमपर एक महात्मा विरक्त विद्वान् रहतेथे और आरणामें पूर्ण थे ; वेदात्त चिंतनके अतिरिक्त दूसरा चिंतन नहीं करते थे । एक दिन वह सबेरे वरणाके किनारेपर दिशा फिरनेको जब गये तब वहां वर्षासे वरणानदीका अरार गिराथा तिसमेसे मोहरोकी भरी हुई हडी निकल कर उलटी पडी थी, तिसके समीप बैठकर महात्माने मलका त्याग किया और उस हंडियाको उलटा हुआ देखा, परन्तु छूँदा नहीं । स्नान करके अपने आसनपर चले आये जब कि, कुछ थोडासा दिन निकल आया और इधर उधरसे लोक आने जाने लगे तब लोगोंने तिस हाडीको देखा इतनेमें बहुतसे आदमी वहापर जमा होगये और हाकिमको खबर मिली, वहभी वहां पर आगया । हाकिमने उस सब धनको लेलिया और लोकोंसे पूँछा यहांपर इसके पास मेला किया हुआ है । कौन ऐसा आदमी सबेरे यहा पर आया है जो पास इसके मेला करने बैठा है और धनको जिसने नहीं उठाया है । लोकोंने कहा

ब्रह्मापरा एक महात्मा विरक्त रहते हैं, वही सबरे आते है वही आये होंगे । हाकिम उनके पास गया और उनसे पूछा आप जब कि, ब्रह्मापरा मैला करनेको बैठे थे तब आपने उस धनको देखा था ? उन्होंने कहा हा, हमने देखा था । कहा आपने क्यों न लिया ? उन्होंने कहा हमको तिसकी जरूरत नहीं थी हमारे वो कामका धन नहीं था । क्योंकि, हम तो तिसको उपाधि समझते हैं, इसवास्ते हमने नहीं लिया । हाकिमभी उनकी बातको सुनकर प्रसन्न हुआ । फिर एक दिन एक महाजनने आकर उनसे कहा महाराज ! पंचक्रोशीको चलिये, उन्होंने नहीं माना । जब बहुत कहा तब कहने लगे एक २ छाता और एक २ जूता सब साधुओंके वास्ते लाओ सब साधू जूता पहरकर और छाता लगाकर चलेंगे । महाजनने कहा महाराज ! पंचक्रोशीमें तो लोक जूता पहरकर छाता लगाकर नहीं जाते हैं । महात्माने कहा जो कि अज्ञानी मूर्ख करैगे वह हम नहीं करैगे क्योंकि हमको तो किसी फलकी कामना नहीं है । हम किसी देवता वा तीर्थसे अपने कल्याणको नहीं चाहते हे, हम तो केवल आत्मज्ञानसेही मुक्तिको मानते हैं । तुम जावो हम पंचक्रोशी नहीं आयेंगे । वह महाजन ज्वलागया । हे चित्तवृत्ते ! जो सच्चे ज्ञानी हैं वे ज्ञानसे विना कर्मउपासनाके तथा देवतार्चन और तीर्थ आदिकोसे अपना मुक्तिको नहीं चाहते हैं उनका ऐसा कभी संकल्पभी नहीं फुरता है जो हमारा शरीर किसी तीर्थमेंही गिरे क्योंकि तीर्थरूप तो वह आपही हैं और न किसी शास्त्रमें ही ऐसा लिखा है जो ज्ञानवान्को तीर्थपरही शरीरका त्याग करना चाहिये किंतु इसके विरुद्ध लिखा है:-

नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन् भुवि ।

मूर्च्छितो वा त्यजत्येष प्राणान् भ्रातिर्न सर्वथा ॥ १ ॥

ज्ञानवान् रोगरहित हो अथवा-रोगवाला हो, बैठा दो वा पृथिवीपर लोटता हो, मूर्च्छित हो वा सचेत हो, प्राणोंके त्यागकालमें इसको भ्राति किसी तरहसे भी नहीं होती है ॥ १ ॥

तनुं त्यजति वा काश्यां श्वपचस्य गृहे तथा ।

ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ २ ॥

ज्ञानवान् काशीमें शरीरका त्याग करे, अथवा चाडालके घरमें त्याग करे वह ज्ञानसम्प्राप्तिकालमें ही मुक्त हो जाता है क्योंकि जिसका वासनाएँ सब नष्ट होगई हें तिसको काशी मगह बराबर है ॥ २ ॥

फिर दृढ बोधवाले ज्ञानीके लिये कर्मादिकोका कर्त्तव्य भी नहीं कहा है जितना कर्त्तव्य है सो सब अज्ञानीके लिये ही कहा है ।

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ॥

नैवास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥ ३ ॥

जो पुरुष ज्ञानरूपी अमृतकरके तृप्त है और कृतकृत्य है, उसको किञ्चित् भी कर्त्तव्य नहीं है, यदि वह अपनेमें कर्त्तव्यको मानै तब वह तत्त्ववित् नहीं है ॥ ३ ॥

गीतामें भी कहा है—

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ॥

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ४ ॥

जिस पुरुषका आत्मामें ही प्रीति और अपने आत्मानंदकरके ही जो तृप्त है आत्मामें ही जो संतुष्ट है तिसको कुछभी कर्त्तव्य नहीं है ॥ ४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जो सबे ज्ञानी हैं वह तो निरिच्छ हैं, जो वनावटके ज्ञानी हैं, जिनका दृढ विश्वास नहीं है वही महात्मा तीर्थोंमें मुक्तिके लिये निवास करते हे और मरणकालमें कहते हैं कि, तीर्थोंमें हमको लेचलो वहापर शरीरको त्यागैंगे, जन्मभर तो लोगोको वेदान्त सुनाते हैं और ज्ञानी कहाते हैं मरणकालमें अज्ञानी बनजाते हैं क्योंकि, अज्ञानियोंकी तरह तीर्थोंसे मुक्तिकी इच्छा करने लगते हैं ॥

कपिलगीतामें कहा है—

इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्रमंति तामसा जनाः ॥

आत्मतीर्थं न जानंति कथं मोक्षः शृणु प्रिये ॥ १ ॥

महादेवजी पार्वतीके प्रति कहते हैं हे पार्वती ! यह तीर्थ है वह तीर्थ है ऐसे जानकर अज्ञानी जीव भ्रमते फिरते है, क्योंकि वह आत्मरूपी तीर्थको नहीं जानते हैं ॥ १ ॥

देवीभागवतमे भी कहा है—

मनोवाकायशुद्धानां राज्ञस्तीर्थ पदेपदे ॥

तथा मलिनचित्तानां गंगापि काकटाधिका ॥ २ ॥

जिन पुरुषोंके मन और वाणी आदिक शुद्ध हैं हे राजन् ! उनके पद २ में तीर्थ निवास करते हैं, जो मलिनचित्त हैं उनके लिये गंगा भी काकट देशके समान है ॥ २ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जिन पुरुषोको आत्मानन्दकी प्राप्ति हुई है वह विषयानन्दका इच्छा नहीं करते हैं ॥ ६४ ॥

चित्तवृत्ति कहती है—हे आता ! चित्तकी शुद्धिके साधनोंको कहो, क्योंकि बिना चित्तकी शुद्धिके विवेक वैराग्यादिक भी नहीं होते हैं, तब आत्मज्ञानका होना तो अर्थसे भी नहीं होसक्ता, इसलिये प्रथम मेरेको चित्तकी शुद्धिके साधनोंको तुम सुनाओ जिनके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध होजाय । विवेकाश्रम कहते हैं—हे चित्तवृत्ते ! अन्नकी शुद्धिसे चित्तकी शुद्धि होती है, सो अन्नकी शुद्धि इस तरहसे होती है—सत्य धर्मकी कमाईसे जो द्रव्य कमाया जाता है वह शुद्धद्रव्य कहाता है, तिस द्रव्यसे जो खाने पीनेके लिये अन्नादिक लिये जाते हैं वह ही शुद्ध कहे जाते हैं । क्योंकि सत्य धर्मका असर द्रव्यद्वारा तिस अन्नमें आता है, तिस अन्नके खानेसे चित्त शुद्ध होता है । क्योंकि अन्नद्वारा तिस सत्यधर्मका असर चित्तपर भी आता है, तिस शुद्ध चित्त ही विवेक वैराग्यादिक उत्पन्न होते हैं । इसीपर तुमको दृष्टांत सुनाते हैं—

एक ब्राह्मण चित्तशुद्धिके लिये तीर्थोंपर भ्रमण करने लगा, कई वरसों-तक वह तीर्थोंपर भ्रमण करता रहा तब भी तिसका चित्त शुद्ध न हुआ । क्योंकि तीर्थोंमें जाकर क्षेत्रोंका और दान कुदानादिकोंका अन्न तिसको खानेके लिये मिला, उस अन्नके खानेसे तिसका चित्त और मलिनताको प्राप्त होता चला गया । जब कि, चित्त मलिन होता है, तब विषय विकारोंकी ओरही जाता है । ब्राह्मणने मनमें विचारा कि, क्या कारण है जो चित्त हमारा प्रतिदिन तीर्थ करनेसे भी मलिन होता जाता है । परन्तु तिसको चित्तकी अशुद्धिका कुछ कारण मालूम न हुआ । फिर वह अमरनाथ तीर्थसे जब लौट

कर कश्मीर देशमें आया, तब एक दिन दोपहरके वक्त एक ग्राममें वह पहुँचा और वहापर एक किसानके द्वारपर वह गया और उस किसानसे भोजनके लिये तिस ब्राह्मणने कहा । किसानने कहा, हमारे पास शुद्ध अन्न नहीं है, क्योंकि, जब हमारा अन्न खेतमें था, तब एक दिन हमारे खेतको दूसरेकी पारोका जल दिया था, इसीसे वह अशुद्ध है । हमारे भाईका अन्न शुद्ध है, आप हमारे भाईके घरमें आज भोजन करें । तिसने अपने भाईसे कह दिया । उसके भाईके घरमें जब ब्राह्मण भोजन करके वहासे चला तिसकी वृत्ति सात्त्विकी होगई और तिसके हृदयमें एक विलक्षण प्रकाशसा होने लगा, और भूत भविष्यत्की बातोंको भी वह जानने लगा । तब तिस ब्राह्मणने जाना ये सब शुद्ध अन्नका प्रताप है । हे चित्तवृत्ते ! अन्नकी शुद्धिसे चित्तकी शुद्धि अवश्य होती है ॥ ६५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको तुम सुनो:—

एक पुरुष बडा सत्यवादी और धर्मात्मा था । वह कुछ कपडा खरीटकर विदेशमें बेचनेके लिये ले गया । एक आढतीकी दूकान पर उसने जाकर कपडेके भारको उतार दिया, जब बेचनेलगा तब तिसका दाम पूरा नहीं लगा । उसने आढतीसे कहा, इस कपडेके भारको आप मेरी अमानत जानकर रख छोडै फिर मैं आकर बेचूंगा । आढतीने उसका कपडा रखलिया, वह अपने घरको चला गया, कुछ दिन पीछे आढतीकी दूकानमें आग लग गई, कुछ माल आढतीका जलगया, तिसका कपडा दूसरे मकानमें पडा था वह बचगया । दो चार महीनोंके बाद वह आया और उसने आढतीसे कहा, हमारा कपडा निकालो उसको अब हम बेचेंगे । आढती बेधर्म होगया, उसने कहा, हमारी दूकानमें आग लगी थी तिसमें तुम्हारा कपडा भी जल गया है । उसने कहा, हमारा कपडा नहीं जला है, दोनों झगडते २ राजाके पास गये । राजाने कहा, इसकी दूकानमें आग तो लगी थी और माल भी बहुतसा जलगया था । उसने कहा, इसका माल जला होगा । क्योंकि यह बेईमानी करता है, हमारा माल नहीं जला होगा । क्योंकि, हम बेईमानी नहीं करते हैं । राजाने कहा, इसकी परीक्षा कैसे हो ? कपडेवालेने अपने ऊपरसे चदर उतार कर धरटी

राजासे कहा, आप इसको आग लगाइये, यदि यह जल जावेगी तब हम जानेंगे जो हमारा कपडा जल गया है । यदि यह नहीं जलेगी तब आप जान लेंगी जो हमारा कपडा नहीं जला है । राजाने आग मँगाई, तिसकी चदरके जलानेके लिये कितनाही यत्न किया परन्तु तिसकी चदर नहीं जली । तब राजाने आदतीके मकानकी तलाशी की, तिसके कपडेकी गठडी निकल आई । तिसको दिलवादी और आदतीको दण्ड दिया । हे चित्तवृत्ते ! सत्यधर्मका कमाईको अग्नि भी जला नहीं सकता है और पानी तिसको वहा नहीं सकता है ॥ ६६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और हम तुमको इसी विषयपर कथाको सुनाते हैं—
 हे चित्तवृत्ते ! एक राजा बडा धर्मात्मा था । किसी जीवको कभी भी नहीं सताता था । जितना कर प्रजासे लेता था वह प्रजाकी पालनामे ही खर्च कर-देता था और बहुतही साधारण चालसे रहता था । एक शत्रुने तिस राजापर चढाई की, तब राजाने मनमें विचार किया यह राज्य तो दुःखकी खान है, क्योंकि, अनेक प्रकारकी चिन्ता इसमें बनी रहती है, इस राज्यकी प्राप्तिके लिये जोकि वैराग्य और विचारसे शून्य है, वही यत्न करते हैं । यदि हम शत्रुसे युद्ध करेगे तब बहुतसे जीवकी हिंसा होगी फिर यह भी तो निश्चय नहीं है कि, जय हो वा न हो । कल्याण तो इसके त्याग करदेनेमें ही है । ऐसा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानीको साथ लेकर राजाने चल दिया । तिस कालमें और लोक तो सब सोये पडे थे परन्तु एक नौकर राजाका जागता था, वह भी राजाके पीछे चल दिया । राजाने तिस नौकरको कितनाही मना किया परन्तु तिसने नहीं माना, राजाके पीछे २ ही चलपडा । राजा अपने देशसे निकलकर दूसरे राजाके देशमें जब कि पहुँच गया तब राज्यसम्बन्धी सब बच्चोंको तिसने फेंक दिया । गरीबोंके बच्च पहनकर एक टूटे टूटे मकानमें जा रहा । और वहाके राजाका एक मकान बनता था और बहुतसे मजदूर तिसमें जाकर नित्य मजदूरी करते थे । राजा और रानी तथा नौकर ये तीनों भी जाकर उन मजदूरोंमें नित्यही टोकरी ढोनेकी मजदूरी करने लगे । जो कुछ इनको मजदूरीका मिलता उसीमें प्रसन्नतापूर्वक अपना निर्वाह

करते थे । जब कि, एक बरस इनको वहांपर रहते व्यतीत होगया, तब एक दिन राजाके नौकरको एक अपना स्वदेशी मिला । उसने कहा, हम अब अपने देशको जाते हैं । तुम भी अपने घरके लिये कोई वस्तु हमको खरीद करके लेदो । हम तुम्हारे घरमें लेजाकर देदेगे । उस नौकरने राजासे कहा, एक आदमी हमारे घरको जानेवाला है वह कहता है, तुमभी अपने घरके लिये कुछ भेजो, हम लेते जायेंगे । राजाके पास पाच पैसे खरचेमेंसे बचे हुए थे । सजाने उसको वह देदिये और कहा, इनका कोई फल लेकर तुम अपने घरको भेजदो । आगे उनके देशमे अनार नहीं होता था । तिसने पांच पैसैके पाच अनार खरीद कर अपने घरको भेज दिये । जब कि, इसके घरमें अनार पहुँच गये उधर वहाका राजा उसी दिन बीमार होगया । हकीमने राजासे कहा, यदि अनारका फल मिलैगा, तब तुम अच्छे होगे, बरन यह बीमारी जल्दी जानेकी नहीं है । राजाके हुक्मसे अनारकी तलाश होनेलगी । तब किसीने बताया फलानेके घरमें कल पाच अनार आये हैं, राजाने मन्त्रीको भेजा, उन्होने अनार देदिये, हकीमने अनारका रस निकालकर दिया, राजा अच्छा होगया । राजाने एक लाख रुपैया उनके घरमें भेजदिया । उसको जब इतना द्रव्य मिलगया तब उस अपने सम्बन्धीको सब हाल रुपैया मिलनेका लिख भेजा और यह भी लिख भेजा अब तुम नौकरी छोडकर अपने घरको चले आवो । जब उस नौकरको घरसे खत गया तब उसने सब हाल अपने राजासे कहा । राजाने कहा, पाच अनारके बदले उसका पाच लक्ष रुपैया देना था, उसने थोडा दिया है वह पाच पैसे हमारी सत्यधर्मकी कमाईके थे । अच्छा, अब तुम अपने घरको भी जावो । वह नौकर अपने घरको चला गया, ये सब हाल उस राजाको भी मिला, जिसने तिस राजाका राज्य लेलिया था उसने राजाको बडी खातिरदारीसे बुलाकर कहा, आप अपना राज्य लीजिये और मेरे कसूरको माफ करिये । राजाका मन फिर राज्य लेनेमें नहीं था परन्तु उसकी प्रार्थनासे लेलिया और वह अपने राज्यपर चला गया । हे चित्तवृत्ते ! सत्यधर्मकी कमाईमे इतनी बडी शक्ति है जो कि, तुमको सुनाई है, इसी हेतुसे सत्यधर्मकी कमाईका अन्न शत्रु होताहै ॥ ६७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! असत्यधर्मोंकी कमाईसे जो अन्न लिया जाता है वह अशुद्ध अन्न कहा जाता है। क्योंकि, अधर्मका असर तिस अन्नमें भी आता है, इससे वह अन्न चित्तकी अशुद्धिका हेतु होता है । अब अशुद्ध अन्नके फलको भी तुम चुनो.—

जिस कालमें भीष्मजी बाणोंकी शय्यापर शयन करके अनेक प्रकारके धर्मोंको युधिष्ठिरके प्रति सुनाने लगे, तिस कालमें द्रौपदीने भीष्मजीसे कहा, महाराज ! जिस समय दुःशासन मेरे केशोंको पकडकरके सभामे लाया था और दुर्योधन मेरेको नग्न करने लगा था तिस समयमें आप भी तिसी सभामें बैठे थे । आपने उस समयमें इस तरहके धर्मोंको सुनाकर दुर्योधनादिक पापियोंको क्यों न अधर्म करनेसे हटाया ? तब भीष्मजीने कहा, हे द्रौपदी ! तिस समयमें तिस पापी दुर्योधनके अन्नको हमने खाया था इसलिये उस समयमें हमको कोई भी धर्म नहीं फुराया। क्योंकि, पापीके अन्नको खाकर चित्त मलिन होजाता है और मलिन चित्तमें धर्मका स्फुरण नहीं होता है । हे चित्तवृत्ते ! अशुद्ध अन्नमें इतनी बड़ी शक्ति है जिसने भीष्मजी धर्ममलिन कर दिया, तब इतर पुरुषोंकी कौन क्या है ?

हे चित्तवृत्ते ! एक और विरक्त महात्माका हाक... ACC No. ...

एक विरक्त महात्मा एक ग्रामके बाहर गुफा बसवाकर रहते थे । वह दूरे लोकोंको पास नहीं आने देते थे और स्त्रीका तो दर्शन भी नहीं करते । एक दिन दोपहरके वक्त एक युवती उनके लिये भोजनको ले गई उन्होंने भोजनको लेलिया और युवतीसे कहा तुम गुफाके बाहर बैठो । वह बाहर बैठी रही और वह भीतर भोजन करने लगे। भोजन करते ही उनका मन विकारी होगया । उन्होंने स्त्रीको भीतर बुलाया, वह भीतर चली गई । उन्होंने स्त्रीके हाथको पकड कर कहा, हमसे सम्बन्ध कर । स्त्रीने कहा, यदि कोई पुरुष इस समय यहाँ पर आजायगा तब हमारी और आपकी फजीहत होगी । आपको पेमा कर्म न करना चाहिये । वह जबरदस्ती करनेलगे, स्त्री चिल्ला उठी, इतनेमें एक दो सत्सगी वहाँपर पहुँच गये, महात्मा बड़े लज्जित हुये । उन्होंने कहा, महाराज ! आपको तो कभी भी ऐसी वार्ता नहीं फुरी थी। आज ऐसे अधर्म करनेमें

आपकी रुचि कैसे होगई? महात्मा कहने लगे किसीने हमको दुष्ट अन्न खिला-
या है, तिस अशुद्ध अन्नका यह फल है ॥ ६९ ॥

एक नगरमें एक पंडित बड़ा आचारवान् और विचारवान् रहता था, राजाके अन्नको और नीच जातिवालेके अन्नको वह कदापि नहीं खाता था । एक दिन राजाकी रानीने उनको किसी कार्यके लिये बुलाया, पंडितजी गये । रानी आगनमें आकर पंडितजीसे बातचीत करने लगी और उसी स्थानमें रानीने अपना मोतियोका हार उतार कर धर दिया । रानी बातचीत करके गृहके भीतर चली गई । रानीका मोतियोका हार उसी जगहमें छूट गया । पंडितजी हारको उठाकर अपनी जेबमें डालकर घरको चले आये । घरमें आकर जब पंडितजीने अंगरखा उतारा, तब जेबसे हार गिरा । पंडितजी हारको देखकर शोच करने लगे, ऐसा अधर्म हमसे क्यों हुआ । त्वंसिं पूछा आज अन्न कहाँसे आया था ? स्त्रीने कहा एक सुनार दे गया था, सुनारको बुलाकर पूछा । उसने कहा, हमने एकके जेवरमेंसे सोना थोडासा चुराया था, उसको बेचकर अन्न खरीदकर थोडासा आपके यहां भेजा था बाकीका अपने घरको भेजा था । पंडितने कहा, उसी अन्नका यह फल है जो हमने मोतियोके हारकी चोरी कर ली है । हारको रानीके पास भेज दिया । आपने उस दिन उपवासव्रत किया । हे चित्तवृत्ते ! दुष्ट अन्न महात्मापुरुषोंके चित्तको भी विकारी कर देता है, तब इतरोका कौन कथा है ॥ ७० ॥

हे चित्तवृत्ते ! सत्यभाषणसे भी चित्तकी शुद्धि होती है, असत्य भाषणसे चित्तकी अशुद्धि होती है और अन्नकी शुद्धिका भी मूलकारण सत्यभाषण ही है । सत्यभाषणके तुल्य ससारमें दूसरा न कोई धर्म है न भक्ति है । सत्य-भाषणवालेकी जगत्में प्रतिष्ठा होती है इसलिये सत्यवादियोंके भी इतिहासोंको तुम सुनो:—

एक ब्राह्मणके दो पुत्र थे । जब कि एक लडका तिसका बारह वरसका हुआ और दूसरा आठ वरसका हुआ, तब तिस ब्राह्मणका देहांत होगया । तिसके देहांत होनेके कुछ दिन पीछे बड़े लडकेने अपनी मातासे कहा, हय

विदेशमें विद्याध्ययन करनेको जायेंगे। आप हमको विदेश जानेके लिये आज्ञा दीजिये । प्रथम तो तिसकी माताने हीलाहवाला किया । जब कि लडकेने बहुतसी विनती की तब माताने जानेके लिये तिसको आज्ञा दे दी और तिसकी माताने कहा बेटा ! पचास अशरफी मेरे पास हैं, तिसमें पचीस तो तुम्हारे छोटे भाईका हिस्सा है तिसको तो मैं अपने पास रख छोडती हूँ और पचीस अशरफी जो कि तुम्हारा हिस्सा है तिनको मैं तुम्हारी गोदडीमें सी. देती हूँ । जहां पर तुमको खरचका काम लगे एक एक निकालकर अपना काम चला लेना । जब कि लडका काफलेके साथ होकर विदेशमें जाने लगा तब माताने तिससे कहा, बेटा ! एक वचन हमारा और भी मानना । बेटेने कहा, माता कहो। तिसने कहा बेटा ! झूठ कभी नहीं बोलना चाहे सर्वस्व भी नष्ट होजाय, तब भी झूठ नहीं बोलना । बेटेने कहा, माता ऐसाही करूंगा । मातासे रुखसत होकर लडकेने काफलेके साथ चल दिया । एक दिन जगलमे काफला जाकर उतारा। रात्रिके समय चोरोका एक धाड तिस काफलेपर आपडी और सबको चोर छूटने लगे । सबको छूटकर फिर तिस लडकेसे आकर चोरोने कहा, लडके तुम्हारे पास क्या है ? लडकेने कहा, हमारे पास पचीस अशरफी हैं, चोरोने कहा वह कहाँपर हैं, लडकेने कहा, इस गोदडीमें सब सिई छुई है । चोरोके सरदारने गोदडीको जब खोल कर देखा तब तिसमें ठीक ठीक पचीस अशरफी निकल आई। चोरोके सरदारने कहा लडके तुमने हमको अशरफी क्यों तबाई हम तो चोर हैं सबको छूटनेके लिये आये हैं, सबको छूटा है, यदि तुम न बताते तब तुम्हारी अशरफी बच जाती। लडकेने कहा, जब हम घरसे विदेश जानेके लिये निकले थे तब हमारी माताने हमसे कहा था बेटा झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहे सर्वस्व चला जाय, मैंने कहा ऐसेही करूंगा । अपनी माताको आज्ञाको हमने पालन किया है, इसवास्ते हमने आपको अपनी अशरफी बतादी हैं । चोरोके सरदारने कहा, देखो बडे आश्चर्यकी बातों है, यह छोटासा बालक होकर अपनी माताकी आज्ञाको नहीं फेरता है और इसने पूर्णरूपसे अपनी माताकी आज्ञाका पालन किया है। इसको हम धन्यवाद देते हैं और हम लोगोंको धिक्कार है जो अपने स्वामी ईश्वरकी आज्ञाको पालन नहीं

करते हैं, क्योंकि ईश्वरने कहा है, किसी जीवको भी मत सतावो और हम सताते हैं । ईश्वरकी आज्ञाको नहीं पालन करते हैं. आजसे पीछे हम भी निन्दित कर्मको नहीं करैगे और मजदूरी करके खावेंगे । चोरोके सरदारने जितना माल उस काफलेका छटा था सबको फेर दिया और लडकेकी गोदडीमें उन अशरफियोंको सीकर तिस लडकेके हवाले कर दिया और तिस लडकेको जहापर जाना था, वहापर तिसको पहुँचा भी दिया । हे चित्तवृत्ते ! एक लडकेके सत्यभाषणसे सब काफलेका माल भी बचगया और वह चोर भी साधु बनगये ॥ ७१ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और सत्यवादीके इतिहासको तुम सुनो:—

हे चित्तवृत्ते ! एक समय चातुर्मासमें वर्षा न होनेके कारण बडा अकाल पडा । अन्नके बिना लोक बडे दुःखी हुए । सब लोक मिलकर राजाके पास गये और राजासे प्रजाने कहा, वर्षाके बिना लोक मरे जाते हैं, कोई उपाय करना चाहिये । तब राजाने भी बहुत मन्त्रोके जप कराये और भी अनेक प्रकारके पाठ पूजा आदिक कराये, तब भी वर्षा न हुई । राजाने अपने मन्त्रियोंसे कहा, आपलोक अब कोई उपाय बतावें जिसके करमेसे वर्षा हो, नहीं तो प्रजा सब नष्ट भ्रष्ट होजायगी । मन्त्रियोंने कहा, महाराज ! इस नगरके फूलाने दरवाजेके पास एक क्षत्रीकी दूकान है वह बडा सत्यवादी है, यदि आप उससे कहें और वह ईश्वरसे प्रार्थना करे तब अवश्य ही वर्षा होगी । राजा सबरे पालकीमें सवार होकर उसकी दूकानपर जा बैठे । उसने कहा राजन् ! आपके आगमनका कारण क्या है ? राजाने कहा, महाराज ! पानी नहीं बरसता है पानी धरसानेके लिये आपके पास आये हैं । क्षत्रियने कहा, राजन् ! किसी देवता वगैरहकी पूजा कराओ । राजाने कहा, सब उपाय हम कर चुके हैं, अब आपकी शरणको आये हैं जबतक वर्षाको नहीं करोगे तबतक हम भोजन नहीं करेंगे । उन्होंने राजाको बहुतसी बातें कहकर टाला परन्तु राजाने एक भी न मानी । जब दोपहर हो गई और राजापर भी धूप आगई तब तिसने समझलिया कि अब राजा किमी तरहसे भी नहीं जाता है, तब उन्होंने अपने तराजूका पनझा करके कहा हे तराजू ! यदि हमने हमेशा सचही बोला है और सच्चा

सौदा ही किया है तब तो वर्षा हो । यदि हमने झूठ बोला है और झूठा ही सौदा किया है, तब तो वर्षा न हो । इतना कहते ही दो मिनटके पोछे पूर्व दिशासे एक बादल उठा और देखते २ ही उसने आकाशको आच्छादन कर लिया और पानी बरसने लगा, इतना जोरसे पानी बरसने लगा जो राजाको अपने घरतक पहुँचना मुश्किल होगया । उधर तो राजा पालकापर सवार होकर अपने घरको गये और इधर इन्होंने दूकानको बन्द करके कहींको चल दिया । हे चित्तवृत्ते ! सत्यवादीकी वाणीमें सिद्धि रहती है तिसका कथन निष्फल नहीं जाता है ॥ ७२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! सत्संगसे भी चित्तकी शुद्धि होती है और कुसंगसे चित्तकी अशुद्धि होती है । अब तुम सत्संगके माहात्म्यपर भी एक दो दृष्टान्तोंको सुनो:—

एक राजाके नगरके बाहर दो महात्मा रहते थे और राजा भी कमी २ उनके पास जाया करते थे । उसी राजाके नगरमें एक मारी चोर रहता था, वह नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पकडा नहीं गया था । एक दिन वह चोर भी भगवां ब्रह्म करके साधुका भेष बनाकर उन दो महात्माओंके पास जा बैठा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महात्माओंके दर्शनको गये तब राजाने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वहापर बैठे हैं । राजा उन दो महात्माओंके पास होकर फिर उन तीसरे महात्माके पास जाकर बैठ गये और कुछ द्रव्य भेंटके लिये राजाने उनके आगे धर दिया था । तब चोरने राजासे कहा, राजन् ! मैं साधु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नगरका चोर हूँ । साधु जानकर मेरे आगे आप द्रव्यको क्यों रखते हैं ? राजाने कहा, आप अपनेको छुपानेके लिये ऐसा करते हैं । आप महात्मा हैं । फिर चोरने कहा, मैं सच्चा कहता हूँ मैं साधु नहीं हूँ, थोडे द्रव्यके लिये मैं लोकोको छूटनेवाला हूँ । राजाने कहा, जब कि आप थोडे द्रव्यके लिये लोकोंको छूटते हैं तब यह बहुतसा द्रव्य जो कि मैं आपको देता हूँ इसको आप क्यों नहीं अंगीकार करते हैं ? चोरने कहा मैंने चोरके भेषको त्यागकर अब साधुका भेष बनाया है । एक तो इस भेषको लज्जा लगजायगी, दूसरा दो घडीका महात्माका संग होनेसे मेरी वह बुद्धि अब जाती रही है । जो कि, अधर्म करके लोकोंसे द्रव्यको मैं लेता था उस वृत्तिको

स्याग करके मैं अब निवृत्तिमार्गमें होगया हूँ । हाथीकी सवारी करके अब मैं गधेकी सवारी करनी नहीं चाहता हूँ । राजा द्रव्यको लेकर चले गये, वह चोर भी दो घडीके सत्संग करनेसे साधु बनगया ॥ ७३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक नगरके बाहर चोरोके दो चार घर थे, एक चोरके पांच लडके थे, वह नित्यही अपने लडकोको उपदेश करता था, बेटा ! कभी भी किसी मंदिरमें न जाना और न कभी सत्सगमें और न कथावार्तामें जाना और न कभी किसी महात्माके पास जाना । इसी तरहके वह उपदेशोको करता २ एक दिन मर गया । उसके मरनेके थोडे दिन पीछे, एक दिन तिसके बडे लडकेके मनमें आया, आज रात्रिको राजाके घरमें चलकर चोरी करके कुछ मालटाल लावें । रात्रिके समयमें वह जब अपने घरसे चला तब रास्तामें कथा होती थी, उसको देखकर तिसने विचार किया, पिताका उपदेश है जहांपर कथा होती हो वहापर नहीं जाना । अब इस रास्तासे हम कैसे निकलें, या कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस करके हमारे कानमें कथाका शब्द न जाय । उसने दोनो कानोंमें थोडी २ रुई भरदी और कथाके बीचसे होकर चला । जब कि, कथाके समीप पहुँचा तब तिसके एक कानसे रुई गिर गई उस वक्त ऐसी कथा हो रही थी, देवताकी परछाई नहीं होती है और देवताके भूमिपर पाव भी नहीं लगते हैं । इतनाही उसने सुना और राजाके घरमें सेध लगाकर बहुतसा माल तिसने चुराया और लेजाकर अपने घरमें तिसने गाड दिया था । सवेरा जब हुआ तब राजाको मादम हुआ जो रात्रिको चोरी हो गई है । राजाने चोरके पकडनेके लिये हुक्म दिया । कई एक सिपाही चोरकी खोज करते रहे परन्तु चोरका पता न लगासके; तब राजाने वजीरसे कहा, अब वजीर भेष बदल कर चोरका पता लगाने लगे वजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोके घर थे उनही घरोंमें चोरका अनुमान किया । रात्रिके समय वजीर कालीदेवीका स्वाग बनाकर अर्थात् बदनमें स्याई मलकर वालोंको खोलकर एक हाथमें खप्पर लेकर आधीरातके समय उनके द्वारपर जाकर कहने लगा, काली माईकी भेंटको आपलोक क्यों नहीं देते हो ? रोज २ मनमाना माल ले आते हो, आज सब भेंट हमारी देदो

नहीं तो नाश करदेऊंगी । डरके मारे सब भाई बाहर द्वारके निकल आये और हाथ जोड़ने लगे, माता ! तुम्हारी भेंटका कल हैम, जरूर देवेगे इतनेमें बड़े बेटको कथावाली वार्ता याद आगई । उसने कहा, चलकर दिया लेकर देखें तो जब तिसने दीयेसे देखा तो तिसकी परछाहीमी दिखाई पडी और पृथिवी पर पावभी लगे हुए देखे । उसने जान लिया यह देवता नहीं है यह तो कोई ठग है, लड्ड लेकर कालीको मारने चला काली भाग गई तब निसने विचार किया हमने दो वाते कथाकी सुनी है, उन्ही दो वातोने हमारी जान बचाई और हमारा मालमी बचाया है । यदि हमलोक हमेशा सत्संगमें जाया करेंगे और इस छोटे कर्मको छोड देवैगे तब तो हमको महान् फल होगा, ऐसा विचार करके चोरने उत्ती दिनसे चोरी करनी छोड दी और सत्संगमें सब जाने लगे वह सब चोर साधु बनगये । ऐसा सत्संगका माहात्म्य है ॥ ७४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! सत्संगका ऐसा माहात्म्य है जो चोरभी साधु बनजाते हैं—
हे चित्तवृत्ते ! एक बगीचेमें एक गुलाबके पेडमें जंगली घासने जड पकड ली और धीरे २ वह बढते लगी । एक दिन वागवान्ने उसको फलते देखकर काटना चाहा तब उस घासने कहा हमको मत काटो, क्योंकि हमारेमें गुलाबकी सुगंधी आदिक गुण आगये हैं । गुलाबकी संगतसे अब मैं गुलाबरूप होगयी हूँ, मैं घास नहीं रही हूँ, यदि मेरेमें गुलाबवाले गुण न आते तब काटना मुनासिब था । वागवान्ने तिसको न काटा । सत्संगका ऐसा फल है और कवियोने भी सत्संगके फलको दिखाया है ॥ ७५ ॥

महानुभावसंसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः ॥

पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम् ॥ १ ॥

महान् पुरुषोंका जो संग है, वह किसकी उन्नतिको उही करता है ? कमलके पत्रपर स्थित जलकी बूँद भी मोतीकी शोभाको धारण करती है ॥ १ ॥

दोहा ।

जोहि जैसी सङ्गत करी, तैं तैसो फल लीन ।

कदली सीप भुजंगमुख, एक बूँद गुण तीन ॥ १ ॥

जल जिमि निर्मल मधुर मधु, करत ग्लानिको अन्त ।
पान किये देखे छुये, हरष देत तिमि सन्त ॥ २ ॥

सवैया ।

ज्ञान बढै गुनवानकी संगत ध्यान बढै तपसी संग कीने ।
मोह बढै परिवारकी संगत लोभ बढै धनमें चित दीने ॥
क्रोध बढै नर भूँढकी संगत काम बढै तियके संग कीने ।
बुद्धि विवेक विचार बढै कवि दीन सुसज्जन संगत कीने ॥

दोहा ।

तुलसी लोहा काठ सँग, चलत फिरत जलमाहिं ॥

बडे न डूबन देत हँ, जाकी पकडें बाहिं ॥ १ ॥

नीचहु उत्तम संग मिल, उत्तमही ह्वे जाय ॥

गंग संग जल झीलहू, गंगोदकके भाय ॥ २ ॥

जाहि बडाई चाहिये, तजै न उत्तम साथ ॥

ज्यों पलाश संग पानके, पहुँचे राजा पास ॥ ३ ॥

भले नरनके संगसे, नीच ऊँचपद पाय ॥

जिमि पिपीलिका पुष्पसंग, ईश शीश चढ जाय ॥ ४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक दिन बडी वर्षा होतीथी और सरदीके दिन ये, एक नग्न साधु घूमते हुए नगरमें एक मकानके छजेके नीचे द्वारपर खडे होगये, वह मकान राजाकी वेद्याका था । मकानके भीतरसे एक लौडीने उन महात्माका देखकर जाकर अपनी बीबीसे कहा, एक महात्मा नग्न काँचमे लिपटे हुए बाहर वर्गमें खडे काँप रहे हैं और बोलते चालते भी नहीं हैं । वेद्याने लौडीसे कहा, उनका हाथ पकड कर तू उनको भीतर मकानके ले आ । लौडी जाकर उनका हाथ पकडकर मकानके भीतर ले आई । बीबीने गर्म जलसे उनको स्नान कराकर बटन पोंछकर बिछोनेपर लिटा दिया और गर्म चाट पिलाई । फिर सुन्दर भोजन कराया, पश्चात् आप भोजन करके उनके पाँव दाबने लगी । तब महात्माने उस वेद्याकी तरफ एक निगाहने देखा

मानो उसके हृदयमें अमृतकी धारा बरसादी और सोगये । वह वेश्या रात्रिभर उनके पांवको ही दबाती रही, सबेरे वह सोगई । महात्माकी जब नींद खुली, उन्होने भी रजाईको फेककर चल दिया, कुछ देरके पीछे वेश्याकी जब नींद खुली तब उसने लौंडीसे पूछा महात्मा कहांको गये हैं ? लौंडीने कहा वह जङ्गलको चले गये । वह वेश्या भी नम्र ही घरसे निकल कर नगरके बाहर एक वृक्षके नीचे जाकर नीचे सिर करके बैठी रही। राजाको खबर हुई, राजा तिसके पास गये और उसको बुलाने लगे, तब वेश्याने कहा, अब मैं वह भगन नहीं रही हूँ, जो कि पहले तुम्हारे मैलेको उठाती थी अब तुम चले जावो । राजाने नौकरोंको हुक्म किया कि, कोई आदमी इसके पास आने न पावे। जहा जानेकी इसकी इच्छा हो वहापर यह चली जाय कोईभी इसको न रोके । दूसरे दिन वह वेश्या वहांसे चली गई । हे चित्तवृत्ते ! महात्माकी नजर जिसपर पडजाय वह भी कल्याणरूप होजाता है । इसीपर गुरु, नानकजीने कहा है—“ नानक नदरी नदर निहाल ” गुरु नानकजी कहते हैं, महात्मा अपनी दृष्टि करके ही दूसरेको कृतार्थ कर देते हैं ॥ ७६ ॥

छप्पय ।

लियो नीम सत्संग भयो मलयागिर चंदन ॥
लोहा पारस परस दरस दरसत है कुंदन ॥
मिलै सुरसरी नीर सरि निहचै सो गंगा ॥
मिश्रीसों मिल वंश तुलयो ताहूके संग्गा ॥
लोह तरयो नौका मिले साखी सकल सुन लीजिये ॥
साधु संगते साधु मिल रामनाम रस पीजिये ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! उपकार करनेसेभी चित्तकी शुद्धि होती है, दयाका नाम ही उपकार है, जिसमें दया होगी वही उपकार करेगा । जिसमें दया न होगी वह कभी भी उपकार नहीं कर सकता है । लोकमें भी दयालु पुरुषकी कीर्ति होती है और दयाहीनकी निंदा होती है । ‘दयाबिन सिद्ध कसाई’ ऐसा लोक कहते हैं । दया चित्तकी शुद्धिका मुख्य साधन है । अब तुमको दयालु पुरुषोंके दृष्टांतको सुनाते हैं:-

एक नगरके बाहर एक मंदिरमें एक महात्मा रहते थे, वह नित्य ही वेदातकी कथाको करते थे, उनकी कथामें एक क्षत्रिय भी जाता रहा परन्तु गरीब था। सड़कके किनारेपर खुमचा लगाकर बैठकर बेचता था। एक दिन उसने महात्मासे कहा, महाराज ! हमने अन्वयव्यतिरेक करके देहादिकोंसे भिन्न आत्माको निश्चय कर लिया है और महावाक्योकरके तथा अनुभव करके भी जीव आत्माका अभेद निश्चय कर लिया है, फिर भी हमको उस आत्मसुखकी प्रतीत नहीं होती है इसमें क्या कारण है ? महात्माने कहा, कोई पाप पूर्व जन्मका इसमें प्रतिवधक है वह पाप जब कि दूर होजावेगा तब तुमको आपसे आप उस सुखकी उपलब्धि होजायगी। महात्माकी वार्ताको सुनकर वह चुप रह गया। एक दिन वह क्षत्रिय सड़कके किनारेपर कूपके समीप छायामें खुमचा रखकर बैठा था, गरमीके दिन थे एक चमार घासका गड्ढा उड़ाकर चला आता था जब कि वह कूपके समीप पहुँचा तब गरमी खाकर गिर पड़ा और बेहोश होगया। तुरंत ही वह क्षत्रिय उठा और तिस चमारको उठाकर तिसने छायामें करदिया और ठंडा पानी निकाल शरबत बनाकर तिसके मुखमें थोड़ा २ डालना शुरू किया। थोड़ी देरमें वह चमार होशमें आगया, कुछ थोड़ासा तिसको दानाभी खिलाया, वह चमार उठकर चला गया। उसी दिनसे उस क्षत्रियके हृदयमें आत्मसुख भान होने लगा। उसने जाकर महात्मासे कहा। महात्माने कहा, तुम्हारेमें जो कोई पाप प्रतिवधक था वह दया करनेसे जाता रहा। क्योंकि तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया है। हे चित्तवृत्ते ! देयाका बड़ा भारी फल है, दयासे सर्व प्रकारके पाप दूर होजाते हैं और इस लोकमें भी यश मिलता है ॥ ७७ ॥

एक नगरमें एक बनियां बड़ा धनी था, वह नित्य ही यज्ञोंमें अपने धनको खर्च करता था, जब कि सब धन बनियाका खर्च होगया, तब बनियाको खानेपानेसे भी तगी होने लगी। तब तिसकी स्त्रीने कहा, तुम किसी राजाके पास जावो और एक यज्ञके फलको बेचकर कुछ द्रव्य लाकर अपना अच्छी तरहसे गुजर करो। जब कि बनियाने जानेकी तैयारी करी तब तिसकी स्त्रीने नौ रोटी मोटी २ रास्तेमें खानेके लिये तिसके कपड़ेमें बांध दी। बनियाँ

तीसरे प्रहर जंगलमें एक कूएँके किनारे पहुँचा और वहाँपर बैठकर सुस्ताने लगा तब देखता क्या है वृक्षकी कोटरमें एक कुतिया व्याई हुई पड़ी है, नव तिसके बच्चे हैं तिसको चूस रहे हैं और तीन दिनका वह भूखी है, क्योंकि तीन दिनसे वर्षा बराबर हो रही थी कहींको वह जाने नहीं पाई। अतिकृश और दुर्बल हो गई थी, अब उसमें कहीं जानेकी हिम्मत भी नहीं थी। बनियाने एक एक रोटी करके सब रोटी तिसको खिलादी और आप भूखा रह गया। कुतिया जी गई, तिसके जीनेसे तिसके बच्चे भी सब जी गये। बनियां दूसरे दिन राजाके पास पहुँचा और एक यज्ञके फलके बेचनेको कहा। राजाने ज्योतिषीको बुलाकर पूछा, तुम प्रश्न देखो इसने कितने यज्ञ किये हैं, उन सबमें किस यज्ञका फल उत्तम है उसीको हम खरीद करेगे। ज्योतिषीने कहा, जो कि, इसने रास्तामें कुतियाको रोटियें खिलाई हैं उससे नव जीवोंके प्राण बचे हैं वही इसके सब यज्ञोंमेंसे उत्तम यज्ञ है उसीके फलको यदि यह बेचे तब तुम खरीदकर लेओ। राजाने बनियासे कहा। बनियाने कहा, तिस यज्ञके फलको मैं नहीं बेचूंगा और किसी यज्ञके फलको खरीदो तो बेचूंगा। राजाने और यज्ञके फलको न खरीदा और बनियांको कुछ रुपैया देकर विदा कर दिया। हे चित्तवृत्ते ! दयाका कितना बडाभारी फल है ॥ ७८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! मनुष्य तो दया करतेही हैं, परन्तु इतर जीव भी दया करते हैं, अब मनुष्यसे इतर जीवोंका भी दयापर दृष्टान्त सुनो:—

एक पडित रास्तेमें चले जाते थे, उन्होने जंगलमें देखा कि मूसोकी बडी मारी कतार चलीआती है, उनमें एक मूसा अन्धा था, उसके सुखमें एक आसका तिनका पकडाकर दूसरे मूसेने उसी तिनकेको अपने मुखमें पकडा था तिसके पीछे २ वह अन्धा मूसा भी चला आता था, अब देखिये मूसा आदिक जानवरोंमें भी उपकार करनेकी बुद्धि रहती है, जो मनुष्य शरीरको धारण करके उपकारसे हीन है वह पशुओंसे भी बुरा है. क्योंकि मनुष्यशरीर तो खासकर उपकार करनेके लियेही उत्पन्न हुआ है ॥ ७९ ॥

परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि ॥

उपेकारजं पुण्यं न स्यात्कतुशतैरपि ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! नृत्यशालामें जो दीपक जगाकर रात्रिके समयमें धरा जाता है वह दीपक तिस समग्र सभाको प्रकाश करता है और सभाके भीतर जो कि सभापति है तिसको भी प्रकाश करता है और जो नृत्य करनेवाली वंद्या है और जितने कि सभासद हैं अर्थात् नृत्यकारीके देखनेवाले हैं, उन सबको भी दीपक प्रकाश करता है और जितने कि वंद्याके साथ वाजोंको बजानेवाले हैं, उन सबको भी दीपक ही प्रकाश करता है, यह तो दृष्टांत है। अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाते हैं। यह शरीररूपी तो एक सभा है याने नृत्यशाला है, तिसके भीतर चेतनरूपी दीया प्रकाशमान हो रहा है, मनरूपी सभापति है, बुद्धिरूपी वंद्या नृत्यकारी नृत्य कर रही है, इन्द्रियरूपी सब वाजोंके बजानेवाले हैं, विषयरूपी सभासद सब देखनेवाले हैं, जैसे दीपक अपने स्थानमें स्थित होकर सभा और सभापति आदिकोंको प्रकाश करता है और उनसे असंग होकर और उनका साक्षी होकर शरीररूपी सभाको और मनरूपी सभापति आदिकोंको प्रकाश भी करता है और उनसे असंग भी रहता है और मन आदिकोंका साक्षीरूप करके भी स्थित रहता है, दीपकका तरह किसीके साथ ससर्गको भी प्राप्त नहीं होता है, इस रीतिमें आत्मा असंग है ॥ ४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको भी तू श्रवण कर । जितनी रचना तरेको बाहर दिखाई पडती है, इतनीही रचना इस शरीरके भीतर है बल्कि इससे अधिक भी कुछ रचना होती है । जैसे कि, बाहरके ब्रह्मांडकी रचना चेतन ईश्वरकी सत्ताकरके होती है, तैसे शरीररूपी ब्रह्मांडकी रचना जीवात्माकी सत्ता करके ही होती है सो भी तुमको दिखाते हैं । हे चित्तवृत्ते ! इस शरीरके भीतर नाभिस्थानसे एक नाडी निकली है, तिस एकसे फिर एकसौ गाडी निकली हैं, फिर उन सौ नाडियोंमेंसे एक एक नाडीसे बहत्तर ७२ हजार नाडी निकली हैं, फिर एक २:में आगे औरभी अनेक नाडियें निकली हैं, जो कि, बालोंके अग्रभागसे भी अति सूक्ष्म हैं, फिर इसी शरीरमें स्थूल नाडियें भी बहुतसी हैं, जो कि, सारे शरीरमें फैली हुई हैं । आगे उन नाडियोंमें भी तारतम्य है, परस्परस्थूल सूक्ष्मता है, जैसे वृक्षकी जडसे एक मोटी डाल निकलती है उस एकसे आगे चार पाच उससे कुछ पतली डालें निकलती हैं,

फिर उन एक २ डालसे अन्यपतली डालें निकलती हैं फिर उनसे और बहुतसी पतली २ निकलती हैं ऐसे ही इस शरीररूपी वृक्षका भी हिसाब है । फिर इसके भीतर और बड़ी भारी रचना हो रही है । नामीसे ऊपर पट्चक्र हैं, फिर इसके भीतर बहुतसी हड्डियोंके जोड हैं, उनमें स्थूल सूक्ष्मता है, हजारों वैद्योंने इस शरीरके भीतरकी रचनाके जाननेके लिये बडे २ यत्न किये तबभी उनको पूरा २ हाल इसकी रचनाका न मिला क्योंकि जैसे बाहरका ब्रह्माण्ड अनन्त है, तैसे भीतरका ब्रह्मांड भी अनन्त है फिर शरीरमें अनेक स्थान बने हैं । प्रथम जेव पुरुष अन्नादिकोंको खाता है, तब वह अन्न भीतर पेटमें जाता है, जठराग्नि वहांपर फिर तिसको पकाती है, फिर तिसका एक सारभूत निकलकर जुदे स्थानमें जाता है, मल नीचे गुदास्थानमें जाता है, जल मूत्रस्थानमें जाता है वह जो सार रस पका हुआ है, वह फिर दूसरे स्थानमें जाकरके पकता है । तिसका स्थूल भाग रुधिर होता है, सूक्ष्म भाग वीर्य होजाता है, उन दोनोंको नाडियोंमें व्यानवायु हिसाबसे बाँटती है, सब नाडियें और हड्डियें अपने २ कामको करती हैं । उसी चेतन आत्माकी सत्ता करके शरीरमें सब नाडियें वगैरह अपने २ कामको करती हैं, आत्मा नहीं करता । यदि आत्माको कर्त्ता मानोगे तब एकही आत्मा एक क्षणमें भीतरके हजारों कामोंको कैसे करसकेगा और अनेक आत्मा एक शरीरमें रह नहीं सके हैं जो अपना २ काम सब करेंगे । यदि कहो आत्माके हुक्मसे सब मन इन्द्रियादिक और नाडियें आदिक अपना २ काम करते हैं सो भी नहीं बनता है । क्योंकि मन, इन्द्रिय और नाडी आदिक सब जड हैं, जडपर एक हुक्म नहीं होसक्ता है, दूसरा हुक्मकी तामील करनेका तिसको ज्ञान नहीं है । तीसरा राजा जैसे एक देशमें नौकरोंको काम करनेका हुक्म देकर आप दूसरे देशमें चलाजाता है और तिसके वहाँपर न रहनेसे भी काम होता रहता है तैसे आत्माके भी शरीरसे चले जानेपर काम होना चाहिये सो तो नहीं होता है इसलिये हुक्मसे कहना नहीं बनता है, हुक्म चेतनपरही होसक्ता है, जिसको तिसका ज्ञान है जडपर हुक्म नहीं होसक्ता है । इसलिये शरीरके भीतर आत्माके हुक्मसे काम होना बनता भी नहीं है । फिर सब किसीको यह ज्ञान तो है जो मेरा आत्मा देहके भीतर विद्यमान है, परन्तु यह ज्ञान किसीको भी नहीं है जो

मेरा आत्मा इदानीकालमें भीतर इस कामको कर रहा है या मन आदिकोंको हुक्म दे रहा है, या प्रेरणा कर रहा है इसीसे जाना जाता है, आत्मा अकर्ता है, असंग है, केवल साक्षीमात्र है, जैसे बाहरके ब्रह्मांडके अन्तर्वर्ती तारागण सब लोक हैं, और जड़ हैं, परन्तु व्यापक चेतन ईश्वरकी सत्ता करके अपने कामको सब कर रहे हैं । ईश्वर न किसीको प्रेरणा करता है और न किसीको कुछ कहता सुनता है, केवल चेतन ईश्वरकी सत्ता करके सूर्य चन्द्रमा आदिक सब तारागण अपने २ चक्रपर घूम रहे हैं और भी जगत्के काम सब हो रहे हैं । तैसे देहके भीतर भी जो कि चेतन आत्मा है, तिसकी सत्ता करके देहके भीतर सब काम हो रहे हैं । जब आत्मा देहको त्यागकर देहान्तरमें चला जाता है, तब देह मुरदा होजाता है, फिर गलसड़ जाता है । इन्हीं युक्तियोंसे साबित होता है आत्मा अकर्ता है असंग है । जिस वास्ते आत्माके प्रकाश करकेही सब काम देहमें होते हैं और बाहरका व्यवहार भी होता है इसी वास्ते आत्माके प्रकाश गुणका ही संवको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान किसीको नहीं, इसी हेतुसे जीव बाह्य विषयोंको तरफ ही सब दौड़ते हैं । उस आनन्दरूपी गुणकी प्राप्ति का मुख्य साधन प्रथम वैराग्य है, फिर चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप योग दूसरा साधन है अर्थात् बाह्यविषयोंकी तरफसे वृत्तियों हटाकर अन्तर आत्माके सम्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी प्राप्ति है, इसीमें दृष्टान्तको दिखाते हैं ॥ ९ ॥

एक राजाकी कन्याकी मैत्री मन्त्रीके लडकेके साथ होगई । कुछ दिनोंतक तो यह वार्ता छिपी रही किन्तु फिर धीरे धीरे प्रगट होने लगी । तब राजाको भी इसका हाल मालूम होगया । राजाने अपने मनमें यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मन्त्रीका लडका भी मर जाय और हमारी बदनामी न हो । राजाने अपने वैद्यको बुलाकर कहा एक ऐसी दवाई बनाकर डिवियामें बंद करके लाओ जिसके पास वह डिविया रात्रिको धराजाय वह आदमी उसकी सुगंधसे मर जाय । वैद्यने कहा, कलको मैं ऐसी ही दवाई बनाकरके लाऊंगा । दूसरे दिन वैद्य वैसी दवाईको बनाकर डिवियामें बंदकर रूमालमें बांधकर राजाके पास ले आया । राजाने रात्रिके

समय उस डिवियाको एक लौड़ीको दिया और कहा, इसको वजीरके लडकेके पलंगपर शिरकां तरफ धर आना । वह लौड़ी जाकर उसके पलंगपर तकि-याके पास शिरकां तरफ धर आई । आगे वह लडका अफीम खाता था तिसने जाना, नौकर अफीमकी डिवियाको धर गया है; उसने डिवियाको खोलकर उसमेसे बहुतसी दवाई जहरवाली खाली परन्तु वह मरा नहीं, किन्तु जीताही रहा । तब राजाने इसका सबब वैद्यसे पूछा । वैद्यने कहा, जिसका गंधसे आदमी मर जाता है तिसके खानेसे भी जो नहीं मरा है इसका सबब यह है जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेमें लगा है उसको अपने शरीरकी भी कुछ खबर नहीं है, इसीसे वह नहीं मरा है । उसके मरनेका सहज ही एक उपाय है । वह यह है जिसके साथ तिसका अति प्रेम है वह स्त्री सुन्दर भूषण और वस्त्रोंको पहरकर तिसके सामने खडी होकर उसका आंखसे आंख मिलाकर कहै अब फिर कदापि नहीं आऊँगी, ऐसा कहकर तिसके सामनेसे हट जाय अर्थात् छिपजाय, तब वह तुरन्त ही मर जायगा । राजाने कन्यासे कहा । कन्या उसी तरह श्रृङ्गार करके तिसके सम्मुख जाकर तिसका आंखमें आंख मिलाकर कहने लगी अब मैं फिर कभी भी नहीं आऊँगी, ऐसा कहकर जब वह हटी तुरन्त ही वह मी मर गया । कन्याके कहनेसे उसको ऐसा भारी दुःख हुआ जिस दुःखको वह सम्हार नहीं सका, तुरन्त ही उसके प्राण निकल गये । यह तो दृष्टांत है । अब दार्ष्टान्तमें इसको घटाते हैं । हे चित्तवृत्ते ! बुद्धिरूपी राजकन्या है, मनरूपी लडकेके साथ इसका चिरकालका प्रेम होरहा है, बुद्धिरूपी कन्या जब कि, ब्रह्मविचाररूपी शृंगारको करके मनके सम्मुख होकर मनकी तरफसे हटकर आत्माकी तरफ हो जाती है; तिसी कालमें मन भी विषयोंकी तरफसे मरजाता है, मनके मरनेके समकालमें ही पुरुषको आत्मानन्दकी प्राप्ति होजाती है और पुरुषका जन्म-मरण-रूपी संसार भी छूट जाता है । क्योंकि, यह संसार तो सब मन-का ही बनाया हुआ है:—

ब्रह्मविदु उपनिषद्में कहा है:—

मनो हि द्विविधं भोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च ।

अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥ १ ॥

मन दो प्रकारका होता है, एक तो शुद्ध मन होता है, दूसरा अशुद्ध मन होता है । जो मन कामना करके युक्त है, वह अशुद्ध कहा जाता है और जो मन कामसे रहित है, वह शुद्ध कहा जाता है ॥ १ ॥

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥ २ ॥

मनुष्योंका मन ही बन्ध मोक्षका कारण है । जब मन विषयोंमें आसक्त होजाता है तब बन्धका कारण होजाता है और जब निर्विषय होजाता है तब मुक्तिका कारण हो जाता है ॥ २ ॥

यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते ।

तस्मान्निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥ ३ ॥

जिस हेतुसे मनके निर्विषय होजानेका नाम ही मुक्ति कथन किया है, तिसी हेतुसे मुमुक्षु पुरुषोंको उचित है कि मनको नित्यही निर्विषय करें ॥ ३ ॥

निरस्तविषयासङ्गं सन्निरुद्धं मनो हृदि ।

यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ४ ॥

विषयोंके संगसे रहित होकर जब मन हृदयमें जिस कालमें रुक जाता है तिसी कालमें मन परमपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धृदि गतं क्षयम् ।

एतज्ज्ञानं च मोक्षश्च ह्यतोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ ५ ॥

तावत्पर्यंत मनका निरोध करना चाहिये यावत्पर्यंत मन हृदयमें नाशको नहीं प्राप्त होजाता है । मनके नाश होजानेका नाम ही ज्ञान और मोक्ष भी है और तो सब ग्रन्थोंका विस्तारमात्रही है ॥ ५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! मनको प्रथम शुद्ध करना ही कर्तव्य है, मनकी शुद्धिके बिना पुरुषको नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होती है और मनकी शुद्धिसे रहित जो पुरुष है, वही अज्ञानी कहा जाता है । क्योंकि, तिसको अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं है और बिना अपने स्वरूपके ज्ञानसे ही यह जीव दुःखको प्राप्त होता है । जहां तदा इसकी फजीहत होती है, इसीमें तुम्हारेको एक दृष्टांत सुनाने हैं:-

एक पुरुषका नाम वेवकूफ था और तिसकी स्त्रीका नाम फजीहती था, एक दिन तिसकी स्त्री तिसके साथ लडाई झगडा करके कहींको चली गई, तब वह अपनी स्त्रीको जंगलमें खोजनेके लिये गया । एक आदमीने तिससे पूछा, तुम जंगलमें किसको खोजते हो? उसने कहा, मैं अपनी स्त्रीको खोजता हूँ । उसने पूछा, तुम्हारी स्त्रीका नाम क्या है? उसने कहा, तिसका नाम फजीहती है । फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तिसने कहा, हमारा नाम वेवकूफ है । तब कहा, फिर तुम स्त्रीको क्यों खोजते हो वेवकूफको फजीहतियोंको कौन कमती है । जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी बहुतसी फजीहती होजायगी । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाते हैं । अपने स्वरूपसे भूला हुआ जीव वेवकूफ हो रहा है, इधर उधर जंगलों और पर्वतोंमें पडा आत्माको खोजता है, इसी वास्ते जहांपर जाता है, वहांपर ही इसकी फजीहती होती है। क्योंकि, शरीरके अंतर आनंदरूप आत्माका त्याग करके क्षणपरिणामी विषयोंमें आनन्दको खोजता है । जैसे कूकार सूखी हड्डीको चबाता है, तब तिसके मसूढ़ोंसे रुधिर निकसता है, तिसी रुधिरका रस तिसको स्वादु लगता है और वह जानता है इस हड्डीसे मेरेको स्वाद आरहा है । सूखी हड्डीमें स्वाद कहां है, स्वाद तो तिसको अपने रुधिरमें है । तैसे विषयी पुरुष भी विषयमें स्वादको मानता है, विषयमें स्वाद नहीं है, क्योंकि, विषय जड है स्वाद तो अपने आत्मामें ही है । यदि स्त्रीरूपी विषयमें आनन्द होता तब भोगोत्तर कालमें भी होता, ऐसा तो नहीं है । किन्तु वीर्यके स्खलन कालमें क्षणमात्र वृत्ति स्थिर होजाती है, तिस वृत्तिमें चेतनका प्रतिबिंब पडता है, तिसीसे इसको आनन्दकी प्रतीति होती है, वह आनन्द आत्माका ही है । विषयका नहीं है । परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह आनन्द आत्माका है । यदि इतना इसको ज्ञान होजाय तब विषयोंके पीछे यह टक्करें न मारे । जिस वास्ते अज्ञानी बनकर विषयोंके पीछे यह जीव दुःख पाता है इसी वास्ते इसकी फजीहती होती है ॥ ६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर तुमको हम एक और दृष्टांत सुनाते हैं । एक शुरुषके पुत्रका नाम रूपसेन था । तिष रूपसेनके सम्पूर्ण बदनमें बाल बहुतसे

थे । जब कि वह बाल बहुत बढगये तब एक दिन तिसके पिताने मनमें विचार किया बालोंके बढजानेसे तो लडका हमारा बडा कुरूप जान पडता है, बाल इसके मूँड दिये जायँ, तब यह सुन्दर मादम होने लगेगा । उसने लडकेसे बालोंके मुँडवानेके लिये कहा परन्तु लडकेने न माना क्योंकि वह उनके मुँडवानेके सुखको जानता नहीं था । जब रात्रिके समय लडका सो गया तब तिसके पिताने तिसके सत्र बालोंको मूँड डाला । सबरे जब कि, लडका जागा तब तिसने अपने बदनपर बालोंको न देखकर जाना मैं तो वह रूपसेन नहीं हूँ क्योंकि, रूपसेनके बदनपर तो बडे बडे बाल थे मेरे बदनमें तो वह नहीं है; चलो कहीं रूपसेनको खोज लावे । ऐसा विचार करके वह जगलमें जाकर रूपसेनको खोजने लगा । जब कि तिसने रूपसेनको कहीं भी न देखा तब घरमें आकर अपने बापसे पूँछने लगा रूपसेन कहा है ? उसने कहा रूपसेन तू ही है । पिताके कहनेसे तिसका भ्रम दूर हुआ और तिसने जान लिया जिसको मैं खोजता था वह तो मैंही हूँ मैं भ्रम करके अपनेको बाहर जंगलोंमें खोजता फिरता था । यह तो दृष्टान्त है । अब इसको दाष्टान्तमें घटाते हैं । यह जो जीवात्मा है यह ही ईश्वररूप था, राग द्वेषरूपी बाल जो इसके अंतः-कारणरूपी बदनमें निकसे थे, उन्हीं करके यह कुरूप प्रतीत होता था । और अपने असली स्वरूपसे भूलकर अन्यरूपसे अपनेको इसने मान रखा था अर्थात् रागद्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्वादियोंसे रहित होकर अपनेको कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकों-वाला इसने मान रखा था । पितारूप गुरुने इसकी कुरूपताके हटानेके लिये रागद्वेषरूपी बाल इसके दूर कर दिये तब भी इसका भ्रम दूर न हुआ, फिर भी अपनेको खोजताही रहा । जब इसको विचार हुआ, तब इसने फिर गुरुरूप पितासे पूछा वह रूपसेनरूपी आत्मा कहा है ? तिसने कहा वह तुमही हो, ऐसा जब कि, महावाक्यों करके तिसको बताया तब इसका भ्रम दूर हुआ और इसने जानलिया कि जिसको मैं अपनेसे भिन्न जान करके खोजता था वह तो मैंही निकला । फिर अपनेको सुखरूप आत्मा मानकर यह सुखी होगया ॥ ७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और दृष्टान्त तुमको हम सुनाते है:—

किसी नगरमें एक बनियां बड़ा धनी और धर्मात्मा रहता था तिसका एकही लडका था, परन्तु तिस लडकेका चालचलन अच्छा नहीं था। बनियाने उसको सुमार्गमें प्रवृत्त होनेके लिये बहुतसा उपदेश किया, तब भी लडकेने नहीं माना तब बनियाने क्या किया, कि एक लकड़ीके खम्भेमें बहुतसा द्रव्य भर करके तिसको मकानके भीतर आगनमे गडवा दिया और अपनी वहीमें लिख-दिया, कि बेटा तुमको जब द्रव्यका काम पड़े तब थम्भशाहसे लेलेना । कुछ दिनोंके पीछे वह बनियां मर गया तब तिसके लडकेने बाकीका सब धन भी खराब कर दिया जब कि, तिसके पास खानेको भी न रहा, तब वह वही-खातेको खोलकर देखने लगा । कई एक पत्र उलटनेके बाद एक पत्रेपर लिखाहुवा मिला बेटा जब कि तुमको कुछ रुपयोंका काम पड़े, तब थम्भशाहसे लेलेना । वह लडका थम्भशाहकी तलाश करने लगा । जब कि कहीं भी तिसको थम्भशाहका पता न लगा, तब दुखी होकर घरमे एक टूटीसी खाट-पर पड रहा । एक महात्मा तिस बनियाके गुरु कहीसे आ निकले । उन्होंने आकर बनियाको पूछा । लोकोंने कहा वह तो मरगये हैं और उसका लडका घरमें है परन्तु सब धनको उसने उजाड दिया है, अब वह खानेसे भी तग है । महात्मा बनियाके घरमें गये और जाकर देखा तो उसका लडका शोकयुक्त एक खाटपर पडा है । महात्माने हालचाल पूछा तो उसने सब हाल कह सुनाया । और यह भी कहा कि वहीपत्रेपर लिखा है जब कि, तुमको रुपैयाका काम पड़े तब थम्भशाहसे लेलेना । मैंने थम्भशाहका बहुतसी तलाश की है परन्तु तिसका पता कहीं भी नहीं लगता है । महात्माने विचार किया थम्भ नाम खम्भेका है मालूम होता है उस बनियाने लडकेको मूर्ख जानकर अपना धन खम्भेमे गाड दिया है । महात्माने घरमें जाकरके देखा तो आगनमें एक खंभा लगाहुवा उनको दिखाई पडा उन्होने अपनी लाठीसे तिसको ठकोरा तब तिसमेंसे छन्नसी आवाज आई महात्माने जान लिया इसी खम्भेमें धन गाडा है । तिस लडकेसे कहा यदि तू आगे सुचालसे रहे तब हम तुमको थम्भशाहको बताते हैं । लडकेने नेम कर दिया मैं कभी भी आजसे लेकर कुकर्म नहीं करूंगा । महात्माने कहा इस खम्भको तुम खोदो इसीमें तुमको धन मिलेगा । इसीका नाम थम्भशाह है । लडकेने तिसको खोदा तब उसमे वह

तसा धन तिसको मिला । उसी दिनसे कुकर्मका तिसने त्याग कर दिया और महात्माको गुरु करके मानने लगा । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाते हैं । इस शरीररूपी थम्भमें पितारूपी परमेश्वरने आत्मरूपी धनको गाड़ दिया है, जीव विषयभोगरूपी कुकर्ममें लगकर जब दृःखी हुआ तब सुखरूपी धनकी तलाश करने लगा, महात्मारूपी गुरुने कहा बाहर सुख नहीं है सुखरूप धन तो तुम्हारे शरीररूपी खम्भेमें ही गटा है, महात्मा आत्मतत्त्ववित्गुरुकी कृपासे आत्मारूपी धनकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥

चित्तवृत्ति कहती है, हे त्रिवंकाश्रम ! जीवात्माके रहनेका नियत स्थान शरीरको आपने बताया है और ईश्वरात्माको सारे ब्रह्मांडभरमें आपने बताया है आपके कथनसे तो जीवात्माका और ईश्वरात्माका भेद सिद्ध हुआ, दोनोंका अभेद तो सिद्ध न हुआ । त्रिवंकाश्रम कहते हैं-हे चित्तवृत्ते ! निरवयव निराकारका उपाधिके बिना भेद किसी प्रकारसे भी नहीं हो सक्ता है । उपाधियों करके ही जीवात्मा ईश्वरात्माका भेद प्रतीत होता है, वास्तवसे इन दोनोंका भेद नहीं है, किन्तु अभेद ही है । जैसे एकही आकाश घट मठ उपाधियोंके भेदसे घटाकाश मठाकाश कहा जाता है, वास्तवसे आकाशमें भेद नहीं है । उपाधियोंके विद्यमानकालमें भी आकाशका भेद नहीं है और उपाधियोंके नाश होजाने पर भी आकाशका भेद नहीं है, क्योंकि निराकार वस्तुका भेद किसी प्रकारसे भी नहीं होसक्ता केवल भेदका कथनमात्रही है । जैसे निराकार निरवयव शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्माका भी भेद बिना उपाधिके किसी प्रकारसे भी नहीं होसक्ता है उपाधियोंके विद्यमान कालमें भी आत्माका अभेदही है और उपाधियोंके नाश होजाने पर भी आत्माका अभेदही है । व्यवहारमें उपाधियोंके विद्यमान कालमें भेदका जो कथन है वह मिथ्या है, क्योंकि भेद केवल कथनमात्रही है वास्तवमें नहीं है । वह एकही चेतन माया अविद्या इन दो उपाधियों करके जीव ईश्वर नामसे कहाता है । स्वरूपसे जीव ईश्वरका भेद नहीं है । एकही चेतन तीन प्रकारके भेदको प्राप्त होजाता है, माया उपाधि करके सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहा जाता है और अविद्या उपाधि करके अल्पज्ञ असमर्थ जीव नामसे कहा जाता है । जो कि माया अविद्या दोनों उपाधियोंसे रहित है वह शुद्ध

ब्रह्म कहा जाता है । चित्तवृत्ति कहती है एकही चेतन तीन प्रकारका कैसे होगया ? आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर दिया ? आपसे आप तो नहीं हो सक्ता है, क्योंकि वह इच्छा आदिकोंसे रहित है, दूसरा कोई इससे बड़ा चेतन माना नहीं है, जिसने इसके तीन भेद कर दिये हो तब कैसे तीन प्रकारका चेतन बन गया ? विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते! एकही चेतन मायाकरके तीन प्रकारका बन गया है। जैसे चेतन अनादि हैं तैसे माया भी अनादि है । अनादि उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्तिका कोई भी आदि काल न हो जो उत्पत्तिसे रहित स्वतः सिद्ध हो वही अनादि कहा जाता है, जो उत्पत्तिवाला हो वह सादि कहा जाता है और तिस मायामें दो अंश हैं एक शुद्ध, एक मलिन । शुद्ध उपाधि ईश्वरकी है, मलिन जो अविद्या है वह जीवकी उपाधि है। उपाधियोंके अनादि होनेसे जीव ईश्वर भी दोनो अनादि कहे जातेहैं, इसीसे जीव ईश्वरका भेद भी अनादि कहा जाता है और अविद्या चेतनका कल्पित सम्बन्ध भी अनादि है। तात्पर्य यह है जीव १, ईश्वर २, शुद्धचेतन ३, जीव ईश्वरका भेद ४, अविद्या ५, अविद्याचेतनका सम्बन्ध ६, यह षट् पदार्थ अनादि हैं, इन छहोंमेंसे एक शुद्धचेतन अनादि अनन्त है और बाकीके पांच अनादि सांत हैं अर्थात् जीवत्व ईश्वरत्व ये दो धर्म भी मिथ्या हैं केवल चेतन भाग जो धर्म है सो सत्य है, वही सद्रूप चेतन एक है, द्वैतसे रहित है । द्वैत सब स्वप्नकी तरह कल्पित है, जैसे स्वप्नका प्रपञ्च सब झूठा है बिना हुएही प्रतीत होता है, तैसे जाग्रत्का प्रपञ्च भी सब झूठा है बिना हुवेही प्रतीत होता है । संपूर्ण जगत् जब कि बिना हुएकी तरह प्रतीत होता है, तब तिसमें यह कहना नहीं बनता है जो जगत्को किसने बनादिया है और कब बना है ? मायाका स्वरूप अनिर्वचनीय है । अनिर्वचनीय उसको कहते हैं जिसका कुछ भी निर्वचन अर्थात् निर्णय न होसकै । यदि सत्य कहें तब तिसका नाश न हो, सो नाश होता है । असत्य कहे तिसकी प्रतीति न हो, प्रतीति भी तिसकी होती है । सत्य असत्यसे विलक्षण हो उसीका नाम माया है । बड़े बड़े ऋषि मुनि इसका विचार करते करते हार गये किसीको भी मायाके स्वरूपका पता नहीं लगा है । जो मायाके पीछे पडता है उसीको माया काटकर खाजाती है ।

इसलिये बुद्धिमान् इस मायाके स्वरूपका निर्णय नहीं करता है किंतु जो इसके त्यागकी इच्छाको करता है वही इससे बच जाता है । इसमें एक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

एक पुरुष एक वृक्षके नीचे बैठा था, ऊपरसे एक काले रंगका सर्प उसकी गोदमें आकरके गिरा, अब जो वह पुरुष यह विचार करे जो यह सर्प किसीने फेंका है या आपसे आप गिरा है । तबतक तो वह सर्प उसको काटही लेगा और वह विचार भी तिसका निष्फल होजायगा, इसलिये वह बिनाही विचारके तुरन्तही तिस सर्पको फेकदे । सर्पके फेंकनेसे ही वह सर्पसे डरनेसे बच सकता है विचार करनेसे वह नहीं बच सकता है । इसी तरह मायाके स्वरूपका भी विचार है, मायाको भी अनिर्वचनीय जानकर तुरन्त ही इसका त्याग करदेयै और आत्माके विचारमें लग जावे तब शीघ्र ही आत्मानंदको प्राप्त हो जायगा ॥ ९ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको सुनो—किसी पुरुषने एक महात्मासे पूछा संसाररूपी वृक्षका बीज कौन है ? और इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ और फल पत्र पुष्पादिक कौन है ? महात्माने कहा संसाररूपी वृक्षका बीज तो माया है । वह माया क्या है सो स्त्री है येही संसाररूपी वृक्षका बीज है और शब्द स्पर्श रूप रस गंधादिक इसके पत्ते हैं । काम क्रोधादिक इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ हैं । पुत्र कन्यादिक तिसके फल हैं । तृष्णारूपी जल करके यह बढ़ता है । जिस पुरुषने स्त्रीरूपी मायाका त्याग कर दिया है, उसने संसारका त्याग कर दिया है । क्योंकि स्त्रीही वधनका कारण है, मोहके वशमें प्राप्त होकर पुरुष स्त्रीका ससर्ग करते हैं, क्षणमात्र सुखके लिये अनेक जन्मोंमें फिर कष्टको उठाते हैं और स्वर्गादिकोंमें जो विषयभोग हैं, उनकी प्राप्तिके लिये पुरुष बड़े बड़े उपवासादिक व्रतोंको करतेहैं वह सुख भी दुःखसे मिलाहुवा है और विचार दृष्टिसे तो सब लोकोंमें जितना कि, विषयजन्य सुख है वह बराबर ही है ।

आत्मपुराणमें कहा है:—

रेतसो निर्गमो यावत्सुखं तावद्धि विद्यते ।

विष्णुत्रयोर्विसर्गेषु ततो वै नाधिकं सुखम् ॥ १ ॥

स्त्रीके साथ भोगकालमें वीर्यके त्याग करनेमें जितना सुख होता है उतना ही सुख विष्टा और मूत्रके त्याग करनेमें भी होता है, तिससे अधिक स्त्रीके समभोगका सुख नहीं है ॥ १ ॥

जायते म्रियते ब्रह्मा विद्वक्त्रिमिश्र तथैव हि ।

सुखदुःखकरं तद्वत्सदेहत्वं समं द्वयोः ॥ २ ॥

जैसे क्रिमि जन्मता मरता है, तैसे ब्रह्मा भी जन्मता मरता है और सुख दुःख और सदेहत्व भी दोनोंको बराबर ही है ॥ २ ॥

तिस आत्मपुराणके चतुर्थ अध्यायमें दध्यङ्गार्थवर्ण ऋषिने इन्द्रके प्रति कहा है:—

निंदयामो वयं यद्वत्कष्टं जन्म शुनोऽधनाः ।

अस्माकं च तथैवैते निन्दन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥

ऋषि कहते हैं हे इन्द्र ! जैसे हमलोक कूकरके जन्मकी निंदा करते हैं, तैसे ही ब्रह्मवादीलोक हमारे जन्मकी निंदा करते हैं ॥ ३ ॥

उत्कृष्टता यथास्माकं स्वदेहे शक्र विद्यते ।

शुनोपि च स्वदेहे सा तादृश्येव हि वर्तते ॥ ४ ॥

हे इन्द्र ! जैसे हम लोगोंकी उत्कृष्टता अपने देहमें है, तैसे कूकरकी उत्कृष्टता अपने देहमें है ॥ ४ ॥

श्वविष्टासदृशो देहः शक्र सर्वशरीरिणाम् ।

हेयं धिया परित्यक्ते तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥ ५ ॥

हे शक्र ! कूकरके विष्टाके तुल्य सब जीवोंके शरीर भी मूत्रवाले हैं । हेय बुद्धिका त्याग करके तिसमें आत्माही प्रकाशमान है अर्थात् शरीरोंकी जैसे तुल्यता है तैसे आत्माकी भी है ॥ ५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! विचार दृष्टिसे तो कहीं भी न्यूनाधिकता प्रतीत नहीं होती है केवल विचारकी न्यूनाधिकता प्रतीत होती है । विचारहीन दुःख पाता है, विचारवान् सुखको प्राप्त होता है ॥ १० ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक लडकेने मधु खानेके लिये मधुके छातामें हाथ डाला, ज्योंही तिसने मधुके लोभसे हाथ डाला त्योंही मधुमाखियोंने तिसको काट

खाया, यह तो दृष्टांत है । दार्ष्टान्तमे जीवरूपी लडकेने विषयरूपी मधुके भोगनेके लिये हाथ डाला आंग-रागद्वेष रूपी मविखर्योंने इसको काट खाया है उनके काटनेसे यह दुःखी भी रहता है, तब भी उन विषयोका यह त्याग नहीं करता है ॥ ११ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको सुनो:—किसी ग्राममे एक कुतिया ब्याई थी; उसने बहुतसे बच्चे दिये, ग्रामके लडकोंने हरएकको अपना २ बनाकर तिसके गलेमें अपना २ पट्टा बाँध दिया । किसीने लाल, किसीने पीला किसीने काला, जिसने जिस बच्चेके गलेमे अपना पट्टा बाधा, वह बच्चा उसीके पीछे दौड़ने लगा, यह तो दृष्टांत है । दार्ष्टान्तमें अविचाररूपी कुतिया ब्याई है, तिसने जीवरूपी बच्चोंको किया है, आचार्यरूपी बालकोंने अपने २ कण्ठी और झाला आदिक पट्टे अपने २ बच्चोंके गलोंमें बाध दिये हैं, इसी वास्ते वह अपने २ आचार्यके पीछे चलते हैं, विचार नहीं करते हैं इसी ससार चक्रमें सब जीव भ्रमते हैं । हे चित्तवृत्ते ! वेदातशास्त्रके बिना जितने शास्त्र हैं ये सब जीवको फँसानेवाले हैं, छुटानेवाला कोई भी नहीं है । क्योंकि सब इसको पापी अधर्मी ही बनाते हैं, असग आत्माको पापोंका सगी वेदसे विरुद्ध बनाते हैं । वेदातशास्त्र इसको पापोंसे रहित शुद्धबुद्धस्वरूप कहता है, तुम वेदांतको धारण करो ॥ १२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! किसी नगरमें एक साहूकार रहता था, तिसके तीन लडके थे । तीनों लडके जब सयाने होगये, तब एकदिन साहूकारने अपने तीनों लडकोंको बुलाकर कहा—मेरे पास एक भौतिक मणि है, उस मणिमें अनेक गुण भरे हैं, और वह मणि इस डिवियामें रखी है, इस मणिको तुमलोक सँभाल करके रखो । रात्रिके समय अपनी २ पारी लगाकर अर्थात् रात्रिके तीन विभाग करके एक २ भागमें एक २ लडका इस मणिको लेकर एका-तमें बैठकर इस मणिमेंसे गुणोंको ग्रहण करै । लडकोंने मणिवाली डिवियाको लेकर हिफाजतसे धर दिया, कुछ कालके पीछे उनका पिता मरगया, तब लडकोंने एकदिन रात्रिके तीन विभाग करके अर्थात् सवा २ पहरकी एक २ की पारी लगादी । प्रथम एक लडका तिस मणिको लेकर कौठेपर एकांत

देशमें जाकर बैठा । जब कि, तिसने मणिको निकालकर अपने आगे रक्खा तब मणिके प्रकाशसे अँधेरा जातारहा, जब कि, कुछ क्षण मणिको रखे हुए व्यतीत हुआ तब तिसका मन खाली बैठनेमें न लगा । तब उसने क्या किया, थोड़ीसी राखको बटोरकर अपने पास रख लिया, जब कि थोड़ी देर बीते तब जरासी राखको मणिपर डाल देने फिर जरासी अपने ऊपर डाल देवे, इसी तरह करते उसकी पारी गुजर गई । फिर दूसरेकी पारी आई उसको भी सवा, पहर विताना मुश्किल होगया । वह तिस मणिके प्रकाशसे शिकार करके खाने लगा । फिर जब तीसरेकी पारी आई और वह मणिको आगे रखकर बैठा, इतनेमें चन्द्रमा उदय होआया । चन्द्रमाकी किरण जो मणिपर पड़ी, तब मणिने अमृत निकलने लगा, उस अमृतको वह पान करने लगा, तब तिसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ ।

हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टात है, अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाकर तुमको बताते हैं, वेदातशास्त्ररूपी एक मणि है, उस मणिको तीन पुरुषोंने पाया है । एक तो वह पुरुष है, जो कि, वेदांतरूपी शास्त्रको पढकर मद्यपान परस्त्री-गमनादिकोको करते हैं, वह तो राखको उडाकर अपने ऊपर और मणिके ऊपर डालते हैं । क्योंकि, ऐसे मणिको पाकरके फिर भी अपनी आयुको विषयविकारोंमें खोते हैं । दूसरे वह हैं जो कि, वेदांतरूपी मणिके प्रकाशसे शिकार करते हैं । उनका शिकार करना येही है । वेदातकी बातोंको सुनाकर छोकोंसे धनको वचन करना । तीसरे वह हैं जो कि, वेदांतरूपी मणिको पाकर तिसके प्रकाशसे सत्य असत्यका निर्णय करते हैं और मनको विषयोंकी तरफसे हटाकर आत्मामें लगाते हैं । वही तिस मणिके आनन्दगुणको प्राप्त होते हैं । इसीपर कहा भी है:-

पाठकाः पठितारश्च ये चान्ये शास्त्रचिंतकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पंडितः ॥ १ ॥

जितनेक शास्त्रको पढने और पढानेवाले हैं और जो-केवल चिंतन ही करनेवाले हैं, शास्त्रोक्त धारणासे शून्य हैं वह सम्पूर्ण व्यसनी और मूर्ख हैं, जो कि, शास्त्रको पढकर वैराग्यादि गुणोंको धारण करना है वही पंडित है ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! बिना शास्त्रोक्त गुणोंके धारण करनेसे वह आत्मानन्द कदापि नहीं मिलसक्ता है ॥ १३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! यह आत्मा असग है, - अकर्ता है, अभोक्ता है, देहादिकोंके साथ सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कर्ता भोक्ता आदि गुणोवाला मान रक्खा है, इसीपर तुमको एक और दृष्टांतको सुनाते हैं:—

किसी राजाके मंदिरमेंसे सोये हुए राजाके बालकको रात्रिके समयमें एक मील उठाकर ले गया और वनमें लेजाकर अपने लडकोंके साथ तिसको भी पालने लगा । जब कि, वह लडका कुछ बड़ा हुआ तब वह भी मीलोंके कर्मोंको करने लगा, अर्थात् घृणासे रहित होकर हिंसाप्रधान जितने कर्म हैं उन सबको वह करने लगा, तिसी वनमें एक महात्मा जा निकले । उन्होंने तिस लडकेको पहँचान कर कहा, तुम तो राजकुमार हो मील नहीं हो, मीलोंके साथ रहकरके तुमने भी अपनेको मील मान रक्खा है और अयोग्य कर्मोंको तुम कर रहे हो, तुम अपनेको चीन्हो और अपने स्वरूपका स्मरण करो । जब तुम अपनेको चीन्हेंगे तब तुम मीलपनेको त्यागकर अपने राजमंदिरमें जाकर आनंदसे रहोगे । महात्माके वाक्यको सुनकर राजपुत्रको भी सब अपना पिछला स्मरण हो आया और उसको विश्वास होगया जो मैं मील नहीं हूँ किन्तु राजपुत्र हूँ । वह तुरन्तही मीलोके वेशको त्यागकर अपने घरको चला आया, हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है । अब दार्ष्टान्तिको सुनो; इस जीवरूपी राजकुमारने अज्ञानरूपी मीलकी संगति करके अपनेको मील मान रक्खा है, वह मीलपना क्या है कर्मभोक्ता पुन पापी वनना, अज्ञानी वनना, इसीसे जीव नानाप्रकारके फलोंके देनेवाले कर्मोंको करता है और ससाररूपी वनमें दुःखी होकर पड़ा भ्रमता है । पूर्व जन्मके किसी पुण्य कर्मके प्रभावसे तिस जीवको जब कि आत्मवित् गुरुसे मिलाप होगया तब तिस महात्मा गुरुने उपदेश किया तू अज्ञानी नहीं है, याने मील नहीं है । तू न कर्ता है न भोक्ता है, न पुण्य पापके सम्बन्धवाला है, किंतु तू सच्चिदानन्दरूप है । तू अपने स्वरूपसे मूला हुआ है, अपने स्वरूपका तुम स्मरण करो और अपने आपको चीन्हो तब तुमको सुख होगा । महात्माके उपदेशसे तिसको अपने स्वरूपका स्मरण होता है, नभी तिम मीलपनेको त्यागकर सुखी होजाता है ॥ १४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! यह भेदवादी पुरुषको दुःखी करता है, इसी वास्ते शास्त्रोंमें भेदवादीकी निन्दा की है, अज्ञानी भेदवादियोंने ईश्वरमें भी भेदको लगाकर अपने अपने भिन्न २ ईश्वर कल्पना कर लिये हैं इसीमें तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं:-

एक वैष्णव साधु गणेशजीका भक्त था, गणेशजीकी उपासनाको वह बड़े प्रेमसे करता था, उसने पांच तोला सोनेकी एक गणेशजीकी मूर्ति बनवाई और पांच तोला सोनेकी एक गणेशजीके वाहन मूसाकी मूर्ति बनवाई । दोनोंकी बड़े प्रेमसे वह पूजा करने लगा । पूजा करते २ जब कि, कुछ काल व्यतीत होगया तब एक दिन तिसको कुछ द्रव्यका काम पडा । तिसके पास उस कालमें एक टका भी नहीं था, उसने विचार किया, इन मूर्तियोंको बेचकर अब काम चला लेना चाहिये फिर कुछ द्रव्य कहींसे मिल जायगा, तब और मूर्तियें बनवा लेंगे । वह दोनो मूर्तियोंको लेकर एक सुनारके पास बेचनेको लेगया । सुनारने दोनों तौलकर दोनोंका बराबरही दाम लगा दिया । तब वैरागीने उससे कहा, अरे लडकीके, गणेशजीको मूसेके बराबर करदिया । गणेशजी स्वामी हैं मूसा उनका वाहन है, क्या कहीं स्वामी और वाहन भी बराबर होसकता है ? सुनारने कहा, अरे वैरागडे, स्वामिपना और वाहनपना अर्थात् गणेशपना और मूसापना जो तुमने इन मूर्तियोंमें मान रखा है उसको तुम निकाल करके अपने पास रख लो । हमको तो सोनेका दाम देना है, सोना तौलमें दोनोंका बराबर है, अर्थात् दोनों मूर्तियोंमें पांच पांच तोला सोना बराबर ही है । वैरागी सुनारकी वार्ताको सुनकर चुप होगया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है । अब दार्शनिकको सुनो । सब शरीर पाचो भूतोंके ही कार्य्य है, और सब शरीरोंमें अस्थि, मज्जा, चर्म, रुधिर, मलमूत्र भी बराबरही है, फिर सब शरीरोंको उत्पत्ति भी वीर्यसे होती है, और सब शरीर उत्पत्ति नाशवाले भी हैं, और सब शरीरोंमें खान पानादिक व्यवहार भी बराबर ही होता है । भेद तो शरीरोंमें किसी प्रकारसे भी सावित नहीं होता है और आत्मा भी सब शरीरोंमें चेतनरूप करके बराबरही विद्यमान है, और अभिमान भी सब शरीरधारियोंको बराबर ही है । कोई भी देहधारी अपनेको नीच और दूसरेको उत्तम नहीं समझता

है, किंतु सब कोई अपनी ही जातिको उत्तम जानते हैं, किसी प्रकारसे भी भेद नहीं साबित हो सकता है, तब भी अज्ञानी लोक कल्पित धर्मोंको मानकर भेदबुद्धिको करके दुःखको पाते हैं । यदि उन कल्पित धर्मोंको निकाल दिया जाय तब बाका आत्मा ही केवल शुद्ध सच्चिदानन्दरूप निद्र होता है । जो ज्ञानी लोक ही सर्वत्र आत्मदृष्टिको करते हैं वही सुखी रहते हैं । अज्ञानी लोक आत्मदृष्टिको नहीं करते हैं । जैसे कल्पित गणेशपनेको और मूसापनेको छोड़ करके सोना दृष्टिको सुनार करता है, तैसे ज्ञानवान् भी ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि धर्मोंका त्याग करके सर्वत्र आत्मदृष्टिको ही करता है, इसीसे वह सुखी रहता है । चित्तवृत्ति कहती है, हे आता ! जब कि ज्ञानवान्को दृष्टिमें आत्मा सब शरीरोंमें एक है, शुद्ध है, निर्दोष है, तब फिर सबके साथ ज्ञानवान् खान पानादि व्यवहारको क्यों नहीं करता है, विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! ज्ञानवान् दो प्रकारके होते हैं । एक तो जीवन्मुक्त कहे जाते हैं, जिनको अपने शरीरको भी खबर नहीं है, और दूसरे चतुर्थी भूमिकावाले आचार्य्य कहे जाते हैं, जो कि, जीवन्मुक्त हैं । वह तो अजगर वृत्तिवाले होते हैं । किसीने उनके मुखमें अन्नको डाल दिया तब खाजाते हैं । पानीको डाला तब पीजाते हैं । धूपमें किसीने उठाकर धर दिया या छायामें या वर्षामें उसी जगह पड़े रहते हैं । उनको सब बराबर ही होता है । क्योंकि, वह आत्मानदमें डूबे रहते हैं, जगत् उनको दिखाता ही नहीं है । आत्मा ही आत्मा उनको सर्वत्र दिखाता है । उनके मुखमें ब्राह्मणादि चारों वर्णोंमेंसे कोई अन्नको डालदे या भंगी चमार डालदे उनके अन्न खानेमें उनको कोई भी दोष नहीं होता है । क्योंकि, उनको दृष्टिमें न कोई ब्राह्मण है न कोई भंगी या चमार है । आत्मा ही आत्मा है वह किसीसे वातचीत भी नहीं करते हैं । उन जीवन्मुक्तोंका शरीर भी थोड़े ही कालतक रहता है, वह तो सर्व प्रकारसे निर्दोष है, वेदादिक किसी शास्त्रको आज्ञा भी उनपर नहीं है । क्योंकि, वह ब्रह्मरूप है, महान् सुखमें वह निमग्न रहते हैं । दूसरे आचार्य्यकोटिमें जो है, वे सर्वत्र आत्मामें सम-दृष्टि हैं अर्थात् सर्व जीवोंमें एक ही आत्माको देखते हैं, इसीसे उनका किसीके साथ राग द्वेष नहीं होता है । परन्तु वह समवर्ती नहीं होते हैं । क्योंकि सम-

वर्ती होनेसे श्रेष्ठाचार जाता रहता है । दूसरा, यदि सब किसीका जूँठा खानेसे ज्ञानी हो सकता हो तब जितने कि भगी चमार वगैरा हैं, वे भी सब ज्ञानी कहे जायेंगे, उनको तो कोई भी ज्ञानी नहीं कह सकता है । इसीसे समवर्तीका नाम ज्ञानी नहीं है । तीसरा, जिसको इतर सब व्यवहारके वर्णाश्रमका ज्ञान है, वह यदि समवर्ती होकर सबका खाने लगेगा तब लोकमें वह पतित कहावेगा । जब कि, और सब विधि निषेधका तिसको ज्ञान है और उनको वह मानता है, तैसे अपनेसे नीचे ऊँचे जातिवालेके जूँठके निषेधका भी तो तिसको ज्ञान है, अगर पागलकी तरह उसको कोई भी ज्ञान न हो तब तिसको जूँठे खानेका भी दोष न हो । वह पागलोंमें तो गिना नहीं जाता, इसलिये तिसको समवर्ती होना सना है । चौथा, ज्ञानका फल समवर्ती होना कहीं भी नहीं लिखा है । ज्ञानका फल राग द्वेषकी निवृत्ति परमानन्दकी प्राप्ति है । सो जो रागद्वेषरहित है, अपने आत्मानन्दमें आनन्दित है, वही ज्ञानी है, जो राग द्वेष करके युक्त विषयमोगोंसे आनन्द मानता है, वही अज्ञानी है । ज्ञानी अज्ञानीका इतनाही फरक है ॥ १९ ॥

विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

एक पंडित किसी ग्रामको कथा बाचनेके लिये जाते थे, रास्तामें एक खेतके किनारेपर एक बटके पेड़के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे । उस खेतमें एक जाट हल जोतना था, उसके आगे जो बैल थे, वह दुर्बल थे, शीघ्र चल नहीं सके थे, बारबार खडे होजाते थे, जब २ तिसके बैल खडे होजायँ तब ३ वह जाट अपने बैलोंको बुरी २ गाली अर्थात् बल्लोके खसमको जोरू और लडकीके फलानकी गालिये देता था । पंडितने उससे पूछा, यह बैल किसके हैं ? उसने कहा, यह बैल हमारे हैं । तब कहा, इनका खसम कौन हुआ ? जाटने कहा, इनके खसम हम ही हुए । तब पंडितने कहा, तुम जो इन बैलोंको गालिया देते हो वह सब गालियें किसको लगती हैं ? जाटने कहा, जो सारा गालियोंके अर्थोंको समझता है ये सब गालिये उसी सारेको लगती हैं, पंडित जाटकी बातको सुनकर लजवाव होगया । क्योंकि, जाटका यह तात्पर्य था-

कि मैं तो गालियोंके अर्थको समझता नहीं भरेको क्यों लगेंगी? तुम पंडित हो तुमको इनके अर्थका ज्ञान है यह गालियें तुमहींको लगेंगी । हे चित्तवृत्ते ! जिस पुरुषको गालियोंके अर्थका ज्ञान नहीं होता है, उसको गालिये नहीं लगती हैं । इसीसे वह बुरा भी नहीं मानता है । जैसे बालकको गालियोंके अर्थका ज्ञान नहीं है इससे बालक गाली देनेपर बुरा नहीं मानता है, और बालककी गाली-पर दूसरा भी कोई बुरा नहीं मानता है । जैसे बालकको धर्म, अधर्म, पुण्य, पापका ज्ञान नहीं है, इसीसे उसको पुण्य पाप भी नहीं लगता और शास्त्रकारोने भी तिसको पुण्य पापका निषेध किया है । जैसे बालकको आचारका ज्ञान नहीं है ऊपर मुखसे तो रोटी खाता जाता और नीचेसे मलमूत्रका त्याग भी करता जाता है किसीको भी तिसकी क्रियापर ग्लानि नहीं फुरती है । तैसे जीवन्मुक्तको भी कोई पुण्य पाप नहीं लगते है, क्योंकि, तिसको उनका ज्ञान ही नहीं है और न कोई तिसकी क्रिया पर बुराही मानता है और जो कि आचार्यकोटिमें ज्ञानी हैं, वह यदि भ्रष्टाचारको करने लगे, परस्त्रीगमन, मास मद्यका सेवन करे, तब तिसको अवश्य पाप लगेगा । क्योंकि उसको तो सर्व प्रकारका ज्ञान है और लोक उससे घृणा भी करते हैं । क्योंकि, उसको अभी ज्ञानका कुछ भी आनन्द नहीं मिला है तब महान् आनन्दका त्याग करके तुच्छ आनन्दके साधनोंमें वह प्रवृत्त न होता । जिनको काकविष्टाके तुल्य जानकरके त्याग कर दिया था उनके ग्रहण करनेमे फिर प्रवृत्त न होता वह ज्ञानी आचार्य्य नहीं है । ज्ञानवान् चतुर्थ भूमिकावाला आचार्य्यकोटिमें वह गिना जाता है, जो निपिद्ध कर्मोंका त्याग करके विहित कर्मोंको निष्कामतासे भ्रष्टाचारके लिये अनासक्त होकर करता है, अथवा निपिद्ध कर्मोंको और विहित कर्मोंको नहीं करता है । केवल आत्मचित्तनहीं करता है वही आचार्य्यकोटिमें है । और जो विहित कर्मोंको त्याग करके निपिद्ध कर्मोंको करता है और आत्मबोधसे शून्य होकर असग बनता है वही बन्ध्य ज्ञानी, मूर्ख, पाप पुण्यका भागी होता है । तिसका जन्ममरण-रूपी ससार कदापि नहीं छूटता है ॥ १६ ॥

अष्टावक्रगीतामें कहा है:-

यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि भमता तथा ॥

न वा योगी न वा ज्ञानी केवलं दुःखभागसौ ॥ १ ॥

जिस पुरुषका मोक्षमें अभिमान है और देहादिकोमें ममता है वह पुरुष न योगी है और न ज्ञानी है केवल दुःखकोही वह भजनेवाला है ॥ १ ॥

कपिलगीतामें भी ज्ञानीका लक्षण दिखाया है—

न निंदति न च स्तौति न ह्यप्यति न कुप्यति ।

न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः ॥ १ ॥

जो न किसीका निंदा करता है और न किसीका स्तुति करता है, न किसीको देता है न किसीसे लेता है, जो सर्वत्र रागसे रहित है वही मुक्त कहा जाता है ॥ १ ॥

सानुरागां त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् ।

अविकल्पनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः ॥ २ ॥

जो अनुरागके सहित स्त्रीको देखकरके और मृत्युको भी सन्मुख उपस्थित देखता है, फिर भी जिसका मन व्याकुल नहीं होता है वह महाशय मुक्तरूप है ॥ २ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जो सर्वत्र आत्माको ही देखता है किसीमें भी कमती बढ़ती नहीं देखता है वही आत्मदर्शी तथा ज्ञानी कहा जाता है । आत्माकी समतामें एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

जो कि मैला उठानेवाले भंगी होते हैं वह भी अपनेसे ऊंचा किसी क्षत्री ब्राह्मणादि जातिवालेको नहीं मानते हैं क्योंकि, पजाव देशमें जब कि भगिर्योका विवाह होना है और इनको सब बिरादरी आकरके बैठती है और जिस कालमें वर कन्याका पाणिग्रहण होता है तिस कालमें लडकीका बाप अपनी लडकीके हाथको दामादके हाथ पर धरकरके कहता है इसको तुम भंगन मत जानना, कोई ब्राह्मणी जानना या क्षत्रानी जानना वैश्यानी या गूद्रानी जानलेना या इनसे और कोई छोटी जातिवाली मुगलानी या पठानी जान लेना भंगन मत जानना । तात्पर्य उसका यह होता है, भगी जाति किसीसे छोटी नहीं है अब देखिये जिनके झूजानेसे ज्ञान करना पडता है वह भी अपनेको छोटा नहीं मानते हैं । अब बताइये इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि, आत्मामें छोटापन किसीके भी नहीं है, केवल उपाधियोंका भेद है, इसीसे भगी भी

अपनेको छोटा नहीं मानते हैं । भगियोंके गुरु लालवेग हुए हैं । एक दिन भंगियोंने अपने लालवेग गुरुसे कहा, महाराज ! हम लोगोंका कल्याण होनेमे तो कोई भी सन्देह नहीं है क्योंकि, आप सरीखे हमारे गुरु हैं, परन्तु इन क्षत्री ब्राह्मणोंका कल्याण कैसे होगा ? भगियोंके गुरु लालवेगने कहा, उनका कल्याण तुम्हारे हाथ है, तुम लोक जो सबेरे गलियों और वाजारोंमे झाड़ू देते हो और वह लोक जो स्नान करके आते हैं तुम्हारे झाड़ूकी रज जो उनपर पडती है उसीसे उनका भी कल्याण होजायगा । भगी लोक भी अपनी जातिको इतना बडा मानते हैं । बस इसीसे जाना जाता है आत्मामे नीचता ऊचता नहीं है, आत्मा सबका बराबर ही है । क्योंकि, सबको अपने ही आत्माकी पवित्रताका अभिमान है । इसी तरह और भी जितने कि, मुसलमान ईसाई बौद्ध जैनी वगैरह मतोंवाले हैं, सब कोई अपने २ आत्माको पवित्र मानते हैं । इसीसे भी जाना जाता है कि, आत्मामें अपवित्रता और नीचता नहीं है । यदि होती तब सब ऐसा न मानते । हे चित्तवृत्ते ! आत्मा 'सबमें एकही है, जैसे एकही आकाश मंदिरमें भी है, और पाखानामें और मसजिदमे गिरजेमें जैनमंदिरमें बौद्धमंदिरमें भी है, भगी चमारोंके घरोंमें भी है, उत्तम २ मूर्तियोंमें भी है, मलमूत्रादिकोंके पात्रोंमें भी है, परन्तु अति सूक्ष्म होनेसे उपाधियोंके साथ तिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है और न उपाधियोंके गुण दोषों करके आकाश गुण दोषवाला होजाता है । इसी प्रकार एक ही आत्मा ऊच नीच सब शरीरोंमें विद्यमान है, शरीरोंके गुण दोषों करके वह गुणदोषवाला नहीं होता । क्योंकि, आकाशसे भी अतिसूक्ष्म है इसीसे असग और निर्लेप भी है ॥ १७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयमें एक और दृष्टांत भी तुमको सुनातं है:—

किसी नगरके बाहर नदीके किनारे पर एक अद्वैतवादी महात्मा रहते थे । एक दिन एक द्वैतवादी पंडित उनके साथ वादविवाद करनेको गये और जाकर पंडितने महात्मासे कहा, मैं द्वैतको सावित करता हूँ आप मेरेसे वाद विवाद करिये । महात्माने कहा, हमारे शिरके बाल बहुत बढ गये हैं, इनके बढनेसे हमारा शिर दुखता है, जत्रतक हम हजामत बनवा नहीं लेगे तबतक

द्वितीय किरण ।

जादूका नहीं करेंगे। सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊको बुला लाओ पश्चात् हम तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे। पंडितजी जाकर नाऊको बुला लाये। नाऊने आकर महात्माकी हजामत बनाई। जब कि नाऊ हजामत बना चुका तब महात्माने नाऊसे कहा, तुम तो परमेश्वर हो। नाऊने कहा, अरे महाराज ! मैं तो महापापी हूँ। मैं कैसे परमेश्वर हो सकूँ ? महात्माने पंडितसे कहा, देखो द्वैतको तो यह नाऊ भी साबित कर रहा है; बल्कि इस नाऊसे जो मूर्ख हैं महामूर्ख हैं, वह भी द्वैतको साबित कर रहे हैं। जब कि तुम भी द्वैतको ही साबित करोगे तब फिर इस नाऊसे भी तुम्हारी कुछ अधिकता साबित नहीं होगी किंतु तुल्यता ही होगी। अधिकता तो अद्वैत साबित करनेमें होती है ॥ १८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! किसी नगरमें एक द्विज रहता था। तिसके तीन लडके थे, एक सबसे बड़ा पंद्रह या सोलह बरसका था, दूसरा तिससे छोटा सात बरसका था, तीसरा चार बरसका था। तिस नगरके बाहर एक देवताका स्थान था, वहांपर सालमें एक दिन मेला होता था, तिसमें वह द्विज अपने लडकोंको साथ लेकर चला। मेलामें भीड़ बहुत थी। देवस्थानतक जाना कठिन था इसलिये छोटे लडकेको तिसने कांधेपर उठा लिया, मझोलेका हाथ पकड़ लिया, बड़ा पीछे पीछे चलने लगा। जो कि, सबसे छोटा था वह कांधेपर बैठा हुआ आरामसे देवस्थानमें पहुँच गया। मझोला भी धक्के खाकर पहुँचा। धक्के तो तिसने खाये परन्तु बापका हाथ न छोड़ा। जो कि, सबसे बड़ा था वह धक्के खाकर पीछेको ही रह गया। हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है अब दार्ष्टान्तमें सुनो। देवस्थान कौन है ? आत्मपद, पिता कौन है ? परमेश्वर, छोटा लडका वेदाती है, मझोला लडका भक्त है, सबसे बड़ा वेत्ती है। जब कि, परमेश्वर अपने तीनों लडकोंको आत्मपदकी तरफ लेजाता है तब सबसे बड़ा लडका जो कि भेदवादी कर्मी है, वह तो रागद्वेषरूपी धक्कोंको खाकर पीछे ही ससारमें रह जाता है। जब कि शुभ कर्म करता है तब स्वर्गको जाता है, स्वर्ग भोगकर नीचेको आता है। इसीतरह चक्रमें अमता सरा भक्त है, वह धक्के तो खाता है अर्थात् भेद

भावना करके उपासना करनेसे जन्मोंकी परंपराखर्पी धक्कोको तो खाता है परन्तु अपने पिताखर्पी परमेश्वरका हाथ नहीं छोडता है । इसलिये कभी न कभी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा वह भी पहुच जाता है । तीसरा जो ज्ञानी है वह बिना ही धक्कोके खानेसे पिताके काधेपर सवार होकर पिताके साथ जो अभेद ज्ञान होता है, इसीसे वह आरामसे पहुँच जाता है, क्योंकि जो भेद मानताहै वही दूर रहजाता है । अथवा वेदरूपी पिताके काधेपर बैठकर पहुँच जाता है । वेदकी आज्ञा तिसके ऊपर नहीं रहती है यही काधेपर बैठना है । और जो कि वेदमे ईश्वरमें प्रेम करना कहा है तिसको जो भक्त नहीं छोडता है यही हाथ पकडना है । और कर्मी अर्थवादरूपी फलोंको जो वेदने कहा है उन्हीके पीछे ढौडता है, इसलिये वह परमपदसे दूर रह जाताहै, क्योंकि दुःखका जनक भेदवाद है और सुखका जनक अभेदवाद है । बिना अभेदवाद ज्ञानके इस जीवकी मुक्ति कदापि नहीं होती है ॥ १९ ॥

श्रुति भी इसी अर्थको कहती है—

अन्योसावहमन्योस्मीत्युपास्ते योऽन्यदैवतम् ।

न स वेद नरो ब्रह्मन् स देवानां यथा पशुः ॥ १ ॥

वह ब्रह्म मेरेसे अन्य याने भिन्न है और मैं तिससे भिन्न हूँ, इस प्रकार जान करके जो अन्य देवताओंकी उपासना करता है, हे ब्रह्मन् ! वह पुरुषब्रह्मको नहीं जानता है । जैसे मनुष्योंके लादनेके पशु होते हैं, वैसे ही वह भी देवताके लादनेका एक पशु ही होता है ॥ १ ॥

भेदवादकथोन्मत्तः कार्य्याकार्य्यविवर्जितः ।

मद्यसंपर्कमात्रेण कथं वाच्यः स वै द्विजः ॥ इति ॥ १ ॥

जो द्विज भेदवादरूपी कथामें मत्त हो रहा है, कर्तव्य अकर्तव्यको नहीं जानता है, जैसे मदिराकी एक बून्दके मिलनेसे गगाजलका घट अपवित्र हो जाता है, वैसेही तिसको भी जान लेना ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जैसे कोई पुरुष अधकारसे अधकारको दूर करना चाहे जैसे कोई मिट्टीकी गैया बनाकर दूध पीना चाहे, जैसे कोई राकल्पकी मिठा-

द्वितीय किरण ।

इससे पेट भरना चाहे तैसे ही वह भी करता है, जो भेदवादका आश्रयण करके अपनी कल्याणकी इच्छा करता है । हे चित्तवृत्ते ! इसीपर एक और दृष्टांतको भी सुनो :—

हे चित्तवृत्ते ! एक पुरुष गणेशजीकी उपासना करता था. एक दिन वह पूजा कर रहा था, कि इतनेमें एक मूसा जो बिलसे निकला वह आते ही गणेशजीके ऊपर चढ़कर चाबलोंको खाने लगा और भोगकी मिठाईको लेकर भाग गया । तब तिस उपासकने विचार किया कि, गणेशजीसे तो मूसा ही बली निकला और पूजा भी बलीकी करना चाहिये क्योंकि बलीसे ही कुछ मिलता है, दुर्बलसे तो कुछ मिलता नहीं । ऐसा विचार करके तिसने एक मूसाको पकड़ कर तिसके पांवमें तागा बांधकर पर्यकमें तिसको बिठाकर तिसीकी नित्य पूजा करने लगा । एक दिन बिलारने वहांपर आकर मूसेकी तरफ जो ताका मूसा तुरत ही भागकर बिलमें धुस गया । उपासकने देखा मूसासे तो बिलार ही बली निकला । उसी दिनसे वह बिलारको बांधकर चौकीपर बिठाकर तिसकी पूजा करने लगा । एक दिन कूकर एक वहापर आ निकला और ज्योंही वह बिलारपर झपटा त्योंही बिलार भागा । बिलारको भागते देखकर उस उपासकने जानलिया, कि बिलारसे कूकर बली है । उसी दिनसे वह कूकरकी पूजा करने लगा । एक दिन वह कूकर उनके चौकामें चला गया । तिसकी स्त्री एक लाठी जो उठाकर तिस कूकरके मारी वह भाग गया । तब तिसने जाना कूकरसे तो हमारी स्त्री बली है । उसी दिनसे अपनी स्त्रीको वह पूजा करने लगा । एक दिन किसी वार्तासे तिसको अपनी स्त्रीपर क्रोध आगया, लाठी लेकर तिसके मारनेको वह दौड़ा तब स्त्री भागी । उसने मनमें विचार किया, सबसे बली तो मैं ही निकला । उसी दिनसे वह अपनी पूजा करने लगा । आत्माकी मानस पूजा करते २ तिसके मनका निरोध होगया उसीसे उसको परमानंदकी प्राप्ति होगई । हे चित्तवृत्ते ! जैसे पक्षी दिनभर इधर उधर भ्रमता रहता है, सुखको नहीं प्राप्त होता है । जब अपने घोंसलेमें आता है तभी तिसको सुख मिलता है । तैसे यह जीव भी अपनेसे भिन्न देवतान्तरकी सुखकी प्राप्तिके लिये उपासना करता है परन्तु इसको सुख नहीं मिलता है ।

क्योंकि वासनाओको लेकर उपासना करता है । जब कि यह निर्वासनिक होकर अपने आत्माका अहप्रह उपासनाको करता है, तब ही उसको नित्य सुखकी प्राप्ति होती है अन्यथा किसी प्रकारसे भी नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ २० ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टातको सुनो -

एक पुरुषके तीन लडके थे । तीनोंमेंसे एक तो लूला और लगडा था । दूसरा अंधा था तीसरा सर्वांगसपन्न था । तीनोंमेंसे जो कि लूला और लगडा था यह तो भातापित्ताकी सेवा किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता था। क्योंकि सेवा हाथपावसे होती है सो हाथ पांव तो तिसके थे नहीं, दूसरा जो अंधा था उसको दीखता ही नहीं था इसलिये वह भी सेवालायक नहीं था । तीसरा जो कि सर्वांगसपन्न था वही सेवालायक था और वही सेवा करता भी था । क्योंकि तिसको सब कुछ दीखता भी था । यह तो दृष्टांत हैं । अब इसको दाष्टांतमें घटाते हैं । ससारमें तीन प्रकारके पुरुष हैं, एक तो कृपण और आलसी हैं । दूसरे विषयी हैं । तीसरे उद्यमी और उदार हैं । तीनोंमेंसे जो कि कृपण और आलसी हैं वही लूले और लगडे हैं । वह तो परमेश्वरकी सेवा किसी प्रकारसे भी नहीं करसके हैं । क्योंकि हाथोसे वह कुछ दानको नहीं करते हैं और पावोंसे चलकर किसी सत्सगमें या किसी महात्माके पास वह नहीं जाते हैं । और जो विषयी है, वह अन्धे हैं, क्योंकि उनको तो परमार्थ दीखता ही नहीं है और न उनको परमेश्वर ही दीखता है । इसलिये वह भी परमेश्वरका सेवा वदगी नहीं करसके हैं । तीसरे जो उद्यमी और उदार हैं, वही उद्यमकरके सत्सगमें जाते हैं, हाथोसे दान करते हैं, वही परमेश्वरका सेवाको करते हैं । वही ज्ञानके भी अधिकारी कहे जाते हैं, दूसरे नहीं । वही अन्तःकरणकी शुद्धि-द्वारा ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षको भी प्राप्त होजाते हैं ॥ २१ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और दृष्टात भी तुमको सुनाते हैं -

हे चित्तवृत्ते ! संसारमे तीन तरहके घोडे होते हैं, तीनोंमेंसे एक लालद्वे टट्टू कहलाते हैं, जिन पर कि, हमेशा बोझा ही लादा जाता है । वह तो हमेशा लदते ही रहते हैं । और इसीमें मर भी जाते हैं । दूसरे रिसालेके घोडे

द्वितीय किरण ।

होते हैं, जो कि, तुरमके आवाजको सुनकर हमेशा कवायद परेटही करते रहते हैं, वह परेट कवायद करते २ ही मर जाते हैं । तीसरे तोपखानेके घोड़े होते हैं, वह हजारों तोपोंके गोलोंके चलने पर भी अपने कानको नहीं उठाते हैं । क्योंकि उनको इतना विश्वास हो चुका है, जो यह तोपे नित्य ही चलती रहती हैं इनके चलनेसे हमारी कुछ भी हानि नहीं है । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दार्ष्टान्तमे घटाते हैं । ससारमें भी तीन प्रकारके पुरुष हैं, एक तो वे है जो कि, हमेशाही स्त्री पुत्रादिकोंकी सेवामें रहते हैं, कभी भी कहीं सत्सगमे नहीं जाते है, वह तो लदवे टट्टू हैं । क्योंकि हमेशा स्त्री पुत्रादिक, उनको लदते ही रहते हैं । और वह लदते २ उसीमें मर जाते हैं । दूसरे कर्मी हैं, जो कि श्रुति सृति उक्त कर्मोंके करनेमे ही सदैवकाल लगे रहते है । रिसालेके घोड़ोंकी तरह हमेशा कर्मरूपी कवायदको ही करते रहते है । वह कवायद करते ही खतम होजाते हैं । तीसरे ज्ञानी है, जो कि अर्थ-वादरूपी स्वर्गादि फलोंके दिखानेवाले जो वेदादिक है उनके वाक्यरूपी गोलोंके चलने पर भी वह तोपखानेके घोड़ोंकी तरह कानको नहीं उठाते हैं, अर्थात् आत्मविचारको छोडकर अनात्मविचारमे नहीं लगते हैं. वही पुरुष परमानन्दको प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध करनेकी रीतिकों सिखाता है, एक मैदानमें अपनी फौजको लेजाकर आधी फौजको पूर्वकी तरफ भेज देता है और आधी फौजको पश्चिमकी तरफ भेज देता है । दोनों फौजे खाली बारूदके गोलोंको चलाती हुई आपसमें झूठी लडाईको करती हैं । जो लोक इस वार्ताको जानते हैं, जो यह बारूदके झूठे गोले चलते हैं इनके चलनेसे हमारी कुछ भी हानि नहीं होती है, तो वह दोनों फौजोंके बीचमे धूम २ करके दोनोंका तमाशा देखते हैं । न डरते हैं । और न भागते हैं । और जो लोक उन गोलोंको सच्चा जानते हैं वे डरते भी हैं और भागते भी हैं । यह तो दृष्टांत है । अब इसको दार्ष्टान्तमे घटाते हैं । इस ससाररूपी मैदानमें आसुरी सम्पदवाले और दैवी सम्पदवाले दो प्रकारके पुरुष हैं । दोनो अपने २ संकल्प विकल्पके रोचक मयानक अर्थवाटरूपी झूठे गोलोंको पडे चलाते हैं ।

जो कि अब्राहमी जीव हैं, वह तो उन गोलोंकी आवाजको सुनकर डरते भी हैं और भागते भी हैं और जो कि ज्ञानवान् हैं, वह उन झूठे गोलोंकी आवाजको सुनकर न डरते हैं न भागते हैं, किंतु मैदानमें ही खड़े रहते हैं और दोनोंके तमाशको देखते हैं ॥ २३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक आदमीको एक पुरुषका सौ रुपैया देना था, जब वह मँगो तभी वह कह दे, मेरे पास इस कालमें रुपैया नहीं है, जब मेरे पास होगा तभी मैं देऊंगा । एक दिन उसके लेनदारने तिसको पकड करके तग किया, तब भी उसने तिसको रुपैया न दिया और कहा मेरे पास नहीं है और रुपैया उसके घरमें रखा था, परन्तु देता नहीं था, तब तिस लेनदारने कहा, यदि तुम सौ गठा प्याजका खाजाओ तब हम तुमको रुपैया छोड देंगे । उसने सौ गठा प्याज खानेको मंजूर किया । जब खाने लगा तब तिससे नहीं खाये गये किंतु दस बीस खाकरके ही रह गया, तिससे और नहीं खाये गये । तब उसने कहा अच्छा तुम सौ लाल मिरचोंको खालेवो, तो हम तुमको रुपैया छोड देंगे । उसने मंजूर किया जब कि मिरचोंको वह खाने लगा तब तिससे सौ मिरचे खाये न गये किन्तु दस पाचही खाकर रह गया । फिर तिसने कहा, तुम सौ जूताकी मार सह लेवो हम तुमको रुपैया छोड देंगे । उसने मंजूर किया जब कि दस पाचही जूता लगे तभी चिह्छाने लगा, सौ जूता भी उससे नहीं सहागया । आखिर हारकर तिसको रुपैया देनही पडा । गठे, मिरचे, जुने सब तिसने मुफ्तमें खाये ।

हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दार्ष्टान्तमे घटाते हैं । अज्ञानी मूर्ख ससारके दुःखो करके दुःखित होकरके जब कि आत्मवित् किसी महात्माके पास उपदेशके लिये जाता है, महात्मा यदि प्रथम ही तिसको कह दे तू ब्रह्म है, तब वह किसी प्रकारसे भी नहीं मानता है, जब कि प्रथम तिससे अनेक देवतोंकी उपासना कराता है, फिर अनेक प्रकारसे ब्रतोंको करवाता है फिर अनेक तीर्थमें तिसको फिराता है यही सब गठे स्थानापन्न तिसको खाने पडते हैं जब कि सब कुछ करके हार जाता है तब अन्तमें महात्माकी कही हुई बातको मानता है । तात्पर्य यह है, प्रथम मूर्ख सच्चे उपदेशको नहीं मानता है ।

द्वितीय किरण ।

जब किं इधर उधर भटककर-हार जाता है, तब शास्त्रों जूतोंको खाकर उसको मानना ही पडता है, जो मैं ही ब्रह्म हूँ तब वह शांतिको प्राप्त होता है और इधर उधरकी भटकनासे छूटता है ॥ २४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको तुम सुनो:—

एक पुरुषका चित्त संसारसे जब बहुत उपराम हुआ तब तिसने अपनी स्त्रीसे कहा, हमारा चित्त गृहस्थाश्रममें नहीं लगता है, हम अब संन्यासाश्रमको अर्गीकार करैगे और गृहस्थाश्रमका त्याग करदेवैगे। स्त्रीने तिसको बहुतसा मना किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक महात्मासे कहा, हमका उपदेश कीजिये । महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर तिसको महावाक्यका उपदेश करके अपना चेला बना लिया । तिसने मनमें विचार किया, महात्माने जो हमको उपदेश किया है इसमें तो कुछभी देर नहीं लगी है, क्योंकि जरासी बात इन्होंने बता दी है न मात्रम वेदोंमें क्या लिखा है । चलकर किसी पंडितके पास थोडे कालतक पढना चाहिये । मनमें ऐसा विचार करके वह एक पंडितके पास पढनेके लिये गया और पंडितसे कहा, हमको भी कुछ पढाया करिये । पंडितने कहा, हमारे पास जितने कि विद्यार्थी पढते हैं, एक २ काम हमारा सब विद्यार्थी करते हैं । आप भी हमारा एक काम किया करे और विद्या पढा करे । तिसने भी मजूर कर लिया और पंडितसे कहा, आप हमको जो काम बता दे हम उसको नित्य किया करैगे । पंडितने कहा, हमारी गैयाका कोई गोबर पायनेवाला नहीं है आप हमारा गैयाका गोबर नित्य पाथ दिया कीजिये । उसने मजूर करलिया । नित्य ही पंडितजीका गैयाका गोबर वह पाथा करे और विद्या पढा करे क्रमसे वह पढने लगा । प्रथम व्याकरण, फिर न्याय, फिर सांख्य, फिर योग, फिर नीमांसाको तिसने पढा । इतनेमें बारह वरस व्यतीत हो गये । जब वेदांतको उसने पढा तब सब वेदोका सारभूत वही बात आयी जिसको कि गुरुने प्रथम ही तिसके प्रति बता दिया था । तब तिसने कहा, बात तो वही सारभूत निकली जिसको कि, गुरुने मेरेको पहले ही बता दिया था । गोबरको हमने बारहवरस मुफ्तमें पाथा । इसीपर एक महात्माने भी कहा है:—

श्लोकार्द्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः ॥ १ ॥

अर्द्ध श्लोकसे हम उस वार्ताको कहते हैं जो वार्ता कि, करोड़ों ग्रन्थोंमें कही है । ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है और जीव जो है सो ब्रह्मरूप ही है, दूसरा नहीं ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! उत्तम अधिकारीके लिये तो एक वाक्य ही अल है, मध्यम अधिकारीके वास्ते सब शास्त्र बने हैं । कनिष्ठ अधिकारीके प्रति शास्त्रकी भी कुछ नहीं चलती है ॥ २५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको तुम सुनो—

एक किसान अपने पके हुए खेतको बहुतसे मजदूरोंसे कटवा रहा था, जब कि थोडासा दिन बाकी रहगया, तब किसानने मजदूरोंसे कहा. जल्दी २ काटो ऐसा न हो कि, सध्या होजाय । जितना डर हमको सध्याका है इतना हमको सिंहका भी नहीं है । एक अनाजके खेतमें सिंह बैठा हुआ किसानकी वार्ताको सुन रहा था । सिहने जाना सध्या कोई हमसे भी बली जानवर है. जो यह किसान हमारा डर तो नहीं मानता है और सध्याका डर मानता है । इतनेमें दिन अस्त होगया, किसान और मजदूर सब अपने अपने बरोंको चले गये । उसी ग्रामके धोबीका गधा उस दिन कहीं भाग गया था, अधेरी रात्रिमे धोबी गधेको खोजता हुआ जब कि, तिस खेतमे आया जहांपर सिंह बैठा था । उसने जाना यह हमारा गधा ही छिपकर खेतमें बैठा है । दो लाठी धोबीने सिंहकी कमरमें दी और गलेमें रस्ती बाधकर आगे धर लिया । सिहने जाना यह वही सध्या आगई है, जिसका जिकर किसान दिनमें कर रहा था । सिंह धोबीके साथ, २ चल पडा । सिहने जाना यदि बोल्हा तब दो लाठी और कमरमें लगावेगा । धोबीने घरमें लेजाकर तिसको खूँटेके साथ बाध दिया । जब एक पहर रात्रि बाकी रही तब धोबीने सिंहपर दो चार लाठीको लाददिया और नदीकी तरफ चलपडा । आगे रास्तामें एक सिंह खडा था, उसने देखा यह सिंह होकर धोबीकी लाठियोंको उठाये हुये चला आता है, इसमें क्या आगा है ?

मला सिंहसे पूछे तो तुम इसके बोझा ढोनेवाले क्यों बने हो ? सिंहने उस लड़े हुए सिंहसे पूछा, तुम धोवीके गधे क्यों बने हो ? उसने कहा, बोलोमत । यह संध्या बड़ी बलवान् है हमको अपना गधा इसने बना लिया है, यदि तुम बोलोगे तो सन्ध्या पीछे पीछे चली आती है, तुमको भी पकडकर वह अपना गधा बनालेगी । तुम जल्दी यहांसे भाग जावो । तिस सिंहने कहा अरे तू बडा मूर्ख है । सन्ध्या कौन चीज है । अन्धेरेका नाम सन्ध्या है, संध्या कोई तुमसे बली जानवर नहीं है, तुम्हारे सकल्पका रचा हुआ वह जानवर है । तुम इस सकल्पको दूर करके अपने स्वरूपका स्मरण करो । तुम तो सिंह हो ये तो सब तुम्हारे खाद्य हैं । तुम्हारी आवाजको सुनकर ये सब भाग जायेंगे । सिंहको तिसके कहनेसे अपने स्वरूपका स्मरण हो आया । ज्योही लादीको फेंककर वह गरजा त्योही धोवी घरकी तरफ भागा और सिंह वनमें चला गया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब दार्ष्टान्तमें इसको बटाते हैं । यह जीव तो वास्तवमें सिंह था, कर्मरूपी किसानके भयानक वचनरूपी सन्ध्याको सुनकर अज्ञानरूपी धोवीका यह गधा बनकर कर्मरूपी लादीको ढोने लगा । जब कि सिंहरूपी आत्मवित् गुटने इसको उपदेश किया, कि तुम गधे नहीं हो किंतु सिंह हो अर्थात् तुम पुण्य पापके कर्ता भोक्ता नहीं हो, किंतु असग, चैतन्यस्वरूप हो, तभी अपने स्वरूपका इसको स्फुरण हो आता है और बंधनसे रहित हो जाता है ॥ २६ ॥

चित्तवृत्ति कहती है—हे भ्राता ! जीव ईश्वरकी उपाधियोंके त्यागमें कोई दृष्टांत तुमने नहीं कहा है, सो कहना चाहिये । विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! अब हम तुमको उपाधियोंके त्याग करनेमें दृष्टांतको सुनाते हे:—

हैं चित्तवृत्ते ! किसी ग्राममें दो भाई बनिया एक मकानमें रहते थे । उन दोनो भाइयोंकी स्त्रिये बड़ी लडाकी थीं । जिस कालमें वे दोनों भाई अपने घरमें आते थे उसी कालमें वह दोनों स्त्रिये परस्पर लडाईको शुरू कर देती थीं । दोनों भाइयोंकी आपसमें झूटको ही बनाये रखती थीं । किसी प्रकारसे भी उनको परस्पर मिलने नहीं देती थी । नित्यही कलह करती थीं । दोनों भाइयोंने परस्पर विचार करके दोनों स्त्रियोंको घरसे निकाल दिया तब दोनों भाई परस्पर एक

होगये और नित्यकी कलह भी दूर होगई । यह तो दृष्टांत है अब दार्ष्टान्तमें इसको सुनो । जीव ईश्वर दोनों सगे भाई हैं जीवकी स्त्री अविद्या है ईश्वरकी स्त्री माया है, वह दोनों परस्पर नित्यही लडती रहती हैं । इमीसे दोनोंका मेल परस्पर नहीं होता है । जब कि, अविद्या मायारूपी स्त्रियोंका त्याग करदिया जाता है, तब दोनों परस्पर मिलजाते हैं अर्थात् दोनोंकी एकता होजाती है ॥ २७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं —

प्रयागराज तीथमें बाप और बेटा दोनों स्नान करनेके लिये गये । जब कि, दोनों स्नान करचुके, तब बेटा वहांपर गंगाजीकी वालुकासे खेलने लगा अर्थात् बेटेने गंगाजीकी वालुका एक किला बनाया । बाप कितना ही बेटेसे घर जानेके लिये कहता था, परन्तु बेटाने बापकी वार्ताका ख्याल ही न किया । ऐसे खेलमें बेटा लगा जो बापकी तरफ देखे भी नही । तब बाप भी लगे खेलने याने बापने बेटेसे भी अधिक एक बडा भारी रेतकी किला बनाया । बेटेने देखा बापने तो हमसे भी भारी किला बनाया है, तुरन्तही बेटेने बापके किलेको गिरादिया और बापने बेटेके किलेको गिरा दिया । दोनों परस्पर मिल करके अपने घरको चले गये । यह तो दृष्टांत है अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाते हैं । जीव बेटा है, ईश्वर बाप है । ईश्वर वेदवाक्यों करके जीवको अपने घरमें जानेके लिये त्रार २ उपदेश करता है परन्तु जीव अपने खेलमें ऐसा लगा है, जो बापके उपदेशको नही सुनता है । जीवने अपने सकत्पका एक किला बनाया है, वह किला इस तरहका है कि, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यह मंदिर है, इस कामको आज मैंने कर लिया है, इसको कल कखेंगा ऐसे दृढ किलेको बनाता ही चला जाता है और ईश्वररूपी पिताकी वार्ताको नहीं सुनता है । जब ईश्वररूपी पिताने देखा कि जीवरूपी पुत्र तो इस तरहसे मेरी वार्ताको नही मानता है तबतक हम भी इसीकी तरह एक संकल्पके किलेको बनावेंगे । तब ईश्वरने भी कर्म उपासनारूपी एक भारी किलेको बनाया । जीवने देखा बापने तो मेरे किलेसे भी अपना बडा किला बनाया है, तब जीवने ईश्वरके बनाये हुए किलेको तोड दिया याने मिथ्या कर दिया तब ईश्वरने

जीवके बनाये हुए किलेको भी श्रुतिवाक्योंकरके मिथ्या कर दिया । तब दोनों जीव और ईश्वर अपने शुद्धस्वरूपरूपी घरमें स्थित होगये अर्थात् दोनों एकही होगये ॥ २८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और भी लौकिक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

किसी नगरमें एक बनियां बड़ा गरीब रहता था, उसके एक लडका पैदा हुआ । जब कि, वह लडका एक सालका हुआ तब वह बनियां गरीबीके दुःखके मारे विदेशमें कमानेके लिये चला गया । धूमता फिरता वह काशीजीमें जा निकला । वहापर जाते ही तिसका रोजगार जम गया और जब कि तिसको काशीजीमें रहते दश या बारह बरस बीतगये तब तिसके पास बहुतसा धन जमा होगया । एक दिन तिसके मनमें आया इस धनमेंसे कुछ धन शुभ मार्गमें लगाना चाहिये । उसने ऐसा विचार करके एक मंदिरका बनाना शुरू कर दिया और इधर पीछे तिसका लडका भी सयाना होगया । उसने अपनी मातासे पूछा पिता हमारे कहांपर गये हैं ? माताने पूर्ववाला सब हाल तिसको कह सुनाया । लडकेने मातासे कहा चलो उनको खोजै । माताकी भी सलाह होगई, वह दोनों मां बेटा विदेशमें निकल पडे । खोजते २ वह काशीमें जा पहुँचे । एक मकानमें डेरा लगाकर लडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेको जाते हैं, कुछ कमा लावेंगे तब रात्रिको भोजन वनैगा । माताकी आज्ञाको लेकर लडका मजदूरी करनेको निकला जहांपर बनियाका मंदिर बनता था, वहा पर जाकर वह लडका भी मजदूरीमें काम करने लगा । बनियाँ जब कि, मंदिर देखनेको आया तब उसने उस लडकेको नया जानकार पूछा तुम्हारा मकान कहाँपर है ? और तुम कौन जाति हो ? और कैसे तुम यहाँपर काम करनेको आये हो ? लडकेने शुरूसे आखीरतक सब अपना हाल बनियांको कह सुनाया । तब बनियाने जानलिया यह भेराही लडका है, उसकी माको बुलाकर घरके भीतर भेज दिया और लडकेको स्नान कराकर सुन्दर वस्त्रोंको पहराकर अपनी गद्दीपर बैठाकर अपना सब धन तिसको सौंप दिया । बाप बेटा दोनों मिलकर बडे आनदसे रहने लगे । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब तुम इसको दार्ष्टान्तसे सुनो । यह जीवरूपी पुत्र जब कि महान् प्रयत्नको करके

अपने पिताकी खोज करता है, तब अवश्य ही अपने पितासे जा मिलता है और पिता भी तब इसको अपना सब देदेता है । तात्पर्य यह है, इम कायारूपी काशीपुरीके भीतर पितारूपी परमेश्वर रहता है, जबतक जीव बाहर तिसको खोजता है, तबतक पितासे नहीं मिलता है । जब इस कायारूपी पुरीके भीतर खोजता है, तब अपने पितासे जा मिलता है । और पिता भी तिसको अपना सब धनरूपी जो कि महान् सुख है अर्थात् मोक्षरूपी नित्य सुखको जीवके प्रति देदेता है ॥ २९ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयमे एक और दृष्टांतको तुम सुनो.—

एक अन्धा और दूसरा आंखोंवाला दोनों मिलकर रास्तामे चले जाते, थे । दैवयोगसे पूर्वकी तरफसे आँधी उठी और ऐसा गरदा उड़ने लगा जो समीपकी वस्तु भी नहीं दीखती थी । उन दोनोंकी आंखोंमें मिट्टी भरगई, थोड़ी देरमें जब कि, आँधी हटगई, तब दोनोंने आंखोंको झाड दिया, अर्थात् आंखोंसे मिट्टीको निकाल दिया तब आंखवालेको तो दीखने लग गया; परन्तु अन्धेको मिट्टीके निकालने पर भी न दिखाई दिया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब दार्ष्टान्तमे इसको सुनो ।

ज्ञानी तो आंखोवाला है, क्योंकि तिसको सर्वत्र एकही आत्मा दीखता है और अज्ञानी अंधा है, क्योंकि तिसको सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता है किंतु भिन्न करके परिच्छिन्न आत्माको वह जानता है, इसीसे वह अंधा है । जब कि क्रोधरूपी आँधी आती है तब दोनोंको आंखोंमें अविचाररूपी मिट्टी तिस कालमें भरजाती है । क्रोधरूपी आँधीके हटजानेके पीछे ज्ञानी तो विचारके बलसे अविचाररूपी मिट्टीको तुरन्तही निकाल देता है । उसको तो फिर उसी तरह सर्वत्र एकही आत्मा दिखाई पड़ने लग जाता है । इसीसे तिसका राग-द्वेष फिर किसीसे भी नहीं रहता है और अज्ञानीको क्रोधरूपी आँधीके हटजानेपर भी सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता है क्योंकि विचाररूपी तिसकी आँखें नहीं हैं, इस लिये तिसकी आंखोंमे अविचाररूपी मिट्टी कुछ न कुछ रहती जाती है, इतनाही ज्ञानी अज्ञानीका फरक है । ज्ञानवान्के क्रोधादिक पानी-पर लीक है, अज्ञानीके पत्थरपर लीक है, इसीसे ज्ञानवान् सदैवकाल आनन्दमें रहता है । अज्ञानी दुःखमें रहता है ॥ ३० ॥

चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! आपने पीछे कहा कि, ज्ञानवान् अपनेको अकर्ता अमोक्ता मानता है और ज्ञानहीन अपनेको कर्ता, मोक्ता मानता है, ऐसा तो संसारमें देखनेमें नहीं आता है । क्योंकि विना कर्ता मोक्ता माननेसे व्यवहार चलही नहीं सक्ता है, तब फिर व्यवहारको करनेवाला ज्ञानी अकर्ता कैसे हो सक्ता है ?

विवेकाश्रम चित्तवृत्तिके प्रति कहते हैं, व्यवहारको करना हुआ भी ज्ञानवान् अकर्ता ही होता है, क्योंकि वह अपनी खुशीसे नहीं करता है । इन्हींमें एक दृष्टांतको कहते हैं —

एक राजा अपने मंत्रीको साथ लेकर वनमें शिकारको गया, शिकार खेलते २ राजाको प्यास लगी तब राजाने मंत्रीसे कहा कहींसे पानीको मँगावो । मंत्रीने इधर उधर देखा तो ग्रामकी तरफसे एक आदमी चला आता था, उस आदमीसे मंत्रीने लोटा देकर कहा जल्दी पानी ले आवो । वह लोटा लेकर ग्रामकी तरफ पानी लेनेको जब चला वजीरको जगलकी तरफ दौपहरकी घूपसे रेत चमकता दीखता था, उसने जाना यह पानीकी नदी चल रही है, वजीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता है तुम दूररी तरफ क्यों जाते हो ? उसने कहा वह पानी नहीं है, पानीका कुँआ प्रानमे है, हम ग्रामसे पानीको लाते हैं । वजीरने कहा तुम झूठ बोलते हो हमको पानी दीखता है, तुम हमको धोखा देकर भागना चाहते हो । ऐसा कहकर वजीरने चार पांच कोड़े तिसको लगादिये तब वह उधरको ही चला; जिधरको मृगतृष्णाका जल तिसको दीखता था । उसने विचार किया, यदि नहीं जाऊंगा तो चार कोड़े और लगावेगा । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है । अब दार्ष्टान्तमें इसको सुनिये । ज्ञानवान्ने संसारके भोगोंको मृगतृष्णाके तुल्य जानकर त्याग दिया है और उनकी तरफ नहीं भी जाता है, तब भी प्रारब्धरूपी कोड़ा तिसको उधर भोगोंकी तरफही भेजता है न जाय तो और कोड़े लगते हैं । तात्पर्य यह है ज्ञानवान्को भोगोंकी इच्छा नहीं भी है, तब भी प्रारब्धरूपी कर्म जबरदस्ता इसको भोगोंको भुगाता है और प्रारब्धने ही इसके शरीरको बना रक्खा है, वास्तवसे इसकी दृष्टिमें शरीर भी नहीं है, किन्तु ज्ञानवान्के शरीरका योगध्रम भी प्रारब्ध कर्मही करना है ॥ ३१ ॥

चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! आपने कहा है जीवात्मा और ईश्वरात्मा में भेद नहीं है, किंतु दोनों एक ही हैं, तब फिर ईश्वरमे जो सर्वज्ञतादिक गुण हैं, वह जीवमें क्यों नहीं हैं ? आत्मा तो दोनोंमें एकही है । विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! इसमें भी हम तुमको एक दृष्टांत सुनाकर विरोधको हटाकर दिखाते हैं:—

किसी नगरके बाहर एक महात्मा जगलमें रहते थे । एक दिन एक पुरुषने जाकर उनसे यही सवाल किया, कि आप लोक कहते हैं, जीवात्मा और ईश्वरात्मा में भेद नहीं है, किन्तु दोनोंमें एकही आत्मा है । तब फिर ईश्वरात्मा में जो कि सर्वज्ञतादिक गुण है वे जीवात्मा में क्यों नहीं हैं ? महात्माने कहा हमको प्यास लगी है, और गगाजलको ही हम पीते हैं और गंगाजी हमारी कुटीसे दूर दो कोसके फासले पर है । प्रथम तुम जाकर हमारी तूबडीमें गंगाजलको गगाजीसे भरलावो मगर गंगाजलको ही लाना कूपके जलको न लाना, जब कि हम गगाजलको पान कर लेंगे, तब फिर तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देंगे । वह महात्माकी तूबडी लेकर गगाजीसे जल भरलाया और महात्माके आगे तिसने तूबडीको धर दिया और महात्मासे कहा, लीजिये गगाजलको मैं लाया हूँ । महात्मा तूबडीके जलको देखकर कहने लगे यह तो गंगाजल नहीं है । उसने कहा महाराज ! यह गगाजलही है । महात्माने कहा, हम कैसे विश्वास कर लें, जो यह गगाजलही है ? वह कसमें खाने लगा कि, यह गगाजलही है । महात्माने कहा तुम तो सच कहते हो परन्तु गगाजीमें तो पचासो नावें चलती है, हजारों मछलियाँ रहती हैं, लाखों मनुष्य तिसमें स्नान करते रहते हैं, सैकड़ो पर्वत और वृक्ष तथा नगर और ग्राम तिसके किनारेपर रहते हैं उनमेंसे तो इसमें एक भी नहीं दीखता है, तब हम कैसे जान लें कि, यह गगाजलही है । उसने कहा महाराज ! वह बड़ा भारी गगाजीका प्रवाह है, जिसके किनारेपर हजारों नगर और पर्वतादिक हैं, यह थोड़ासा उसी प्रवाहका हिस्सा है, इसमें वह सब कैसे रहसक्ते हैं ? साराश यह है कि, गगाजल होनेमें तो कोई भी संदेह नहीं है । क्योंकि, जो माधुर्य उसमें है, सोई इसमें भी है । महात्माने कहा, इसीतरह तू जीवात्मा और ईश्वरात्मा में भी घटाले । जीवात्माकी

उपाधि जो अतःकरण है, वह छोटीसी उपाधि है, ईश्वरात्माकी उपाधि जो गाया है वह सारे ब्रह्मांडमें फैली हुई है । इसीवाते ईश्वरात्मामें सर्वज्ञतादिक धर्म रहते हैं, जीवात्मामें नहीं रहते हैं । परन्तु सुखरूपता दोनोंमें बराबरही है और नित्यत्व चेतनत्वादिक भी धर्म दोनोंमें बराबरही हैं । इसीसे सिद्ध होता है कि, जीवात्मा और ईश्वरात्माका बिल्कुल भेद नहीं है ॥ ३२ ॥

चित्तवृत्ति कहती है, ईश्वरात्मा और जीवात्मा यदि दोनों विद्यमान हैं, तब इन नेत्रोंसे क्यों नहीं दीखते हैं, जो वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीखती है, उसका सत्यतामें क्या प्रमाण है ? विवेकाश्रम कहते हैं, हम एक दृष्टातको देकर इस बातके उत्तरको कहते हैं:—

हे चित्तवृत्ते ! किसी नगरके बाहर वनमें एक महात्मा रहते थे । उनके पास जाकर एक मूर्ख पुरुषने इसी प्रश्नको किया । तब महात्माने उसको शास्त्रके वाक्यों और युक्तियोंसे बहुत समझाया तब भी वह मूर्ख न समझा और उसने हठ किया कि हमको इन दोनों नेत्रोंसे दोनोंको दिखला देवो । महात्माने एक मिट्टीके ढेलेको उठाकर तिसके शिरमें मारा तिसका शिर फटगया और वह रोता रोता राजाके पास फरयादी गया और राजासे तिसने जाकर कहा मैंने फलाने महात्मासे ऐसा सवाल किया और उन्होंने जवाबके बदले मेरा शिर फोड़ दिया, अब मेरेको ऐसा दर्द होता है जो दर्दके मारे मेरे प्राण निकले जाते हैं । राजाने सिपाहीको भेजकर उन महात्माको बुलाया और कहा आपने इसका शिर क्यों फोड़ दिया है ? महात्माने कहा हमने इसके सवालका जवाब दिया है । यह जो आपके पास फरयादी आया है सो क्यों आया है ? उसने कहा इसके शिरमें दर्द होता है तिसीसे यह फरयादी आया है । महात्माने कहा जैसे दर्द होता है और दीखता नहीं है, तैसे जीवात्मा और ईश्वरात्मा विद्यमान हैं परन्तु दीखते नहीं हैं । हमको यह अपने दर्दको नेत्रोंसे दिखाते तब हम भी इसके प्रति आत्माको नेत्रोंसे दिखा देवेंगे । जैसे दर्द है भी और नेत्रों करके नहीं दीखता हैं तैसे आत्मा भी है और नेत्रों करके नहीं दीखता है । राजाने कहा ठीक है । महात्मा अपने आसन पर चले आये, हे चित्तवृत्ते ! यही तुम्हारे प्रश्नका भी उत्तर है ॥ ३३ ॥

चित्तवृत्ति कहती है हे भ्राता ! जो लोक वैराग्यपूर्वक गृहस्थाश्रमका त्याग करके सन्यासाश्रममे होजाते हैं, वे पहले घरके प्रपंचको त्याग करके फिर सन्यासाश्रममें जाकर उससे भी अधिक प्रपंचको क्यों फैलाते हैं ? इसका क्या कारण है ? विवेकाश्रम कहते हैं उनको पहले मन्द वैराग्य हुआ था, मन्द वैराग्य अल्प कालतक रहता है फिर नष्ट होजाता है । जब कि स्त्रीको लडका पैदा होने लगता है, तब उस कालमें उसको बड़ा क्लेश होता है तिसकालमें वह कहती है कि, फिर पतिके पास नहीं जाऊंगी । जब कि, कुछ दिन बीत जाते हैं तब वह दुःख भूल जाती है फिर वह पतिके पास जाती है ।

उसीप्रकार जब किमी पुरुषको किसी तरहका घरकार्योंसे या धनादिकोंके नष्ट होजानेसे दुःख प्राप्त होता है, तब वह गृहस्थाश्रमको किसी मद् वैराग्यमें त्याग देता है । कुछ दिन बीते जब कि, दुःख भूल जाता है और धनादिकोंकी तिसको प्राप्ति होने लगती है, तब वह सन्यासाश्रममें ही फिर मठादिकोंको बाधकर गृहस्थाश्रम बना लेता है । क्योंकि, तिसका वह मन्द वैराग्य भी जाना रहता है । जैसे वैष्णवको माससे बड़ा तिरस्कार रहता है कभी स्वप्नमें भी तिसका मन मासकी तरफ नहीं जाता है, ऐसा जब कि, स्त्री धनादिकोंसे जिसको वैराग्य होजाता है वह फिर त्यागो हुए प्रपंचकी रचनाको नहीं करना है, इसीमें एक दृष्टांतको कहते हैं:-

हे चित्तवृत्ते ! ईरान देशमें किसान लोढ़ाघोड़ोंको पालते हैं, याने चार २-सौ पांच २ सौ घोड़ियोंके गोलोंको वह रखते हैं । जब कि, वह घोड़िये बच्चोंको उत्पन्न करती है, तब वह किसान लोग जगलमें एक किलेको बनाते हैं । गिरदे तिसके तीन खाइयोंको खोददेते हैं, उस किलेमें नये उत्पन्न हुए घोड़ियोंके बच्चोंको रखकर भीतर जानेके रास्ताका भी बन्द कर देते हैं और ऊपरके रास्तासे बच्चोंको मसाला वगैरह खिलाकर पालते हैं और उस जगलमें तिस किलेके समीप किसी प्रकारके शब्दको भी वह नहीं होने देते हैं । जब कि वह बच्चे एक सालके होजाते हैं, तब एक दिन वे किसान लोग एक तोपको ले जाकर तिस किलेके समीप चलाते हैं, तिस तोपकी आवाजको सुनकर वह

घोड़ियोंके बच्चे कूदने लगते हैं, कोई तो तीनों खाइयोंको फाँदकर जगलको दौड़ जाते हैं, कोई दो खाइयोंको फाँदकर तीसरीमें फँस जाते हैं, कोई एक खाइको कूदकर दूसरीमें फँस जाते हैं, कोई एकमें ही गिरकर फँस जाते हैं, कोई उसी जगहमें फूड फूडकर रहजाते हैं। हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, इसको दार्ष्टान्तमे घटाते हैं। गृहस्थाश्रमरूपी एक किला है तिसमें जीवन्मूर्ति घोड़ियोंके बच्चे सब फँसे हैं, जिस कालमे कोई विरक्त महात्मा आकर वैराग्यरूपी तोपको चलाता है, तिस कालमे जो कि, तीव्रतर वैराग्यवान् होते हैं वे तीनों खाइयोंको कूदकर निकल जाते हैं। प्रथम खाई तो स्त्री पुत्रादिकोंका मोहरूप है दूसरी खाई वर्णाभिमान है, तीसरी खाई आश्रमाभिमानो है। सो तीव्रतर वैराग्यवाले दन तीनों खाइयोंको कूद जाते हैं अर्थात् स्त्रीपुत्रादिकोंमें मोहको त्यागकर फिर वर्णाश्रमके अभिमानको त्यागकर जीवन्मुक्त होकर विचरते हैं, वे फिर दूसरे प्रपचकी रचना किसी प्रकारसे भी नहीं करते हैं और जिनको तीव्र वैराग्य होता है, वे प्रथमकी दो खाइयोंको कूदकर तीसरी आश्रम अभिमानरूपी खाईमें फँस जाते हैं। हम सन्यासी हैं, हम डण्डी हैं, हम सर्वसे उत्तम हैं, हमारे तुल्य दूसरा कौन है, वह मोक्षके अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि उनका मिथ्या आश्रममें अभिमान बना है और मन्द वैराग्यवान् प्रथमवाली खाईको कूदकर अर्थात् स्त्री, पुत्रादिकोंमें मोहको त्याग करके दूसरी वर्णाभिमानरूपी जो खाई है, चले मठादिक तिनमें फँस जाते हैं वह भी मोक्षके और ज्ञानके अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि एक गृहस्थाश्रमरूपी खाईसे निकल दूसरी खाईमें अर्थात् नये प्रपचकी रचनाको करने लग जाते हैं। और जो अतिमद वैराग्यवान् है वे घरको छोडकर ग्रामके बाहर रहकर सन्त नाम अपना धरकर सुपेद बच्चोंको और शिखा सूत्रको भी रखकर कथा वाचा वाचकर अपने घरकी और अपनी प्रालनाको करते हैं वह भी ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि उनका दाम्भिक व्यवहार है, इस प्रकारके मनुष्य पांचाल देशमें बहुत हैं और चौथे महामूढ पुरुष है, जो कि, वैराग्यकी वाताको सुन-
 वड़ी दो घडी वाहे वाहे हाय २ करके रहजाते हैं, उनसे तो वैराग्य दूर
 भाग जाता है ॥ ३४ ॥

चित्तवृत्ति कहती है—हे विवेकाश्रम ! समुच्चयवादी कहता है कि कर्म और ज्ञान दोनोंको इकट्ठा करनेसे मुक्ति होती है । और वेदाती कहता है केवल ज्ञानसे ही मुक्ति होती है सो दोनोंमेंसे किसका कथन ठीक है ? विवेकाश्रम कहते है—हे चित्तवृत्ते ! कर्म और ज्ञानका समुच्चय नहीं होसक्ता है । जिसको ऐसा अभिमान है कि मैं इस कर्मका कर्ता हूँ, मैं इस कर्मको करके इसके फलको भोगूंगा उसी पुरुषका कर्मोंमें अधिकार है और जिस पुरुषको ऐसा अभिमान नहीं है, किन्तु जिन पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि है कि न हम कर्मके कर्ता है न हम तिसके फलके भोक्ता है कित्तु हम असग सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, उन्हीं पुरुषोंका ज्ञान और मोक्षमें अधिकार है । दोनों विरोधी एक जगहमे नहीं रहसक्ते है । इन्हींमें एक दृष्टात तुमको हम सुनाते है.—

एक जाटकी दो लडकी थीं, एक लडकीकी शादी किसानके साथ हुई थी और दूसरी लडकीकी शादी कुम्हारके साथ हुई थी । जब कि, लडकियोंकी शादीको हुए बहुत दिन गुजर गये, तब एक दिन जाटसे छीने कहा बहुत दिन हुए लडकियोंका कोई खत पत्र नहीं आया तुम जाकर उनके आनंद मगलकी खबर लाओ । जाट घरसे निकलकर उस ग्राममें गया, जहापर कि, दोनों लडकिये विवाही गई थीं । पहले वह किसानके घरमें जाकर लडकीसे मिला और हाल चाल पूछा । लडकीने कहा बापू खेतमें बीज फेका है और वादल भी घिरा है । यदि वर्षा न हुई तब तो हम उजड जायेंगे । क्योंकि धानका बीज सब जलजायगा और जो वर्षा हो जायगी तब तो हम बस जायेंगे । फिर दूसरी कुम्हारके घरवाली लडकीके पास गया और जाटने पूछा बन्ची मुखसादकी खबर कहो । उसने कहा बापू और तो सब अच्छा है हमने बर्तनोका आवाँ लगाया है और आजही तिसको आग दी है, इधरसे हमने आवाको आग दी है, उधरसे वादल घिरकर आया है यदि वर्षा हो जायगी तब तो हम उजड जायेंगे क्योंकि कच्चे बर्तन सब गल जायेंगे । जो वर्षा नहीं होगी तब तो हम बस जायेंगे, क्योंकि बर्तन हमारे सब पकजायेंगे । जाट दोनों लडकियोंके हालको पूछकर जब अपने घरमें आया तब छीने जाटसे पूछा लडकियोंके हालको सुनाओ । जाटने कहा या तो किसान उजडेगा

या कुम्हार उजडेगा । दोनोंमेंसे एक तो जरूर उजडेगा यही सब हाल कह सुनाया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाते है अन्त-करणरूपी जाट है, तिसकी जो वृत्तिये है कर्तृत्व अकर्तृत्व वही तिसको दो लडकिये हैं । यदि ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होजायगी तब कर्तृत्व भोक्तृत्वरूप वृत्ति उजड जायगी और जो दूसरी अहमाकार कर्तृत्व भोक्तृत्वरूप वृत्ति उत्पन्न होजायगी तब तो ब्रह्माकारवाली नहीं होगी । दोनो वृत्तिये परस्पर विरोधी हैं । इसलिये दोनोंमें एकही होगी दूसरी नहीं होगी, तब समुच्चय कैसे होसक्ता है ? किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है । हे चित्तवृत्ते ! जैसे क्रोई अनजान बालक नशा खानेवालेकी सगतसे नशा खाने लगजाता है और जब पूरा नशाबाज होजाता है, तब दुःखको उठाता है, फिर जब कि तिसको किसी अच्छेकी सगत होजाती है, तब वह नशेको छोडकर अच्छा बनकर दुःखसे छूट जाता है तैसे आत्मा भी निर्धार्मिक है । जैसी सगत इस जीवको होजाती है वैसाही यह अपनेको मानने लगजाता है भेदवादीकी सगत होनेसे भेदवादी, अभेदवादीकी सगत होनेसे अभेदवादी होजाता है । आत्मा असग है, मत्र धर्म आत्मामें कल्पित है, आत्मा नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्वरूप है ॥ ३५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और लौकिक दृष्टांतको तुम सुनो—

एक लडका सात आठ बरसका अपने मुहल्लामें खेलता था । अपने खेल-मेही लडका चिल्लाने लगा । उस मुहल्लामे मकान बहुत ऊंचे २ थे उसको आवाजसें टकर खाकर गूँज उठे तब आगेसे भी चिल्लानेका प्रतिध्वनिरूप शब्द हुआ, लडकेने जाना कोई मेरा नकल करता है । लडकेने पूछा तू कौन है? आगेसें भी शब्द हुआ तू कौन है? लडकेने कहा मैं तुमको मारुगा उधरसे भी आवाज आई मैं तुमको मारुगा । लडकेने तिसको गाली दी, आगेसे भी गालीकी आवाज आई, तब लडकेने अपनी मातासे जाकर कहा कोई आदमी मेरेको चिढाता है, परन्तु दिखाई नहीं देता है । माताने कहा वेटा ! दूसरे मुहल्लामे इस वक्त कोई भी तुमको चिढानेवाला नहीं है । जब कि, तुम आवाज करते हो तब तुम्हारी आवाज टकर खाकर गूँजती है । तुम जो जानते हो कोई दूसरा हमको चिढाता है, यह तुमको भ्रम है, तुम्हारेसे विना दूसरा कोई भी

तुमको चिढ़ानेवाला नहीं है, तुम अपने इस भयको दूर करो । माताके उपदेशसे लडकेका डर जाता रहा । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टात है अब इसको दार्ष्टान्तमे सुनो । इस जीवके विना दूसरा कोई भी इसको भय देनेवाला नहीं है, इस जीवका सकल्पही इसको भय देता है अपने सकल्पमे यह जीव नरक स्वर्गादिकोंकी कल्पना करता है, फिर उनकी प्राणिके लिये कर्मोंकी कल्पना करता है । फिर फलोंकी कल्पना करता है, आपही कर्ता भोक्ता बनकर कर्मोंके धक्कोको भोगता है । जैसे मकड़ी अपने मुखसे तार निकालकर आपही तिसके साथ क्रीडा करती है । जैसे बालक अपने परछाहींको देखकर आपही डरता है, जैसे जीव भी अपने सकल्पोंको करके आपही उनमे भयको प्राप्त होता है । अपने स्वरूपसे भूलकरही जीव दुःखको पाता है । जैसी पर एक कविने भी कहा है —

सवैया—रम्पो सब ब्रह्म नहीं कछु भ्रम तू जान न रम जो नाहि मरे हें ।
एकोहि राम झूठी धूमधाम नहीं कोई काम तु काहि डरे है ॥ ब्रह्म सां लाग
द्वैतको त्याग स्वरूपमें जाग वृथा क्यों जरे है । कहे रामदयाल नहीं कोऊ काल
तू आप सँभाली जो वेग तरे है ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जीव अपने अज्ञान करके ही भयको प्राप्त होता है, वास्तवसे इसको भय किसीका नहीं है, जब कि मन दूसरेकी कल्पना करता है तभी भय खडा होता है । देवीभागवते:—

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ॥ १ ॥

हे परतप ! बंध मोक्षमे देह और जीवात्मा तथा इन्द्रिये ये सब भी कारण नहीं हैं, किन्तु मनुष्योंका मन ही कारण है ॥ १ ॥

शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा नैव बध्येत कर्हिचित् ।

बंधमोक्षौ मनःसंस्थौ तस्मिञ्छान्ते प्रशाम्यतः ॥ २ ॥

आत्मा सदैवकाल शुद्ध है, मुक्त है, किसी प्रकारसे भी वह बधायमान नहीं होता है, बंध और मोक्ष मनसेही स्थित रहते हैं अर्थात् मनका सकल्पमात्र है, मनके शान्त होने पर वह भी शान्त होजाते हैं ॥ २ ॥

द्वितीय किरण ।

शत्रुर्मित्रमुदासीनो भेदाः सर्वे मनोगताः ।

एकात्मत्वे कथं भेदः संभवेद्वैतदर्शनात् ॥ ३ ॥

शत्रु, मित्र और उदासीनता ये सर्व भेद मनमेंही है एक आत्माके निश्चय होनेसे फिर भेद कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है भेद तो द्वैत-दर्शनहीसे होता है ॥ ३६ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और लौकिक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:-

किसी नगरमें एक बनियां बड़ा धनिक रहता था, रात्रिके समय तिसकी स्त्री एक जलका लोटा भरकर तिसके सोनेके पलंगके नीचे धर देती थी। सबरे बनिया जब झाड़े जाता था तब तिस लोटेको शौच करनेके लिये ले जाता था। दीपमालिका आनेका दिन जब कि नजदीक आगया तब तिस बनियांकी लडकीने लोटेमें गेरूऔर रगडकर पानी मिलाकर भर दिया और तिस लोटेको बापके पलंगके नीचे धर दिया। सबरे अन्धेरेमें वही गेरूवाला लोटा बनियांके हाथमें आगया। बनियाने जगल फिरकर तिस लोटेसे जब कि, शौच किया तब वह पृथिवी सब गेरूके रगसे लाल होगई। बनियाने जाना यह सब खून पाखानेके रास्तेसे हमारे भीतरसे गिरा है। बनियां घरमें आकर खाटपर गिर-पड़ा और स्त्रीसे तिसने कहा आज मैं मरूंगा क्योंकि मेरे पेटसे पाखानेके रास्तासे बहुतसा खून गिरा है, जल्दी कुछ तू मुझसे दान पुण्य कराओ। स्त्री रोने लगी। बनियाने कहा अब रोनेका समय नहीं है जल्दी एक गौको मँगाकर दान कराओ और कुछ अन्न वगैरा भी मँगाकर दान कराओ। स्त्री सब वस्तुओंके मँगानेके फिकरमें हुई और बनियां भी धीरे २ सुस्त होने लगे। इतनेमें बनियाकी लडकीने पलंगके नीचे जब कि गेरूके लोटेको खोजा और लोटा तिसको नहीं मिला तब लोटाके न मिलनेसे वह लडकी रोने लगी। बापने पूछा क्यों रोती है ? उसने कहा मैंने गेरू घोलकर लोटेमें आपके पलंगके नीचे रखा था न मालूम तिसको कौन उठा लेगया और यह दूसरा लोटा पानीका भरा हुआ इस जगहमें रखा है। मेरा लोटा नहीं दीखता है। लडकीकी वार्ताको सुनकर बनिया उठ बैठा और स्त्रीसे कहने लगा अब मैं अच्छा होगया दान पुण्य करानेकी कुछ जरूरत नहीं। वह खून नहीं था

किन्तु गेरूका रंग था मेरेको भ्रम खूनका होगया था, अब वह भ्रम मेरा जाता रहा है । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है अब दार्ष्टान्तमें इसको सुनो । अनादि अज्ञानके सम्बन्धसे इस जीवको अपने स्वरूपमें भ्रम होरहा है, तिसी भ्रम करके यह जीव अजर आत्मामें जन्म मरणादिकोंको मान रहा है; जब आत्म-वक्ताके उपदेश करके इसका भ्रम दूर होजाता है तब यह अपनेको अजर अमर मानने लगजाता है और जन्म मरणसे रहित होजाता है ॥ ३७ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और लौकिक दृष्टांतको तुम सुनो:—

एक राजाने दो नौकरोंको विदेशमें किसी कामके लिये भेजा । जब कि कुछ दिन बीतगये और उनका कोई भी खत पत्र न आया तब राजाने दोनों नौकरोंकी तरफ दो हुकमनामे लिखे और लिखा इनको पूज्य करके मानना । वह दोनों परवाने दोनों नौकरोंके पास जब पहुँचे तब उन दोनोंमेंसे एकने तो जो परवानेमें करनेको लिखा था तिस कामको करके परवानेको फेंक दिया, और दूसरेने उसमें जो लिखा था उसको तो न देखा, किन्तु परवानेको चौकीपर धरकर तिसकी धूप दीपसे नित्य पूजा करने लगा । जिसने लिखेहुए कामको करके परवानेको फेंक दिया था, राजा उसपर तो बड़े प्रसन्न हुए और तिसको राजाने भारी दरजा भी दिया, और जो परवानेको चौकीपर धर कर केवल पूजाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज हुए और तिसको निकाल भी दिया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब दार्ष्टान्तमें सुनो । वेद शास्त्ररूपी परवाने याने हुकमनामे ईश्वरके भेजे हुए हैं, जो पुरुष उनपर अमल करता है अर्थात् जो कुछ उनमें लिखा है उसको धारण करता है, उसपर तो ईश्वर प्रसन्न होता है, और उसको मोक्ष देता है । जो कि उनमें लिखेको धारण नहीं करता है, किन्तु चौकीपर धरकर धूप दीपादिकोंसे आरती करता है उनके आगे घण्टोंको हिलता है, उसपर ईश्वर नाराज होकर उसको जन्मोंको परम्पराको देता है । इसीपर पचदशीकारने भी लिखा है:—

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचार्य्य च पुनःपुनः ।

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥ १ ॥

बुद्धिमान् पुरुष प्रथम ग्रन्थोंका अभ्यास करे, फिर पुनः पुनः उनका विचार करके धारण करे, फिर जैसे धान्यका अर्थी पुरुष धान्यको ग्रहण करके पललीका त्याग करदेता है इसी प्रकार यह भी सपूर्ण ग्रन्थोंको फिर त्याग करदेवे ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! केवल ग्रन्थोंके बँचनेसे आत्मबोध नहीं होता हे किन्तु धारण करनेसे होता है ॥ ३८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर तुम्हारेको एक और दृष्टान्त सुनाते हैं—एक पुरुष तीर्थयात्रामे जाने लगा तब तिसने विचार किया, यदि द्रव्यको साथ लेजायँगे तब तो रास्तामे चोरोंका भय है, कहीं छूटही जायँगे तब क्या करैंगे । हुंडी लिखवाकर लेजायँ तब अच्छा होगा, वहाँपर जाकर शाहकी दुकानसे रुपैया लेलेयँगे । तिस आदमीने हुंडी लिखवा ली । एक दूसरा भी तिसके साथ तीर्थोंमें चला । उसने भी हुंडी लिखवा ली । तहापर जब जाकर दोनों पहुँचे तब एकने तो शाहकी दुकानपर जाकर तिस हुंडीको दिखाकर अपना रुपैया लेलिया । उसको तो रुपैया मिलगया और दूसरा अपने डेरेपर बैठके तिस हुंडीका पाठ करने लगा । कई एक दिन पाठ करता रहा तब भी तिसको हुंडीका रुपैया नहीं मिला । यह तो दृष्टान्त है, दार्ष्टान्तमें वेद शास्त्ररूपी सब हुडिये हैं, इनके केवल पाठमात्र करनेसे आत्माका लाभ नहीं होता है, किन्तु इनमें जो उपदेश लिखा है, तिसपर चलनेसे आत्माका लाभ होता है ॥ ३९ ॥

दो प्रकारके राजा होते हैं, एक न्यायकारी दूसरा अन्यायकारी । जो कि, न्यायकारी होता है, वह कामको देखता है, अपनी खाली तारीफको नहीं सुनता है । और जो नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको मारी ओहदा देता है और जो नौकर कामको नहीं करता है केवल तिसका तारीफको ही करता है, तिसको वह पसंद नहीं करता है ; और न तिसको कोई ओहदा देता है, और जो अन्यायकारी है, वह कामको नहीं देखता है, किन्तु केवल अपनी तारीफको ही सुनता है । अन्यायकारी राजाको दोषका भारी कहा है, निर्दोष और धर्मात्मा राजा न्यायकारी होता है, जो सबको सम देखता है । तैम ईश्वर भी न्यायकारी है वह कर्मको ही देखता है, जो पुरुष उत्तम

कर्मको करता है अर्थात् वेदोक्त मार्गपर चलता है, उसीको मोक्ष देता है । जो वेदोक्त मार्गपर तो नहीं चलता है, केवल वेदोके और शास्त्रोंके लोकटिख-लावेके लिये पाठोको करता है या झूठे पाखण्डोंको ही करता है, उसको कदापि मोक्षको नहीं देता है ॥ ४० ॥

हे चित्तवृत्ते ! जबतक इस जीवको देहादिकोंमें अहता और गेहादिकोंमें ममता बनी है, तबतक इस जीवको कदापि सुख नहीं होता है । अहता ममताके त्याग करनेसे इसको सुख होता है सो अहता ममताका त्याग करना बड़ा ही कठिन है । इसीमें एक दृष्टांतको सुनाते हैं—

एक कालमें नारदजी पृथिवीपर पर्यटन करते हुए वैकुण्ठमें जा निकले । वहापर भगवान्को अकेले बैठे हुए देखकर नारदजीने भगवान्से कहा महाराज ! आपका वैकुण्ठ तो आजकल खाली पड़ा है कोई भी पुरुष यहाँपर नहीं दिखाता है, क्या वैकुण्ठमें भी कोई आनेकी इच्छा नहीं करता है । यहाँपर तो सर्व प्रकारका सुख है किसी प्रकारका भी यहापर दुःख नहीं है फिर क्यों वैकुण्ठ खाली है ? भगवान्ने कहा नारदजी ! यद्यपि यहाँपर सर्व प्रकारका सुख है तब भी वैकुण्ठमें आनेकी इच्छा किसीको भी नहीं होती है और हमारा भी मन अकेले नहीं लगता है, दूसरा कोई हो तब दो घडी तिससे बातचीत ही करै, कोई सेवा करनेवाला भी नहीं है हम क्या करै ? मर्त्यलोकनिवासी कोई भी वैकुण्ठमें आनेकी इच्छा नहीं करता है । नारदने कहा ये कैसी वार्ता है ? वैकुण्ठका तो नाम सुनकर सब लोक आपसे आप चले आवेगे । भगवान्ने कहा अच्छा तुम जाकर दो चार आदमियोंको लावो कुछ सेवाका तो काम चलै, फिर देखा जायगा । नारदजी बड़े उत्साहके साथ चले और आकर एक बूढ़ेसे नारदने कहा बाबा वैकुण्ठको चलोगे ? नारदजीकी बातको सुनकर वह बूढ़ा बड़ा विगडा और नारदजीसे कहने लगा, अभागे ! तूही वैकुण्ठमें जा, जिसका न कोई आगे है न पीछे है मैं क्यों जाऊ ? मेरे पुत्र और पोते और स्त्री धनादिक सब मौजूद हैं । जो निष्ठा हो सो वैकुण्ठमें जाय । नारदजी चुपचाप होकर वहासे चलपडे । आगे एक - और युवावस्थावालेसे नारदजीने

कहा, वैकुण्ठको चलोगे ? उसने नारदसे कहा, बाबा ! वैकुण्ठ तो बूढ़ोंके लिये बना है, जो कि, किसी कामलायक न हो वह वैकुण्ठमे जाय, हम तो सब काम करसक्तेहैं; हम क्यों वैकुण्ठमे जायें ? वहासे थोड़ी दूर जाकर फिर एक पुरुषसे नारदने कहा, वैकुण्ठको जावोगे ? उसने कहा किसी छले लगडेको खोजो, यहां घर तुम्हारा दाल नहीं लगती है । नारदजीने बहुतसे मनुष्योंको वैकुण्ठ जानेके लिये कहा परन्तु किसीने भी कबूल न किया । तब नारदजीने एक वृद्ध साहूकारका तिलक छापे लगायकर दूकानमे बैठे हुये देखा । नारदजीने अपने मनमें विचार किया यह भगवान्का भक्त दीखता है, यह अवश्य ही वैकुण्ठको चलेगा और जो यह एक भी चल्दे तब हमारी भी बात रहजाय, क्योंकि हम भगवान्से कह आये हैं हम किसीको लवेंगे और भगवान्को भी सेवा करनेसे आराम मिलजाय । नारदजी तिस सेठके पास जाकर बैठगये और सीताराम २ कारके तिस सेठके कानमें नारदजीने कहा, सेठजी ! संसारका सुख तो आपने सब देख ही लिया है, अब चलकर कुछ काल वैकुण्ठके सुखको भोगो । सेठने कहा, महाराज ! मेरी भी यही सलाह है परन्तु अभी लडका सयाना नहीं है, यह जरा सयाना होजाय और दूकानके कामकाजको संभाल ले तब चल्गा, आप कुछ दिन पीछे फिर आना । नारदजी चले गये और कुछ दिन पीछे फिर उसके पास आये और उससे कहने लगे, अब तो तुम्हारा लडका सयाना होगया है अब चलो । उसने कहा, अभी इसके संतति नहीं हुई है इसके पुत्र हो ले तब चल्गा नारदजी चले आये । फिर कुछ कालके पीछे तिस सेठसे जाकर कहने लगे, अब तो चलो अब तो तुम्हारे पोता भी होगया है । सेठने कहा महाराज ! अभी इसकी शादी नहीं हुई है इसके विवाहको देखकर चल्गा । नारदजी फिर कुछ कालके पीछे आये और सेठके लिये पूछा कि, सेठ कहाँ है ? तिसके लडकेने कहा, वे तो मरगये । नारदजीने ध्यान लगाकर देखा तो सर्प बनकर अपने द्रव्यपर बैठे थे । नारदजीने कहा, अब तो चलो । उसने कहा, अपने द्रव्यकी रक्षा करताहूँ अभी लडका द्रव्यकी रक्षालायक नहीं है, जब यह रक्षालायक होजायगा तब चल्गा । नारद कुछ दिन पीछे फिर गये तब

वह कुत्ता बनकर द्वारपर बैठा था, नारदजीने कहा अब तो चलो, तब तिसने कहा महाराज पतोहे अनजान हैं, मैं द्वारपर बैठकर चोर चकारकी रक्षा करता हूँ, नहीं तो चोर घरमेंसे मालको निकालकर लेजायँ । तब नारदजीने तिस सेठकी स्त्रीसे कहा, तुमही बैकुण्ठको चलो, तिसने कहा महाराज ! अभी दो चार काम घरके बाकी हैं, वह होजाय तब मैं चल्गी । फिर थोड़े दिनोंके पीछे नारदजी जब गये तब वह सेठानी भी भरकर कुतिया बनकर द्वारपर बैठी हुई और कुत्तोंसे खराब हो रही थी । नारदजीने कहा अब तो चलो । उसने कहा अभी तो मैं इसी जन्ममें बड़ी सुखी हूँ, फिर चलोंगी । नारदजी हारकर बैकुण्ठमें जाकर भगवान्से कहने लगे, महाराज ! आपने सत्य कहा है ससारी लोक ऐसी ममतामें फँसे हैं जो कोई भी बैकुण्ठमें आनेकी इच्छाको नहीं करता है । हे चित्तवृत्ते ! यह ससार असाररूप मी है और अति मलिन भी है, तब भी सासारिक लोक ऐसी मोह ममतामें फँसे हैं, जो इसके त्यागकी इच्छाको नहीं करते हैं ॥ ४१ ॥

चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु मलिन होती है उससे तो मनुष्यमात्रको घृणा होती है, फिर संसारी लोकोंको क्यों नहीं घृणा होती है ? विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! मोह ममतामें जो फँसे हैं उनको घृणा नहीं होती है । जैसे भगीनो मैलाके देखनेसे घृणा नहीं होती है, तैसे महामलिन घृणाका जो पात्र गृहस्थाश्रम है, जिसमें कि, नि यही अपने बाल बच्चोंके पुरोष मूत्रको उठाना और धोना पडता है, घरमें किसी जगहमें मूत्रा है, किसी जगहमें पुरोष किया है, कहीं सीड पडी है, कहीं थूक पडा है, कोई हाय २ करता है, कोई वाह २ करता है, ऐसे मलिन व्यवहारसे ससारियोंको घृणा नहीं फुलती है । क्योंकि, इनका स्वभाव ही वैसा होजाता है । इसीपर एक दृष्टांत कहते हैं:—

किसी नगरके बाहर एक महात्मा रहते थे; एक दिन राजाने जाकर उनसे प्रार्थना की, महाराज ! हमारे घरमें चलकर चरण धारिये जो वह पवित्र होजाय । प्रथम तो महात्माने नहीं माना। जब कि, राजाने बहुतसी विनती की तब राजाने

साथ चलपडे। जब राजाके घरमें जाकर बैठे, तब थोड़ी देरके पीछे महात्माने कहा हे राजन् ! हम चलैगे क्योंकि, तुम्हारे घरमें बड़ी दुर्गंधी आती है। राजाने कहा महाराज ! यहांपर दुर्गंधीका कौन काम है ? यहांपर तो बड़ी सफाई है । महात्माने कहा, राजन् ! तुमको वह मालूम नहीं देती है । क्योंकि तुम्हारा स्वभावभूत हो रहा है, चलो हम तुमको दिखावेगे । महात्मा राजाको साथ लेकर उस बाजारमें गये जिस बाजारमें कच्चे चामके कूपे बनते थे, वहांपर जाकर खडे होगये । राजाने कहा, महाराज ! यहांपर तो सडे हुए चर्मकी बड़ी दुर्गंधी आती है । महात्माने एक चर्मकारसे पूंछा क्यों भाई! यहांपर कुछ दुर्गंधी है ? उसने कहा यहा दुर्गंधी कोई नहीं है । महात्माने राजासे कहा देखो यहाके रहनेवाले कहते हैं यहांपर दुर्गंधी नहीं है फिर आपको कैसे आती है, राजाने कहा, इनका दीमाग गन्दा होगया इसीलिये इनको नहीं आती है । महात्माने कहा इसी तरह आपके यहांकी दुर्गंधी जो है सो आपको भी नहीं आती है क्योंकि, वह आपके दीमागमें घुस गई है । जो वस्तु स्वभावभूत होजाती है उससे घृणा नहीं होती है । सो गृहस्थाश्रमकी दुर्गंधी भी आपकी स्वभावभूत होगई है, इसलिये आपको उससे घृणा नहीं होती है । राजाने कहा ठीक है । हे चित्तवृत्ते ! गृहस्थाश्रम घृणा करनेका स्यान है, क्योंकि अनेक प्रकारके छेदा इसमें रात्रिदिन बनेही रहते हैं परन्तु मोह ममताके जालमें फंसे हुए जो पुरुष हैं, उनके अन्तःकरण अति मलीन होगये हैं, इसलिये उनको उससे घृणा नहीं होती है और जिनका अन्तःकरण सत्सग करके शुद्ध होगया है उनको घृणा तो होती है । वह बिगारी पकडे हुएकी तरह गृहस्थका काम करने हैं, खुदाईसे नहीं करते हैं ॥ ४२ ॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

किसी नगरके सुहृदोंमें एक धनी पुरुष अपने द्वारपर खड़ा था, इतनेमें एक भंगी मैलेकी दौरीको उठाये हुए उस रास्तासे निकला, तब धनिकाने उस भंगीसे कहा, अरे नीच ! इस मैलेको नगा मत लेजायाकर, क्योंकि इसको देखफर लोकोंके जी मिचलाने लगते हैं, किमी रूपडासे इसको ढककर

लेजाया कर । भंगीने कहा मैं कपडा कहांसे पाऊं जो इसको ढकूं । धनिकने एक सुपेद रूमाल तिसको देदिया और कहा इससे इसको ढककर लेजा । भंगीने उस रूमालको उस मैलेकी दौरीपर डालदिया और चलपडा । जब कि वह कुछ दूर निकलगया, तब वहांपर तीन पुरुष खडे थे । उन्होने जाना इस दौरीमें कोई अच्छी वस्तुको यह लिये जाता है । भंगीसे उन्होने कहा, इसमें क्या है हमको दिखला दे । भंगीने कहा आपके देखने लायक यह नहीं है, ऐसा कह करके भंगी चलपडा । तीनोंने भंगीका कहा न माना, तिसके पीछे २ चलपडे, आगे एक पुरुष खडा था, उसने उनसे कहा, क्यों मैलेके पीछे चले जाते हो ? इसमें मैला है, कोई उत्तम वस्तु नहीं है । एक तो तिसके कहनेपर पीछेको लौट गया, दो फिर भी न हटे किन्तु भंगीके पीछे पीछेही चलने लगे, कुछ दूर जाकर फिर भंगीने उनसे कहा इसमें कोई अच्छी वस्तु नहीं है किन्तु मेला है । तुम क्यों दिक्क होते हो ? दूसरा भी पीछेको हटा । तीसरेने कहा हम बिना देखे नहीं हटेगे हमको तुम दिखला देवो । जबकि भंगी एक तग गलीमें पहुँचा तब उससे कहा आवो देखो । ज्योही वह आगे देखनेको बढा और भंगीने मैलापरसे रूमालको उठाया और मैलेकी दुर्गंधी सब तिसके नासिका और मुखमें गई और वह भागा त्योही उस तग गलीमें वह गिरा और कई एक जगह तिसको चोटभी लगी । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टान्त है, अब इसको दार्ष्टान्तमे सुनो । ससारमें उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये तीन प्रकारके पुरुष हैं और स्त्रीका शरीररूपी एक मैलेकी दौरी है, ऊपरसे सुपेद चर्मरूपी रूमालसे ढकी हुई है, विपयी पुरुषरूपी भंगी तिसको लिये जाता है, तीनों पुरुष तिसको अच्छी वस्तु जानकर तिसके पीछे चले । आगे कोई महात्मा खडे थे उन्होने कहा इसके पीछे तुम मत खराब होवो । यह तो एक मैलेकी दौरी है, जोकि उत्तम था वह तो उनके वाक्यपर विश्वास करके पीछेको लौट गया, जो मध्यम था वह कुछ दूर जाकर लौटा, जो कनिष्ठ था वह भी लौटा तो सही, परंतु धक्के और चोटको खाकर शिर फटाकर अनेक प्रकारके क्लेशोको सह करके पश्चात् उसने भी तिसका त्याग किया और जो अति मूर्ख हैं वे इसीमें ही जन्मभर दुःख पाते रहते है, उनको कभी भी घृणा नहीं होती है ॥ ४३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! संसारमें जीवोंको जो ममता होरही है, येही दुःखका हेतु है । जिसको ममता नहीं है, वह घरमें रहकरके भी सुखी है । जिसको ममता नहीं है वह घरका त्याग करके भी दुःखी है । इसीमें एक दृष्टान्तको सुनाते हैं—

एक राजा बड़ा सत्संगी था, महात्माका संग सदैवकालही करता था और उसके नगरके बाहर वनमें एक महात्मा रहते थे, नित्यही उनके पास जाया करता था । एकदिन राजाने महात्मासे कहा, महाराज ! राजकाजमें बड़ा दुःख होता है, इस दुःखकी निवृत्तिका कोई उपाय आप कहिये । महात्माने कहा, राजन् ! तुम अपने राज्यको हमारे प्रति दान करदेवो । राजाने तुरतही जूट लेकर राज्यको महात्माके प्रति दान करदिया । महात्माने कहा, राजन् ! अब तुम्हारी इस राज्यमें कुछ ममता है या नहीं ? राजाने कहा हमारी अब इस राज्यमें कुछ भी ममता नहीं है चाहे बने चाहे बिगड़े । महात्माने कहा अब तुम हमारी तरफसे इसका इन्तजाम करो और जो कुछ तुम्हारा खर्च हो वह अपनी तनखाह जानकर लिया करो । नौकर वही धर्मात्मा कहाजाता है जो माणिकका काम अच्छा करता है, राजा अपनेको नौकर जानकर राजकाजको करने लगे । फिर राजासे एकदिन महात्माने पूछा राजन् ! राजकाजमें तुमको कुछ विक्षेप तो नहीं होता है ? राजाने कहा, हमारी अब राज्यमें ममता ही नहीं है, विक्षेप हमको क्यों हो ? महात्माने कहा ठीक है । हे चित्तवृत्ते ! जो पुरुष गृहमें रहकरके भी ममतासे रहित होकर गृहके कामोंको करता है उसको विक्षेप नहीं होता है परंतु ऐसा होना अति कठिन है ॥ ४४ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जबतक पुरुषका मन अतर आत्माकी ओर नहीं लगता है, तबतक पुरुष विषयोंकी तरफ दौडता है । मनको अंतर्मुख करनेके लिये शास्त्रकारोंने योगाभ्यास आदिक अनेक साधन कहे हैं । प्रथम मनको स्थूल पदार्थमें लगाना कहा है, स्थूलमें जब कि लगने लगता है तब धीरे २ सूक्ष्ममें जाकर उठर जाता है, बिना स्थूलमें लगानेसे सूक्ष्ममें नहीं लग सकता है । योगसूत्रमें लिखा है, जो वस्तु अपनेको अति प्यारी हो, उसीमें मनको लगाय किसी मनुष्यकी वा. देवताकी मूर्तिमें या सूर्य चन्द्रमा आदिक

तारोंमें निरोध करै बिना मनके निरोध करनेसे महान् सुखका लाभ नहीं होता है । केवल ज्ञानकी बातोंसे भी सुख नहीं होता है । अभ्यास और वैराग्यको ही मनके निरोधका साधन लिखा है । तात्पर्य यह है, मनका निरोध किसीतरहसे होसके उसी तरहसे सुखका हेतु है । इसीमें एक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:—

हे चित्तवृत्ते ! किसी नगरमें एक भर्गी राजाके घरमें नित्यही पाखाना कमानेको जाता था । दैवयोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेको गया तब रानीको उसने सिंहासनपर बैठीहुई देखलिया । देखतेही उसका मन रानीमें चला गया और किसी तरहसे वह अपने घरतक पहुँचा, आते ही वह गिर पडा और अपनी स्त्रीसे उसने कहा, अब मैं दोचार घडीमें मरूँगा । स्त्रीने हालजब पूछा तब उसने सब हाल बतादिया । स्त्रीने कहा तुम धीरज धरो, मैं इसका कोई उपाय करूँगी । स्त्रीने रानीसे जाकर कहा, हमारा पति मरता है इसका कोई इलाज तुम बतावो सब हाल पतिका रानीसे कह दिया । आगे रानी बड़ी बुद्धिमान् थी उसने कहा, तुम पतिसे जाकर कहो वह साधुका भेष बनाकर बाहर नदीके किनारेपर बैठकर रात्रिदिन हमारा ध्यान करै और किसीकी तरफ बिलकुल न देखे अतर मनमें भरेको ही देखे । थोड़े दिनके पीछे मैं उसी जगहमें उसके पास आऊँगी । उसने जाकर पतिसे रानीके मिलनेका उपाय कह दिया । वह साधुका भेष बनाकर नदीके किनारेपर पद्मासन लगाकर रानीका ध्यान करने लगा । कोई पुरुष कुछ आगे धरजाय चाहे कोई उठाकर लेजाय वहाँ किसीकी तरफ भी न देखै । थोड़े ही दिनमें नगरमें बड़ी चरचा फैल गई; एक महात्मा ऐसे योगिराज आये हैं जो आठों पहर अपनी समाधिमें ही स्थित रहते हैं । अब बहुतसे लोक उनके पास जाने लगे । राजातक खबर पहुँची । राजा भी एक दिन उनके दर्शनको गये, परन्तु उसने राजाकी तरफ भी आँख खोलकर नहीं देखा । ऐसी उसकी वृत्ति रानीके ध्यानमें जमी, जो बाहरके संसारका उसको कुछ भी खबर न रही और वृत्तिके एकाकार होजानेसे वृत्तिमें चेतनका प्रतिबिम्ब भी स्थिर होगया, तिस प्रतिबिम्बके स्थिर होजानेसे उसको अंतर आत्मसुखका लाभ होगया, तिस आत्मसुखके आगे विषय सुख

सब अति फीके और बेरस मालूम होते हैं । रानीने राजासे कहा, मेरेको हुक्म हो तो मैं भी उन महात्माका दर्शन कर आऊँ । राजाने कहा जाओ । रानी वहाँपर गई । कनात लगाई गई, चौगिरदा पहरा खडा होगया । रानीने समीप जाकर उनसे कहा, जरा आंखोंको खोलकर देखो मैं वही रानी हूँ जिसके मिलनेके लिये आपने इतना आडंबर किया है । उसने कहा, मेरेको अब वह रानी मिली है जिसके सामने तुम्हारी जैसी करोड़ों रानियें हाथ जोड़कर खड़ी हैं, अब तू चली जा । मैं महान् रानीके साथ जाकर मिलगया हूँ । आंख खोल करके भी उसने रानीको तरफ न देखा । रानी अपने घरको लौटकर चली आई । हे चित्तवृत्ते ! जितना भारी सुख है सो मनके निरोधमें ही है, और जितना भारी दुःख है सो मनके इतस्ततः स्वतन्त्र होकर अमण करनेमें ही है ॥ ४५ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और भी दृष्टांत तुमको मनुष्य जन्मपर सुनाते हैं:—

एक राजाके तीनसौ साठ रानी थीं और प्रत्येक रानीके पास राजा एक रात्रिको जाते थे, अर्थात् बरसकी तीनसौ साठ रात्रि होती हैं सो हिसाबसे तीन सौ साठ रातोंपर बटी हुई थीं । जिस रानीके घरमें राजाके आनेकी जिस दिन पारी होती थी वह रानी उस दिन अपने घरमें बड़ी तैयारी करती थी, क्योंकि फिर सालभर पीछे तिसकी पारी पडती थी । जिस दिन सबसे छोटी रानीको पारी पडी तिसने अपने घरमें बहुतसी तैयारी करी । जब कि, चार पांच घडी रात्रि व्यतीत होगई और राजाको आनेमें देर होगई क्योंकि, राजाको उस दिन कोई काम पेश आगया । राजा उस काममें रुक गये और इधर रानीको नींदने सताया तब रानीने अपनी लौंडीसे कहा, मैं तो सो जाती हूँ, क्योंकि, मेरेको नींदने बहुत सताया है और तू जागती रह, जब राजा साहिब आवें तब हमको जगा देना । लौंडीसे ऐसे कहकर रानी तो सोगई । अर्द्ध रात्रिके बीत जानेपर राजा वहाँपर गये और रानीको सोती देखकर बड़े क्रुद्ध हुए । लौंडी राजाके सामने कुछ बोल न सकी किन्तु रानीको न जगासकी । राजा भी थके थे वह भी जाकर सोगये । सबरे राजा उठकर अपने कामपर चले गये । पीछे जब कि, रानीकी नींद खुली तब उसने लौंडीसे

पूछा राजा साहिब आये थे ? लौंडीने कहा हा, आये थे । तब रानीने कहा, हमको तुमने क्यों नहीं जगाया ? लौंडीने कहा, राजाके क्रोधमें आगे में होश बिगड गये थे. कैसे जगाती ? तब रानी रोने लगी और रानीने कहा, फिर कब तीन सौ साठ रात्रि बीतेंगी । जो राजा फिर मिलेगा । ऐसे कह कर पश्चात्ताप करके रोने लगी । हे चित्तवृत्त ! यह तो दृष्टान्त है । अब इसको दार्ष्टान्तमें लेना । चौरासी लाख योनियोंसे फिरता २ यह जीव मनुष्ययोनिमें आता है, इस मनुष्ययोनिमें भी यदि इसको अपने स्वरूपका बोध न हुआ तब फिर कब चौरासी लाख योनि व्यतीत होंगी जो इसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा ? इस प्रकारका इसको भी अन्तमें पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा ॥२६॥

हे चित्तवृत्ते ! इसी विषयमें हम तुमको एक और दृष्टान्त सुनाते हैं:—

एक राजाने किसी दूसरे राजापर चढ़ाई की और उस राजाके देशको इस राजाने जीत लिया । कुछ कालतक राजा उसी देशमें रहा, जब राजाने अपने देशमें आनेकी तैयारी की तब अपने घरमें सब रानियोंके प्रति राजाने लिखा जिस २ वस्तुकी जिसको जरूरत हो वह लिखे उसके लिये मैं वही वस्तु खरीद करके लेता आऊंगा । सब रानियोंने उस देशके भूषण वस्त्रोंके लानेके लिये राजाको लिखा, जो कि, सबसे छोटी रानी थी उसने एक सादे कागज पर एकका अंक लिखकर लिफाफामें बन्द करके राजाकी तरफ खतको भेज दिया । राजाने सबके खतोंको बाँचकर जिसने जो २ वस्तु लिखी थी उसके लिये मंगाकर सन्दूकोंमें बन्द करके रखवादी । जब कि, तिस छोटी रानीके खतको बाँचा तब उसमें कुछ भी नहीं लिखा था । केवल एकका एक अंक ही लिखा था । राजाने वजीरसे कहा, यह रानी कैसी मूर्ख है ? इसने खाली अंक लिखकर भेज दिया है । अब इसका क्या मतलब है आप समझाइये । वजीरने कहा, सब रानियोंमें यही रानी चतुर है, इस एक अंक लिखनेका यह मतलब है हमको एक तुम्हारी ही चाहना है और किसी वस्तुकी चाहना नहीं है, राजाने कहा ठीक है । जब राजा अपने नगरमें आये तब जो २ वस्तु जिसके लिये लाये थे सो सो वस्तु उसके घरमें भिजवादी और आप राजासाहिब उस छोटी रानीके घरमें चले गये । राजाके वहापर जानेसे बाकीकी सब विभूति राजाके

द्वितीय किरण ।

साथही तिस रानीके घरमे चली गई । हे चित्तवृत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दार्ष्टान्तमें घटाओ । संसारमें जितनेक सकामी पुरुष ईश्वरकी भक्ति उपासनाको जिस २ फलके लिये करते हैं उसी २ फलको पाते हैं, उससे अधिकको नहीं पाते हैं । जो कामनासे रहित होकर केवल तिसी एक ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये उपासनाको करता है, वही तिस निर्गुण ब्रह्मको प्राप्त होता है, वही जन्ममरणरूपी संसारचक्रसे छूट जाता है । दूसरा किसी प्रकारसे भी तिस चक्रसे नहीं छूट सक्ता है । इस लिये मुक्तिकी इच्छावालेको उचित है कि, निष्काम होकर तिस एकहीकी उपासना करै ॥ ४७ ॥

विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! एक और दृष्टांतको तुम सुनो:—
 किसी नगरमें दो पुरुष परस्पर मित्र थे और इकट्ठे भी रहते थे और दोनोंको यह बीमारी थी जो जहांपर एक आदमी खडा हो वहांपर दो दिखाते थे, अर्थात् एक २ के दो २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोंने परस्पर विचार किया चलकर किसी वैद्यके पास इस बीमारीका इलाज कराना चाहिये । दोनों एक वैद्यके पास गये और वैद्यसे अपना हाल कहा, हमको एकके दो २ दीखते हैं इम इसकी दवाई करैगे । वैद्यने उनसे कहा, हमको तो एकके तीन दीखते हैं । इन्होंने कहा, कैसा भी हो हम तुम्हारी ही दवा करैगे । दोनोंमेंसे एकने विचार किया हमसे तो वैद्यको अधिक बीमारी है यह हमारी क्या दवाई करैगा ? वह तो ऐसा विचार करके अपने घरको चला गया । दूसरा जो अनजान था वह तिस वैद्यके पास बैठ गया और तिसकी दवाईको करने लगा थोडे दिनमे तिसको भी एक २ के तीन २ दिखने लगगये । यह तो दृष्टांत है, अब दार्ष्टान्तमे इसको सुनो । इस जीवको ईश्वर जीवका भेदरूपी त्रैत तो प्रहले ही दिखाता था । तिस त्रैतके दूर करनेके लिये यह गुरुके पास गया आगे गुरु ऐसा मिला जो उसने त्रैत लगा दिया । एक हम हैं दूसरा ईश्वर है तीसरी प्रकृति याने माया है और तीनों नित्य हैं, अथवा तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं सो तीनों ईश्वर है, इन तीनोंकी उपासनासे मुक्ति होती है । इसतरहका त्रैत लगा दिया । इसके तरहके जो गुरु हैं उनके उपदेशसे मोक्ष कदापि नहीं होसक्ता है । मोक्ष उसी गुरुके उपदेशसे होसक्ता है जो भ्रूकामवादी है ॥ ४८ ॥

हे चित्तवृत्ते ! जिस कालमें यह जीव माताके गर्भमें आता है और फिर पिताके वीर्यसे और माताके रक्तसे जिस कालमें इसका शरीर बनकर गर्भमें तैयार होजाता है उस कालमें जीवको अपने पूर्वके अनेक जन्म याद आते हैं और अनेक जन्मोंमें जो दुःख सुख भोगे हैं वह भी सब इसको याद आते हैं, तब यह ईश्वरसे प्रार्थना करता है, अबकी बार जो मैं जन्मको लेऊंगा, तब अवश्य ही आपकी उपासना करूंगा ऐसा वार २ कहता है । जब कि, जन्म लेता है तब माया मोहमें पडकर तिस करारको भूल जाता है, इसीसे फिर जन्म मरणको प्राप्त होता है और वह पुरुष भी नहीं होसक्ता है । पुरुष वही कहाता है जो अपने वचनकी पालना करता है । हे चित्तवृत्ते ! इसीमें हम तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं:—

किसी नगरके बाहर जगलमें एक महात्मा रहते थे और नित्य ही वह दोप-हरके समय नगरमें भिक्षा मांगनेको जाते थे । रास्तेमें एक वेश्याका मकान था जब कि वह महात्मा उस मकानके समीप जाते थे तब वह वेश्या उनसे नित्यही पूंछती थी आप स्त्री है या पुरुष है ? तब महात्मा कहते थे इसका जबाब हम फिर देंगे । इसी तरह नित्यही उनकी आपसमें बातें होती थीं। कई बरस इसी तरह कहते सुनते बीत गये । एक दिन उन महात्माका देहान्त होगया । जब नगरमें उनके मरनेकी खबर फैली तब बहुतसे लोग गये । उस वेश्याने जब सुना वह भी गई। आगे वहांपर लोकोकी बडी भीड लगी थी। उस वेश्याने कहा दूटो, हमको भी दर्शन कर लेने देवो । लोक जब थोडासा हटगये तब वेश्याने उनका नाम लेकर पुकारा और कहा तुम स्त्री हो या पुरुष हो ? जब कि तीन बार वेश्याने कहा, महात्मा सत्यवादी होते हैं, आपने कहा था हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर फिर देगे सो बिना उत्तर दिये क्यों मरगये ? यदि हमारे प्रश्नका उत्तर न देकर मरजावोगे तब असत्यवादी ठहरोगे । जब कि, वेश्याने ऐसा कहा तब महात्मा उठकर कहने लगे हम पुरुष हैं हम पुरुष हैं । वेश्याने कहा, आप तो पहलेसे ही जानते थे हम पुरुष हैं तब फिर आपने क्यों न कह दिया । महात्माने कहा बाहरके चिह्नोंसे आदमी पुरुष नहीं होसक्ता है, किंतु जो अपने वचनकी पालना करता है वह पुरुष कहा जाता है । हम तुमसे तभी कह देते जो, हम पुरुष हैं और बीचमें किसी तरहका विघ्न

पडजाता तब हम कैसे पुरुष होसके ? अब तो हमारी आयु समाप्त होचुकी है और किसी तरहका अब विघ्न भी नहीं पडसक्ता है । इसलिये अब हम कह सकते है जो हम पुरुष हैं। वेश्याने कहा ठीक है । हे चित्तवृत्ते ! जो आदमी तित्त गर्भवाले करारको परमार्थदृष्टिसे ही पूरा करता है, वही पुरुष है । ऊपरके चिह्नोसे परमार्थिक पुरुष नहीं होसक्ता है ॥ ४९ ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और लौकिक दृष्टातको तुम सुनो:-

दक्षिण देशमें वंजरा और गरुडगंगा नदीका जहाँपर संगम होता है, वहाँपर देवशर्मा नाम करके एक ब्राह्मण रहता था और तिसकी स्त्रीका नाम सुधर्मा था, तिस ब्राह्मणके घरमें लडका कोई नहीं था । पुत्रकी उत्पत्तिके लिये वह ब्राह्मण वंजरा और गरुडगंगाकी उपासना करता रहा । जब उपासना करते २ तिसकी उमर साठ बरससे ऊपरकी होगई, तब तिसके घरमें एक अंधा लडका पैदा हुआ । उस अन्धे लडकेके भी पैदा होनेसे तिसको बडा हर्ष हुआ और तिसको बडे लाड प्यारसे वह पालन करने लगा । जब कि, वह लडका पाँच बरसका हुआ तब तिसका यज्ञोपवीत उसने बड़ी धूमधामसे कराया और फिर तिसको विद्या पढाने लगा, थोडेही बरसोंमें वह अंधा पढ-कर पंडित होगया । एक दिन वह अंधा अपने आसनपर बैठा था और बाहरसे तिसका पिता आकर जब तिसके पास बैठा तब अन्धेने बापसे पूंछा हे पिता ! पुरुष किम पाप करके अन्धा होजाता है ? पिताने कहा, हे पुत्र ! जो पुरुष पूर्व जन्ममें स्त्रियोंकी चोरी करता है वह अन्य जन्ममें अंधा होता है । अन्धेने कहा, हे पिता ! यह वार्ता नहीं है, क्योंकि, शास्त्रकारोंने ऐसा नियम कतदिया है:-“कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते” कारणके जो गुण होते हैं वही कार्यके गुणोंको भी आरंभ करते हैं अर्थात् कारणके गुण ही कार्यमें भी आजाते हैं । हे पिता ! मैं जानता हूँ जिस हेतुसे तुम अन्धे हो इसी हेतुसे मैं भी तुम्हारे घरमें अंधा पैदा हुआ हूँ । पुत्रकी वार्ताको सुनकर पिताने क्रोधसे कहा, मे कैसे अंधा हूँ ? पुत्रने कहा, हे पिता ! साक्षात् मुक्तिको देनेवाला जो वंजरा और गरुडगंगाका संगम है उसकी उपासना तुमने पुत्रकी कामना करके की है, इसीसे मैं जानता हूँ जो तुम ही अन्धे हो मैं अन्धा नहीं हूँ । हे पिता !

ब्रह्मात्मको धारण करके भी तुमने एक मच्छरको ही मारा इसीसे तुमही अन्ध हो । हे पिता ! वेद शास्त्रको पढ़कर एक मूत्रके कीटकी जो इच्छा करता है, वही पुरुष अन्धा कहा जाता है । जैसे और मूत्रसे अनेक कृमि उत्पन्न होते हैं, तैसे पुत्र भी एक मूत्रका कृमि है । हे पिता ! जिस पुत्रकी उत्पत्तिके लिये तुमने जन्मभर तप किया है वह पुत्र तो बिनाही तपके सूकर कूकरादिकोंके भी उत्पन्न होते हैं । हे पिता ! पुत्र करके किसीकी भी गति न हुई है न होवेगी । अपने पुरुषार्थसे ही गति होती है । जो पुरुष संसारबन्धनसे छूटना चाहता है वह पुत्रोंका भी त्याग करदेता है । यदि पुत्रसे गति होती तब वह पुत्रोंका त्याग क्यों करदेता और बहुतेसे राजोने भी आत्मसुखलाभके लिये तप किया है इसीसे साबित होता है कि पुत्रसे गति नहीं होती है, जो पुत्रसे ही गति मानता है वही अंधा है ॥

य आत्मज्योतिरुत्मृज्योदयास्तमयवर्जितम् ।

उदयास्तमयं ज्योतिः सेवते सोऽन्ध ईर्यते ॥ १ ॥

जो पुरुष अन्तरहृदयमे ज्योतिमय नित्य आत्माका त्याग करके उत्पत्ति नाशवाली सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतियोंकी उपासना करता है वही अन्धा है, नेत्रहीन पुरुष अंधा नहीं है ॥ १ ॥

हे पिता ! जैसे ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध है तैसे जीव भी नित्य शुद्ध है और यह जितना जगत् दीखता है सो सब भ्रममात्र है, जैसे मरुभूमिमें जो जल दीखता है, वह जल मरुभूमिरूप ही है । तैसे यह जगत् भी भ्रमकरके अधिष्ठान चेतनमे दीखता है सो अधिष्ठानरूप ही है । हे पिता ! यह जो पुरुष कहता है वह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, गृह है, ये सब वासनाकरके ही दीखता है, वासना करके ही यह जीव बंधको प्राप्त होता है, वासनाका त्याग करनेसे परमानन्द प्राप्त होजाता है और वासना करके ही यह अज्ञानी बना है वासनाके त्याग करदेनेसे ज्ञानवान् बनजाता है ।

हे पिता ! मच्चिदानदरूप ब्रह्मको ज्ञानवान् पुरुष ज्ञानरूपी चक्षु करके देखने हैं, अज्ञानी जीव तिसको ज्ञानरूपी चक्षु करके नहीं देखसक्ते हैं । वह

अज्ञानी पुरुष ही अन्धे कहे जाते हैं, जैसे अन्धा पुरुष सूर्यको नहीं देखसक्ता है, तैसे भेदवादी पुरुष भी सर्वत्र आत्माको नहीं देख सकता है । हे पिता ! तुम भेदबुद्धिको दूर करके सर्वत्र एक ही आत्माको देखो । पुत्रके उपदेश करके देवशर्मा भी आत्मज्ञानको प्राप्त हुआ ॥ १० ॥

हे चित्तवृत्ते ! एक और निर्मोही राजाका इतिहास तुमको सुनाते हैं.—

किसी नगरमें एक धर्मात्मा निर्मोही नाम करके राजा रहता था । तिस राजाका पुत्र एक दिन वनमें शिकार खेलनेको गया, वहापर तिसको बड़ी प्यास लगी, तब वह वनमें एक ऋषिके आश्रमपर गया । ऋषिने तिसको जल पिलाकर पूछा, तुम किसके लडके हो ? उसने कहा मैं निर्मोही राजाका लडका हूँ । ऋषि तिसकी वार्ताको सुनकर कहने लगा, निर्मोही और राजा ये दो बात एकमें कैसे हो सकती हैं ? जो निर्मोही होगा वह राजा नहीं होगा जो राजा होगा वह निर्मोही नहीं होगा । राजाके लडकेने ऋषिसे कहा, यदि स्वपको विश्वास न हो तो जाकर मालूम करलीजिये, याने परीक्षा करलीजिये । ऋषिने राजपुत्रसे कहा हमारे आनेतक तुम इसी हमारे आश्रमपर त्रैठो मैं जाकर परीक्षा करके आता हूँ । ऋषि जब राजमवनमें गये तब द्वारपर राजाकी लौडी खडी थी उससे ऋषिने जाकर कहा ।

सवाल ऋषिका दोहा ।

तू सुन चेरी श्यामकी, बात सुनावों तोहिं ।

कुँवर विनास्यो सिंहने, आसन परयो मोहिं ॥ १ ॥

जवाब लौडीका दोहा ।

ना मैं चेरी श्यामकी, नहिं कोइ मेरा श्याम ।

प्रारब्ध वश मेल यह, सुनो ऋषी अभिराम ॥ २ ॥

ऋषि लडकेकी स्त्रीसे कहते हैं—

दोहा ।

तू सुन चातुर सुन्दरी, अवला यौवनवान ।

देवीवाहन दुलमल्यो, तुम्हरो श्रीभगवान ॥ ३ ॥

छडकेकी स्त्री कहती है:—

दोहा ।

तपिया पूरब जन्मकी, क्या जानत हैं लोक ।

मिले कर्मवश आन हम, अब विधि कीन वियोग ॥ ४ ॥

फिर ऋषिने कुँवरकी मातासे कहा:—

दोहा ।

रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मृगराज ।

हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतकके काज ॥ ५ ॥

ऋषिसे रानी कहती है:—

दोहा ।

एक वृक्ष ढालें घनी, पंछी बैठे आय ।

यह पाटी पीरी भई, उड उड चहुँ दिशि जाय ॥ ६ ॥

ऋषिने राजासे कहा:—

दोहा ।

राजा मुखतैं राम कहु, पल पल जात घडी ।

सुत खायो मृगराजने, मेरे पास खडी ॥ ७ ॥

ऋषिसे राजा कहते हैं:—

दोहा ।

तपिया तप क्यों छांडियो, इहाँ पलक नहिं सोग ।

वासा जगत् सरायका, सभी मुसाफिर लोग ॥ ८ ॥

जब कि ऋषिने सबके उत्तरोको सुना तब ऋषिको विश्वास होगया जो ठीक राजा निर्मोही है, बल्कि राजाका घरभर निर्मोही है । ऋषिने आकर अपने आश्रमपर राजपुत्रसे कहा कि आपने सत्य कहा था । हमने परीक्षा करली, ठीक राजा निर्मोही है । विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! जो इस प्रकार निर्मोही है वही ज्ञानी है और वही जीवन्मुक्त है ॥ ५१ ॥

चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! आपने कहा है, कि सम्पूर्ण जगत्में एक ही चेतन आत्मा व्यापक है और वही आत्मा सम्पूर्ण शरीरमें भी व्यापक है । जब कि, एक ही आत्मा ऊच नीच सर्व शरीरमें व्यापक है तब फिर एक जीवको सुख होनेसे सर्व जीवोंको सुख होना चाहिये, एकको दुःख होनेसे सर्व जीवोंको दुःख होना चाहिये, एकके मृत्यु होजानेसे सर्वकी मृत्यु हो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सर्वका जन्म होना चाहिये । विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! जैसे एकही आकाश अनेक घटादिकोंमें व्यापक होकर स्थित है, एक घटके फूट जानेसे सब घट नहीं फूट जाते हैं, एक घटके उत्पन्न होनेसे सब घट उत्पन्न नहीं होजाते क्योंकि घटादिरूप उपाधियें सब भिन्न २ और फिर घटादिकोंकी उत्पत्ति नाशसे आकाशकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता है । क्योंकि आकाश व्यापक है, उपाधियें परिच्छिन्न हैं । तैसे एक शरीरकी उत्पत्ति नाशसे भी आत्माकी उत्पत्ति नाश नहीं होता है । क्योंकि आत्मा व्यापक है निरवयव है; उपाधियें सर्व सावयव हैं और परिच्छिन्न हैं । जैसे किसी एक घटमें धूम या धूलि आदिकोके भरजानेसे सर्व घटोंमें धूमादिक नहीं भर जाते हैं तैसे एक शरीरमें सुख या दुःख होनेसे सर्व शरीरोंमें नहीं होते हैं ॥ ५२ ॥

और दृष्टांतको कहते हैं:—

एक शरीरके सम्पूर्ण हस्त पादादिकोंमें एक ही आत्मा नख शिखतक व्यापक है, परन्तु पादमें दुःख होनेसे हाथमें दुःख नहीं होता है । हाथमें सुख होनेसे पादमें सुख नहीं होता है । एक ही कालमें पादमें शीतलता और शिरमें उष्णता होनेसे सर्व शरीरमें उष्णता शीतलता नहीं होती है । आत्मा तो सम्पूर्ण शरीरके अवयवोंमें एक ही है, फिर सुख दुःखादिक क्यों नहीं बराबर ही एक कालमें होते हैं ? जैसे कि एक शरीर सम्पूर्ण अवयवोंमें एक आत्माके होने पर भी, सुख दुःखादि बराबर सर्व अवयवोंमें नहीं होते हैं, तैसे ही ब्रह्माड भरके शरीरोंमें एक आत्माके होनेसे भी सर्व शरीरोंमें सुख दुःख बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण शरीर एकही विराटके अवयव है, विराटके शरीरमें आत्मा एकही है । हे चित्तवृत्ते ! एक आत्माके होनेमें कोई भी सन्देह नहीं है और नाना आत्माके माननेमें श्रुतियुक्तिका भी विरोध आता है। प्रथम श्रुतियोंके विरोधको दिखाते हैं:—

कैवल्योपनिषद्:-

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्त-
ममृतं ब्रह्मयोनिम् ॥ तमादिमध्यान्तविहीन-
मेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् ॥ १ ॥

वह ब्रह्म अचिन्त्य है, अनन्तरूप है, कल्याणरूप है, शांतस्वरूप है, अमृत है, मायाका भी कारण है और आदि मध्य अन्तसे भी हीन है, विभु है, एक है, आनन्दरूप है, अद्भुत है ॥ १ ॥

यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् ।

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत् ॥ २ ॥

जो ब्रह्म सर्व प्राणियोंका आत्मा है, सपूर्ण विश्वका आधार है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है नित्य है सो तूही है और तू वही है ॥ २ ॥

श्वेताश्वतरोपनिषद्:-

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥१॥

एक ही चेतनदेव सम्पूर्ण भूतोमे छिपाहुआ है, सर्वमे व्यापक है, सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोंका भी अध्यक्ष याने ज्ञाता है, सम्पूर्ण भूतोंके निवासका स्थान भी है, साक्षी है, चेतन है, द्वैतसे रहित है, निर्गुण है ॥ १ ॥

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ २ ॥

न यह आत्मा स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है किन्तु जिस २ शरीरको धारण करता है तिसी २ के साथ जुड जाता है ॥ २ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥ ३ ॥

सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंका प्रकाशक है और आप सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित सर्वका स्वामी है, सर्वका प्रेरक है और सर्वका आश्रय भी है ॥ ३ ॥

‘अपाणिपादो ज्वनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्य-
कर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरश्र्यं
पुरुषम् महान्तम् ॥ ४ ॥

जिस चेतनके न हाथ हैं न पाद हैं, फिर भी बड़े वेगसे चलता है और प्रहण करता है । बिनाही नेत्रोंके देखता है, बिनाही कानोंके सुनता है और जानने योग्य पदार्थोंको जानता है । तिसको जाननेवाला दूसरा कोई भी नहीं है, तिसको आदिपुरुष और सबसे महान् कहते हैं ॥ ४ ॥

इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जीव ब्रह्मके अभेदको और चेतनका एकताको कथन करते हैं और युक्तियोंसे भी एक ही चेतन साबित होता है ॥

चित्तवृत्ति कहती है—हे विवेकाश्रम ! जीव ईश्वरके स्वरूपको भिन्न २ करके तू मेरे प्रति कह, फिर उनकी एकताको कहो । विवेकाश्रम कहते हैं—हे चित्तवृत्ते ! जीव ईश्वरके स्वरूपको मैं आपको मतभेदसे दिखाता हूँ ! प्रकटार्थ-कारका यह मत है कि, अनादि अनिर्वचनीय जो माया है, तिस मायामें जो चेतनका प्रतिबिम्ब है, तिस प्रतिबिम्बका नाम तो ईश्वर है और तिस मायाका आवरण विक्षेप शक्तिवाला जो अविद्यानामवाला भाग है तिस अविद्याके जो अन्तःकरणरूपी अनेक प्रदेश हैं उनमें जो चेतनका प्रतिबिम्ब है, उसका नाम जीव है ।

प्रश्न—वह माया चेतनसे भिन्न है या अभिन्न है ? ।

उत्तर--वह माया चेतनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न माननेमें “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होगा और अभिन्न भी नहीं कहसकते हैं । क्योंकि जब चेतनका अभेद कदापि नहीं होसकता है और माया चेतनका भेदाऽभेद भी नहीं कह सकते हैं अर्थात् चेतनसे माया भिन्न भी है और अभिन्न भी है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं मिलता है और जब चेतनका भेदाऽभेद किसी प्रकारसे भी नहीं होसकता है । क्योंकि उभय विरोधी धर्म एकमें नहीं रहसकते हैं, इस लिये भेदाऽभेद भी नहीं बनता है । फिर यदि मायाको सत्य माना

जाय तब अद्वैत श्रुतिसे विरोध आता है । यदि अनत्य माना जाय तब मायाको जड जगत्की कारणता नहीं बनती है । क्योंकि असत्से जगत्की उत्पत्ति नहीं होसकती है । असत् नाम अभावका है, यदि अभावसे उत्पत्ति मानी जायगी तब घटरूपी कार्यके लिये मृत्तिकाकी कुछ भी जरूरत नहीं होगी, सर्वत्रही सब वस्तुओंका अभाव विद्यमान है, सर्वत्र सब पदार्थोंकी उत्पत्ति होनी चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं, इस लिये अभावसे भाव पदार्थकी उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये माया असत्यरूप भी नहीं है और सत्असत् उभयरूप भी माया नहीं है । क्योंकि विरोधी धर्म दो एकमें रह सक्ते हैं और माया सावयव या निरवयव भी नहीं है । यदि मायाको सावयव माना जायगा तब तिसका कोई दूसरा कारण मानना पडेगा क्योंकि जो सावयव पदार्थ होता है वह जरूर किसी कारणसे उत्पन्न होता है । इसलिये तिसको सावयव भी नहीं मान सक्ते हैं, कारण अनवस्था आदिक दोष आवेंगे और मायाको निरवयव भी नहीं मान सक्ते हैं; क्योंकि निरवयव मायासे सावयव जगत्की उत्पत्ति भी नहीं होसकती है, और सावयव निरवयव दोनों रूप एकमें रह भी नहीं सक्ते हैं । जो सावयव होगा, वह कदापि निरवयव नहीं होसकता है। जो निरवयव होगा वह कदापि सावयव नहीं होसकता है । एक तो दोनों परस्पर विरोधी हैं, दूसरा इसमें कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता है इस वास्ते मायाका स्वरूप अनिर्वचनीय है । अनिर्वचनीयका अर्थ क्या है ? जिसका कुछ भी निर्वचन नहीं होसकता प्रथम तो मायाके कार्यका ही कोई भी निर्वचन नहीं कर सक्ता है । देखो अतिछोटेसे बटके बीजमें इतना बड़ा बटका वृक्ष रहता है और भावरूप करकेही रहता है, अभावरूप करके नहीं रहता । 'क्योंकि अभावकी उत्पत्ति नहीं होती है फिर हम पूछते हैं इतने छोटेसे बीजमें अनेक शाखा और पत्तोंके सहित इतना बड़ा वृक्ष किसतरहसे रह सक्ता है, इसको आप किसी तरहसे भी नहीं बतला सक्ते हैं । फिर हरएक बीजमें कारणरूप करके कार्य विद्यमान है, कार्योंमें अनेक प्रकारकी रचना-हमको दिखाई पडती है कारणमें वह नहीं दिखाती है और सूक्ष्मरूप तिसमें तिसकी सब रचना विद्यमान है । तिस छोटेसे बीजमें इतनी बड़ी रचना क्योंकर रह सक्ती है ?

इसका निर्वचन भी तुमसे कुछ नहीं बनेगा, तब अर्थसे ही कार्य भी अनिर्वचनीय सिद्ध होगा । जिसका कार्य अनिर्वचनीय है, तिमका कारण तो अर्थसेही अनिर्वचनीय सिद्ध हुआ और साइन्सवालोंने पैसष्ट तत्त्व माने हैं, जल और अग्निको इन्होंने स्वतन्त्र तत्त्व नहीं माना है, किन्तु और तत्त्वोंके संयोगसे इनकी उत्पत्ति उन्होंने मानी है । दो प्रकारकी भिन्न २ वायुके मिलनेसे जलकी उत्पत्ति इन्होंने मानी है । हम पूछते हैं उन दो प्रकारके वायुओंमें प्रथम जल था या नहीं था । यदि कहो था तब पृथक् तत्त्व जल सावित होगया । यदि कहो उन दो प्रकारके वायुओंमें जल नहीं था तब उनके संयोगसे भी जल उत्पन्न नहीं होसकता है । क्योंकि अभावसे भावकी उत्पत्ति कदापि नहीं होसती है । और जलका निर्वचन भी कुछ न हुआ इसी प्रकार एक एक वृक्षके पत्तेका निर्वचन करोगे तब सैकड़ों बरसों तक भी नहीं होगा और न पूर्व हुआ है । जिस मायाके अनन्त कार्योंमेंसे एक कार्यका भी निर्वचन नहीं होसकता है, उस कारणरूप मायाका कौन निर्वचन करसकता है ? फिर जब पुरुष सो जाता है, तब इसको अपने भीतर बडे २ देश, पर्वत, नदियें हाथी, घोड़े आदिक दिखाते हैं और जिस नाडीमें मनके जानेसे स्वप्न जाता है वह नाडी बालसे भी महीन है, उसमें सुईके नोककी भी जगह नहीं है और हाथी घोड़े आदिकोंका कोई कारण भी बीजादिक वहांपर नहीं है और जाग्रत होनेपर सब हाथी घोड़े आदिक लय भी होजाते हैं । अब इसका निर्वचन कौन करसकता है जो कहासे वह सब पैदा होते हैं और कहांपर लय होजाते हैं । जैसे स्वप्नके पदार्थोंका और उनके कारणका कुछ निर्वचन नहीं हो सकता है, तैसे माया और मायाके कार्यका भी कुछ निर्वचन नहीं होसकता है । तब दोनो ही अनिर्वचनीय सावित हुए, उस अनिर्वचनीय मायामें जो कि चेतनका प्रतिबिम्ब है, उसका नाम तो ईश्वर है और मायामें आवरण विक्षेप शक्तिवाले जो कि परिच्छिन्न अनन्त प्रदेश हैं उन्हीका नाम अविद्या है । उन प्रदेशोंमें जो कि चेतनका प्रतिबिम्ब है उसका नाम जीव है, प्रदेशोंके अनन्त होनेसे जीव भी अनन्त हैं । इस मतमें एकही अनिर्वचनीय प्रकृतिमें

प्रदेश प्रदेशरूपको कल्पना करके जीव और ईश्वरको प्रतिबिम्बरूप करके माना है ॥ १ ॥

अब तत्त्वविवेक करके मतको दिखलाते हैं:—

त्रिगुणात्मिका एक मूलप्रकृति है । तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम ही मूलप्रकृति है । वह मूलप्रकृति आप ही माया और अविद्या रूपोंवाली हो जाती है । और एकही चेतनको जीव ईश्वर दो रूपोवाला भी कर देती है । शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान वही प्रकृति माया कहलाती है । और मलिन सत्त्वप्रधान वही प्रकृति अविद्या कहलाती है तिस मायामें जो कि चेतनका प्रतिबिम्ब पडता है तिसका नाम ईश्वर है और अविद्यामें जो प्रतिबिम्ब है तिसका नाम जीव है “ जीवेशावाभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति ” । वह मूल प्रकृति जीव ईश्वरको अपनेमें आभास करके कर देती है और आपही माया और अविद्यारूप भी हो जाती है यही श्रुति जीवेश्वरकी सिद्धिमें प्रमाण है और एक ही प्रकृतिमें सत्त्व गुणकी शुद्धि अशुद्धिसे माया अविद्याका भेद भी कल्पना किया है ॥ २ ॥

अब अपरमतसे कहते हैं:—

एक ही मूलप्रकृति विक्षेप प्रधानतासे माया और आवरण शक्ति प्रधानतासे अविद्या कही जाती है । माया ईश्वरकी उपाधि है और अविद्या जीवकी उपाधि है और विवरूप साधारण चेतनके वह आश्रित भी है, तथापि ‘ अज्ञोह ’ ऐसा जीवको ही अनुभव होता है । ईश्वरको नहीं होता । क्योंकि जीवकी उपाधिमें ही आवरणविक्षेप शक्ति है ईश्वरकी उपाधिमें वह नहीं है इसलिये ईश्वरको ‘ अज्ञोहम् ’ ऐसा नहीं होता है । इस मतमें आवरण विक्षेप शक्तिका भेद कल्पना करके जीव ईश्वरका भेद माना है ॥ ३ ॥

अब संक्षेपसे शारीरकारके मतको दिखलाते हैं:—

वह कहता है “ कार्योपाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ” कार्योपाधिवाला जीव है कारणोपाधिवाला ईश्वर है । इस श्रुतिके अनुसार अविद्यामें प्रतिबिम्बका

नाम ईश्वर है और अविद्याका कार्य्य जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिबिम्बका नाम जीव है और जहांपर बिंब एक हो, वहांपर उपाधिके भेदसे बिना प्रतिबिम्बका भेद नहीं बनता है । इसलिये ईश्वरकी उपाधि अविद्या भिन्न है और जीवकी उपाधि अन्तःकरण भिन्न है । दोनों उपाधियोंके भेद होनेसे जीव ईश्वरका भेद है, अविद्या एक है, इसलिये ईश्वर भी एक है । अन्तःकरण अनन्त हैं जीव भी अनन्त हैं, अविद्याका सम्बन्ध ईश्वरके साथ है, अन्तःकरणका संबन्ध जीवके साथ है । जैसे घटकरके आकाशका अवच्छेद मानते हैं, तैसे यदि अन्तःकरण करके चेतनका अवच्छेद माना जावेगा तब दोष आवेगा सो दिखाते हैं । इस लोकमें ब्राह्मणजाति ब्राह्मणादि शरीरमें गत जो अन्तःकरण, तदवच्छिन्न जो चेतन प्रदेश है, सो तो कर्मोंका कर्ता होगा और परलोकमें देवादिशरीरमें जो अन्तःकरण तदवच्छिन्न चेतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि इस लोकमें अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन प्रदेश कर्मोंका कर्ता था वह तो भोक्ता नहीं होगा, क्योंकि वह परलोकमें देवादिशरीरमें नहीं है और जो देवादिशरीरमें अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन प्रदेश है, वह इस लोकमें नहीं है, वह कर्ता न हुआ तब अन्य करके किये हुए कर्मोंका फल अन्य ही भोगेगा । यही अवच्छेदवादमे दोष आता है, इसी हेतुसे अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन जीव नहीं होसक्ता है, किन्तु अन्तःकरणमें जो कि चेतनका प्रतिबिम्ब है वह जीव होसक्ता है । घटरूप उपाधिके गमना-गमन होनेपर भी जैसे तिस घटरूप उपाधिमें एकही सूर्य्यका प्रतिबिम्ब सर्वत्र उसी घटमें पडता है, प्रतिबिम्बका भेद नहीं होता है, तैसे अन्तःकरणरूपी उपाधिके गमनाऽगमन होनेपर भी एकही चेतनका प्रतिबिम्ब तिसमें पडता है । तब जो कर्ता होगा वही भोक्ता भी होगा, कोई भी दोष नहीं आवेगा ॥ १॥

अब अवच्छेदवादीके मतको दिखाते हैं:—

अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनका नाम जीव है, अन्तःकरणानवच्छिन्न चेतनका नाम ईश्वर है, इस मतमें कोई भी दोष नहीं आता है, किन्तु प्रतिबिम्बवादमें ही दोष आता है सो दिखाते हैं । जैसे जलसे बाहर आकाशमें स्थित जो सूर्य्य है तिसीका प्रतिबिम्ब जलमें पडता है । तैसे उपाधियोंसे बाहर स्थित चेतनका

भी प्रतिबिम्ब उपाधियोंमें मानना पड़ेगा तब ब्रह्माडसे बाहर कहीं स्थित चेतन सिद्ध होगा । ब्रह्माडके अन्तर्गत नहीं सिद्ध होगा । तब फिर चेतन भी परिच्छिन्न होजायगा परिच्छिन्न होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, किंतु विनाशी सिद्ध होगा । एक तो प्रतिबिम्बवादमे यह दोष आवेगा, दूसरा व्यापक चेतन निरवयव निराकारक प्रतिबिंब कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा देखनेमे आता है कि जलसे बहिर्गत मेघाकाशका जलमें प्रतिबिम्ब पडता है, जलगत आकाशका जलमें प्रतिबिंब नहीं पडता है । तैसेही ब्रह्माडके बहिर्गत चेतनका ही प्रतिबिंब भी मानना होगा । ब्रह्माडके अन्तर्गत चेतनका तो नहीं मानना होगा, तब फिर 'विज्ञाने तिष्ठन्' जो विज्ञानके अन्तरस्थित होकर प्रेरणा करता है इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध भी जरूर आवेगा और ईश्वर भी ब्रह्माडसे बाहर सिद्ध होगा इसी हेतुसे प्रतिबिंबवाद असंगत है । यदि उपाधिके अन्तर्गतका भी प्रतिबिम्ब माना जावेगा तब जसे जलसे बहिर्गत मुखका जलमें प्रतिबिम्ब पडता है, तैसे जलके अन्तर्गत मुखका भी जलमे प्रतिबिम्ब पडना चाहिये सो तो देखनेमें नहीं आता है । और जैसे जलसे बहिर्गत मुखका प्रतिबिम्ब पडता है, तैसे अन्तःकरणसे बहिर्गत चेतनका भी प्रतिबिंब अन्तःकरणमें कहना होगा । तब भी पूर्वोक्त श्रुतिसे विरोध बनाही रहेगा । और जो वादीने अवच्छेदवादमे कर्ता भिन्न भोक्ता भिन्न होजानेका दोष दिया है वह दोष प्रतिबिम्बवादमें तुल्यही लगता है। तथाहि यदि सम्पूर्ण अन्तःकरणोंमें ब्रह्माडसे बहिर्गत अर्थात् व्यवहित चेतनका प्रतिबिंब माना जावे तब तो इस लोक परलोकमें प्रतिबिंबका भेद सिद्ध नहीं होगा । तथापि एक तो ब्रह्माडके बहिर्गत समग्र चेतनका अन्तःकरणमें प्रतिबिम्ब किसी प्रकारसे भी नहीं पडसक्ता है और न तिसके एकही देशका प्रतिबिम्ब पडसक्ता है । क्योंकि ब्रह्माडसे बहिर्गत समग्र चेतनके साथ या तिसके एक देशके साथ अन्तःकरणकी सन्निधि नहीं है और विना सन्निधिके प्रतिबिंब पड नहीं सक्ता है। जैसे ब्रह्माडके बहिर्गत आकाशका जलमें प्रतिबिंब नहीं पडसक्ता है, तैसे ब्रह्माडसे बहिर्गत चेतनका भी प्रतिबिंब नहीं पडसक्ता है। यदि ब्रह्माडके अन्तर्गत अन्तःकरण सन्निहित चेतनका प्रतिबिंब अन्तःकरणमें मानोगे तब भी ब्रह्माडभरके अन्तर्गत चेतनका प्रतिबिंब अन्तःकरणमे नहीं मान

सकागे । क्योंकि ब्रह्मांडमरके चेतनकी अंतःकरणके साथ सन्निधि नहीं है, किन्तु ब्रह्मांडके अन्तर्गत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेशके साथ अंतःकरणकी सन्निधि होगी उसी चेतनके प्रदेशका प्रतिबिंब भी तुमको मानना पड़ेगा । तब फिर पूर्ववाला दोष लगाही रहेगा । अंतःकरणके गमनाऽऽगमन करनेसे विंबके भेदसे प्रतिबिंबका भेद भी अवश्य ही होगा, तब फिर कृतहानि अकृतकी प्राप्तिरूप दोष होगा । यदि प्रतिबिंबरूप जीवकी अन्तःकरणरूप उपाधिका त्याग करके अविद्याको जीवकी उपाधि मानोगे तब अविद्याका गमन बनेगा नहीं । तब इस लोक परलोकमें प्रतिबिंबका भेद भी सिद्ध नहीं होगा और प्रतिबिंबके भेदके न सिद्ध होनेसे पूर्वोक्त दोष भी नहीं आवैगा । सो अवच्छेदवादमें हम भी अविद्या अवच्छिन्न चेतनको ही जीव मान लेवेंगे । हमारे मतमें भी अविद्याके गमनागमनके अभाव होनेसे चेतनका भेद नहीं होगा, चेतनके भेदका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोष भी नहीं आवैगा । इन्ही हेतुओंसे प्रतिबिंबका निषेध करके अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनको ही जीव माना है और अन्तःकरण अनवच्छिन्न चेतनको तिसने ईश्वर माना है ॥ ५ ॥

अब औरके मतको दिखाते हैं—

अन्य कोई कहता है प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवादमें श्रुतिका विरोध दूर नहीं होता है । श्रुति कहती है जो जीवात्माके अन्तःस्थित होकर जीवात्माको प्रेरणा करता है सोई ईश्वर है । सो जीवात्माके अन्तःस्थित होना ही प्रथम ईश्वरके नहीं बनता है सो दिखाते हैं । अवच्छेदवादमें अंतःकरणके भीतर जो चेतन आगया है, उसीको जीव माना है और अंतःकरणके बाहर जो चेतन है उसको ईश्वर माना है । अब इस मतमें अंतःकरणके अंतर ईश्वर है नहीं तब जीवको प्रेरणा कैसे करेगा और तिसके कर्मोंको कैसे जानेगा । यदि कहो वह ईश्वर चेतन व्यापक है तिसके भीतर भी रहेगा बाहर भी रहेगा सो नहीं बनता । निरवयव निराकार दो पदार्थ, एक स्थानमे नहीं रह सक्ते हैं जो रहेंगे तब वह उपाधि करके परिच्छिन्न होजायेंगे । परिच्छिन्न होनेसे वह जीव ही होगा सो परिच्छेदवाला जीव तो तुमने पहले ही मान लिया है । दो जीव

एक अन्तःकरणमें तुमने भी माने नहीं हैं और न जीव ईश्वर दोनों उपाधि अन्तःकरण होसक्ता है, इसी युक्तिसे श्रुतिका विरोध बनाही रहेगा फिर यही दोष प्रतिबिम्बवादमें भी होगा । पूर्वोक्त मतमें अविद्यामें प्रतिबिम्बको ईश्वर माना है और अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बको जीव माना है। वहां अविद्यामें जो प्रतिबिम्ब है, जब अन्तःकरणमें नहीं है और प्रतिबिम्बका प्रतिबिम्ब बनता नहीं, तब प्रतिबिम्बवादमें भी जीवके अन्तर्गत ईश्वर न रहा तिस मतमें भी दोष बराबर ही लगा रहा । और प्रकटार्थकरके मतमें भी यही दोष लगाही रहेगा । क्योंकि उसने भी मायामें प्रतिबिम्बको ईश्वर माना है और मायाके प्रदेशोंमें चेतनके प्रतिबिम्बको जीव माना है । अब इस मतमें भी मायामें जो प्रतिबिम्ब वह मायाके प्रदेशोंमें नहीं है और जो आवरण विक्षेप शक्तिवाले प्रदेशोंमें प्रतिबिम्ब है मायामें वह नहीं है, तब भी जीवके अन्तर्गत ईश्वर सावित न हुआ और दो प्रतिबिम्ब एक उपाधिमें नहीं रह सक्ते हैं । यदि कहो जलमें सूर्य और आकाश तथा इतर वृक्षादिकोंका प्रतिबिम्ब एक ही जलरूप उपाधिमें देखते हैं सो दृष्टांत यहापर नहीं घटता है क्योंकि सूर्य और वृक्षादि सब भिन्न भिन्न सावयव पदार्थ हैं उनका प्रतिबिम्ब जलरूप उपाधिमें पड भी सक्ता है । परन्तु एकही आकाशके दो प्रतिबिम्ब एकही घटमें जैसे नहीं पडसक्ते हैं, नसे एकही चेतनके एकही उपाधिमें दो प्रतिबिम्ब नहीं पडसक्ते हैं । तब जीवके अन्तर्गत ईश्वर भी सिद्ध न हुआ और पूर्वोक्त दोष लगाही रहा । और जिसके मतमें एकही प्रकृतिके माया अविद्या दो भेद मानकर जीव ईश्वरका भेद सिद्ध भया उस मतमें भी मायामें जो प्रतिबिम्ब है वह अविद्यामें नहीं है । अविद्यामें भिन्न है, मायामें भिन्न है। इस मतमें भी जीवके अन्तर्गत ईश्वर सिद्ध नहीं होता है, श्रुति-विरोध इस मतमें भी हट नहीं सक्ता है । सांख्यमतवालोंने ईश्वरको नहीं माना है किन्तु जीवको ही चेतनरूप करके व्यापक माना है अर्थात् इनके मतमें ब्रह्माण्ड भरके जीव व्यापक हैं और चेतनरूप हैं, असंग हैं निराकार निरवयव हैं, जीवकता नहीं भोक्ता है कर्त्री प्रकृति है । इनके मतमें एक तो यह दोष पडता है जो जड प्रकृतिको कर्तृत्वपना नहीं बनता है । यदि जडको कर्ता माना जायै तब सृष्टिका अप ही घटको बनालेगी घटके बनानेके लिये कुलालकी आवश्यक

कृता नहीं होगी । दूसरा निरवयव निराकार अनेक विभु एक देशमें रह नहीं सके हैं । इन दोनोंमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है । और नैयायिक जीव और ईश्वर दोनोंको विभु और जड मानता है, चेतनता उनका गुण मानता है । इसके मतमें भी एक तो वही दोष आवैगा जो बहुतसे विभु एक देशमें नहीं रह सके हैं । यदि मानेंगे तब कर्मोंका संकर होजायगा और जीवोंके कर्म ईश्वरमें भी जा रहेंगे । क्योंकि दोनों निराकार व्यापक हैं । भेदक तो कोई ईश्वर जीवके अन्तरमें नहीं है । दोनोंको निराकार होनेसे दोनों एक ही होजायेंगे तब जीव ईश्वरकी कल्पना भी इनकी मिथ्या होजायगी । फिर जड निराकार हो भी नहीं सक्ता है । यदि मानेंगे तब शून्यवाद ही सिद्ध होगा और जडका धर्म चेतनता भी नहीं होसक्ती है । इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं मिलता है इसलिये इनका मत श्रुतियुक्तिसे विरुद्ध होनेसे असंगत है । वैष्णव और आचारी लोक जीवात्माको निरवयव और अणु परिमाणवाला मानते हैं और चेतन भी मानते हैं । चेतन निरवयव विना उपाधिके अणु परिमाणवाला नहीं होसक्ता है और फिर केवल चेतनमें चेतन रह भी नहीं सक्ता है । इस मतमें भी ईश्वरको प्रेरणा करनी जीवको नहीं बनती है । इसी तरह और भी मतोंवालोंने अपने ईश्वर भिन्न २ माने हैं और फिर भिन्न उनके लोक माने हैं । उन सबके मत तो सर्वथा श्रुति युक्ति विरुद्ध हो त्यागने योग्य हैं । पूर्व जो मत दिखाये हैं उनको यदि सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तब उन सब मतोंमें जीव-ईश्वरका भेद सिद्ध नहीं होता है । इसीसे यह वार्ता भी साबित होती है जो भेद कल्पित है, वास्तवसे अभेद ही है । अब अपने मतको दिखाते हैं । न तो प्रतिबिम्बरूप जीव है और न अवच्छेदरूपही जीव है, किंतु जैसे कर्मको सूतपुत्र भ्रम हुआ था जो मैं सूतपुत्र हूँ और अपनेको सूतपुत्र करके ही मानता था और वास्तवसे वह सूतपुत्र नहीं था, तैसे अवच्छेद और प्रतिबिम्ब भावसे रहित ब्रह्मको अनादि अविद्याके सम्बन्धसे अपनेमें जीवत्वका भ्रम हुआ है और अपनी अविद्या करके जीवभावको प्राप्त जो ब्रह्म है, उसने सर्व प्रपंचकी कल्पना की है अर्थात् यही ब्रह्म ही सर्व प्रपंचकी कल्पना करनेवाला है । जैसे और संपूर्ण जगत्की तिसने कल्पना की है, तैसे सर्वज्ञत्वादि धर्मोंवाले ईश्वरकी कल्पना भी

तिसी जीवने ही माँ है अर्थात् ईश्वर भी जीव करके ही कल्पित है जैसे स्वप्नमें जीव सर्वज्ञत्वादिक गुणों करके विशिष्ट ईश्वरकी कल्पना करके तिसकी उपासनाको कर्ता है और कल्पित उपासनाके कल्पित फलको भी प्राप्त होता है, तैसे जाग्रतमें भी जीव ईश्वरकी कल्पना करके तिसकी उपासना करके कल्पित फलको प्राप्त होता है । वास्तवसे जीवत्व ईश्वरत्व दोनों धर्म चेतनमे कल्पित हैं । एक चेतनमें धर्मही सत्य है ॥ ६ ॥

अब एक जीववाट और अनेक जीववादोंको दिखाते हैं:—

एक जीववादी कहता है एक ही शरीर सजीव है, बाकीके सब शरीर स्वप्नके शरीरोंकी तरह निर्जीव हैं; इसलिये जीव एकही है नाना जीव नहीं हैं ।

प्रश्न—जैसे एक शरीरमें हिताहित प्राप्ति परिहारार्थ चेष्टा प्रतीत होती है तैसे सपूर्ण शरीरोंमें भी हिताहित प्राप्ति परिहारार्थ चेष्टा प्रतीत होती है; इस-वास्ते ऐसा कथन नहीं बनता ह जो-एक ही शरीर सजीव है और बाकीके शरीर सब निर्जीव हैं ।

उत्तर--जैसे स्वप्नकालमें स्वप्नके द्रष्टाकी दृष्टिसे स्वप्नके कल्पेहुए जीव सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तवसे वह सब निर्जीव हैं तैसे जाग्रतके द्रष्टा करके कल्पेहुए जीवभी सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तवसे वह सब निर्जीव हैं । जैसे स्वप्नका कल्पक निद्रा है तैसे जाग्रतका कल्पक अज्ञान है । जैसे जबतक निद्रा नाश नहीं होती है तबतक स्वप्नका सर्व व्यवहार होता है तैसे जबतक आत्मज्ञान करके अज्ञानका नाश नहीं होता है, तबतक जाग्रतका भी सर्व व्यवहार होता है । जैसे स्वप्नसे जागा हुआ पुरुष स्वप्नरूप आतिसिद्ध अपर पुरुषकी मुक्तिको दूसरेके प्रति कथन करता है, तैसे जीवकी आतिसिद्ध शुकादिकोंकी मुक्तिको तिसके प्रति शास्त्रबोधन करता है, जैसे स्वप्नमें स्वप्नका द्रष्टा गुरु और ईश्वरकी कल्पना करके उनकी उपासनाको करता है और उनसे विद्या आदिक फलको प्राप्त होता है तैसे जाग्रतका द्रष्टा भी जाग्रतमें गुरु ईश्वरकी कल्पनाको करके उनसे आत्मविद्याको प्राप्त होकर मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

अब एक जीववादमें दूसरेके मतको दिखाते हैं:—

पूर्व जो एक जीववादीने कहा है, एक शरीर सजीव है अपर शरीर सब नेजीव है ऐसा तिसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह एक जीव एकही शरीरमें रहता है और शरीरोंमें नहीं रहता है। इस अर्थको सिद्ध करनेवाली कोई भी प्रबल युक्ति नहीं मिलती है और श्रुतियोंमें जीवसे भिन्न ईश्वरको सिद्ध किया है और तिसी ईश्वरको ही जगत्का कर्ता भी कहा है जीवको जगत्का कर्ता नहीं कहा है। किन्तु ब्रह्मका प्रतिबिम्बरूप हिरण्यगर्भ ही मुख्य एक जीव है और बिम्बरूप ब्रह्मको ईश्वर कहा है, सो जीवसे भिन्न करके माना है, वही हिरण्यगर्भ भौतिक प्रपञ्चका कर्ता माना है उसीको कारणोपाधि भी कहा है। तिसी हिरण्यगर्भ मुख्य एक जीवके अपर जीव सब प्रतिबिम्ब रूप भी हैं और जैसे पटपर लिखेहुए चित्रमें मनुष्योंके जो शरीर हैं, तिनपर दिये हुए जो पटाभास हैं उनके समान यह सब जीव भी जीवाभास रूप हैं और वह सब जीवाभास रूपही ससारी जीव हैं। जैसे हिरण्यगर्भका शरीर मुख्य जीव होनेसे सजीव है, तैसे अपर शरीर भी जीवाभास होनेसे सजीव हैं ॥ २ ॥

तीसरे एक जीववादीके मतको दिखाते हैं:—

पूर्व मतमें कहा है, कि, बिम्बरूप ईश्वर है, तिसका प्रतिबिम्बरूप हिरण्यगर्भ ही एक जीव है, अपर जीव सब तिसके प्रतिबिम्ब रूप हैं। प्रथमतो प्रतिबिम्बका प्रतिबिम्ब नहीं होसक्ता है, दूसरा हिरण्यगर्भका कल्प २ में भेद है, इससे यह वार्ता नहीं सिद्ध होती है जो किस हिरण्यगर्भका शरीर सजीव है और वही मुख्य जीव है और इसमें कोई निश्चित प्रमाण भी नहीं मिलता है। जो हिरण्यगर्भका शरीर मुख्य जीवसे सजीव है और अपर शरीर जीवाभासरूप जीवाभासोंसे सब सजीव हैं ये क्लिष्ट कल्पना है, किन्तु अविद्यामें जो कि त्रैलोक्यका प्रतिबिम्ब है सोई जीव है। अविद्याके एक होनेसे वह जीव भी एक ही है वह एकही जीव भोगके लिये सपूर्ण शरीरोंको आश्रयण करता है, तिसी एक एक जीवके प्रतिबिम्बरूप ही अपर सब जीव हैं। उन्हीं प्रतिबिम्बाभासरूप जीवोंसे अपर शरीर सब जीवाभासरूप हैं और एक जीवात्माको मुख्य असु-

स्वरूप करके जीवपनेकी कल्पना करना असगत है । जैसे देवदत्तको अपने एकही शरीरके अवयवरूपी शिरमें सुख भान होता है और पादमें दुःख भान होता है, तैसे एक ही जीवको सर्वशरीरोंमें अगीकार करनेसे देवदत्तके शरीरमें हमको सुख है यज्ञदत्तके शरीरमें हमको दुःख है इस प्रकार सर्व शरीरोंमें तिस एकही जीवको सुख दुःखका अनुभव होना चाहिये किन्तु होता नहीं है । तथापि शरीरका भेद सुख दुःखके अनुसन्धानका साधक है । जैसे प्रथम शरीरमें और उत्तर शरीरमें जीव एक है, तब भी प्रथम शरीरका याने पूर्व जन्म-वाले शरीरके सुख दुःखका अनुसन्धान होता नहीं तिसके अनुसन्धानका साधक शरीरका भेद है, तैसे ही सब शरीरोंमें जो सुख दुःखका अनुसन्धान है, तिसका साधक भी शरीरका भेद है ।

इस मतमें अनेक शरीरोंमें एक ही जीव अगीकार किया है:—

एक जीववादमें तीन मतोंको दिखादिया है, अब अनेक जीववादमें मतभेदको दिखाते हैं —

अनेक जीववादके प्रथम मतको दिखाते हैं.—

तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत् ॥ १ ॥

देवतोंमेंसे जिस २ ने ब्रह्मको जाना सो २ ब्रह्मरूप ही होगया । इत्यादि श्रुतियोंने जीवके भेदसे बद्ध और मुक्तकी व्यवस्था कही है । सो इस रीतिसे एकजीववादमें बद्ध मुक्तकी व्यवस्था बनती नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है देवतोंमेंसे जिमने ब्रह्मका साक्षात्कार किया है वही ब्रह्मरूप हुआ है व जिसने नहीं किया वह ब्रह्मरूप नहीं हुआ । इसे श्रुतिने ज्ञानीको मोक्ष और अज्ञानीको बद्ध कहा है । यदि एकही जीव माना जावेगा तब यह बंधमोक्षकी व्यवस्था नहीं बनेगी । इस लिये अनेक जीववाद मानना चाहिये । जिस हेतुसे अन्तःकरण अनेक है इसी हेतुसे अन्तःकरण उपाधिवाले जीव भी अनेक हैं और अन्तःकरणोंका उपादान कारण जो मूल अज्ञान है वह एक है । वह अज्ञान शुद्ध ब्रह्मके ही आश्रित है और तिसको विषय करता है । तिस अज्ञानकी निवृत्तिका नाम ही मोक्ष है और वह मूल अज्ञान मात्र है, अर्थात् अज्ञानवाला

द्वितीय किरण ।

है निरंश नहीं है। और फिर वह अज्ञान अनिर्वचनीय है तिसके अंश भी अनिर्वचनीय हैं। अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अंश हैं। जिस अन्तःकरणरूपी अज्ञानके अंशमें ज्ञान उत्पन्न होता है उसी अंशकी निवृत्ति होती है, इतर अंशकी नहीं होती है ॥ १ ॥

अनेकजीववादमें अब दूसरे मतको दिखाते हे:-

जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे सम्बन्ध है सोई बंध है और अज्ञानके सम्बन्धके नाशका नाम ही मुक्ति है। अज्ञानकी निवृत्तिका नाम मुक्ति नहीं है। केवल अज्ञानके सम्बन्धाभाव मात्रसे ही बन्धकी निवृत्ति होसکتی है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तब मूल अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होनेसे, जैसे अग्निसे सम्बन्धसे तूलका पिंड समग्र जलजाता है तैसे ज्ञानके सम्बन्धसे समग्र अज्ञान भी मस्र होजावैगा तब फिर बंध मोक्षकी व्यवस्था भी नहीं बनैगी। इन पूर्वोक्त युक्तियोंसे जीव नहीं सिद्ध होते हैं, जीव एक नहीं है ॥ २ ॥

अनेकजीववादमें अब तीसरे मतको दिखाते हे:-

और कोई कहता है "अहमज्ञं ब्रह्म न जानामि" में अज्ञ हूँ ब्रह्मको मैं नहीं जानता हूँ। इस अनुभवसे यह सिद्ध होता है कि, जीव ही अज्ञानका आश्रय है, विषय नहीं है। और शुद्ध ब्रह्म अज्ञानका विषय है, आश्रय नहीं है, और अज्ञानके अंशरूप अन्तःकरण अनन्त है, इसलिये तिनमे प्रतिबिम्बरूप जीव भी अनेक हैं। जैसे एक ही जाति अनेक व्यक्तियोंमें रहती है, तैसे एक ही अज्ञान अनेक जीवोंमें रहता है। जिस अन्तःकरणमें ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, ज्ञानकरके तिसी अन्तःकरणकी निवृत्ति होती है। अन्तःकरणकी निवृत्ति होनेपर प्रतिबिम्बकी भी निवृत्ति होजाती है, अर्थात् अपने बिम्बमें प्रतिबिम्ब लय होजाता है। प्रतिबिम्बके निवृत्त होनेके समकालमें ही अज्ञान भी तिस उपाधिको त्याग देता है वही मोक्ष है। "जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः" यह श्रुति भी इसमें प्रमाण है, इस पक्षमें अज्ञानका सम्बन्ध ही बंध है, तिसकी निवृत्ति मोक्ष है ॥ ३ ॥

अनेकजीववादमें अब चतुर्थ मतको दिखाते हे:-

अविद्या अनेक हैं, तदुपाधिक जीव भी अनेक हैं जिस जीवकी आत्मविद्याकरके अविद्या निवृत्त होजाती है, वही मुक्त होजाता है । जिसकी अविद्या निवृत्त नहीं होती है तिसको बन्ध बनाही रहता है और अविद्याका नाश होनेपर तिसके नाशके सस्कार बाकी बने रहते हैं। इसलिये जीवन्मुक्ति भी बनजाती है । विदेहमुक्तिमें वह सस्कार भी नाश होजाते हैं । इस मतमें अज्ञानकी निवृत्तिका नामही मोक्ष है अज्ञानके असबन्धका नाम मोक्ष नहीं है, और ज्ञानके अनेक होनेमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । क्योंकि प्रत्येक जीवको 'अज्ञोहं' ऐसा होता है और सबमे अज्ञानके अनेक अंश हैं । अज्ञान एक है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखते हैं, इसलिये अज्ञान एकही है ॥ ४ ॥

प्रश्न—अनेक जीववादमें हम पूछते हैं, एक जीवकी अविद्यासे यह प्रपंच रचा गया है, या सपूर्ण जीवोंकी अविद्यासे यह प्रपंच रचा गया है ?

उत्तर—कोई तो ऐसा कहते हैं, जैसे अनेक तन्तुओंसे एक पट रचित है, तैसें सब जीवोंकी सपूर्ण अविद्याका परिणाम प्रपंच है । अथवा सपूर्ण अविद्याका विषय जो ब्रह्म है तिसका विवर्त प्रपंच है । जैसे एक तनुके नाश होजानेसे पटका नाश नहीं होता है, तैसे एकके मुक्त होजानेसे तिसकी अविद्याका नाश होनेपर भी तत्साधारण प्रपंचका भी नाश नहीं होता है । एक तनुके नाशकालमे विद्यमान अपर तनुओंसे अपर पटकी तरह अपर सर्व जीवोंकी सर्व अविद्यासे साधारण प्रपंच बना रहता है । इस मतमें सपूर्ण जीवोंकी सर्व अविद्याका प्रपंच एक माना है ॥ १ ॥

अब इसी विषयमें दूसरे मतको दिखाते हैं —

सपूर्ण अविद्याओंका कार्य्य जो प्रपंच है, सो अविद्याके भेदसे प्रत्येक जीवके प्रति प्रपंच भिन्न २ है और स्व स्व अविद्याकृत गगनादि प्रपंच भी जीव २ का भिन्न २ है यद्यपि जहांपर एक कालमें बहुतसे पुरुषोंको श्रुतिमें रजतका भ्रम हुआ वहापर सर्व पुरुषोंके सर्व अज्ञानोंसे एक २ जनकी उत्पत्ति बनती है । इससे तो यह साबित हुआ कि जीव २ के अज्ञानके भेदसे अज्ञानकृत रजतका भेद भी कहना बनता है । तथापि तहांपर दैवयोगसे एक पुरुषको श्रुतिके

ज्ञान सहित अज्ञान उपादान रजतका नाश होनेपर भी अपर पुरुषको रजत भ्रम बनाही रहता है । इस हेतुसे वहांपर रजतका भेद अवश्यही मानना पडेगा । जैसे शुक्तिके अज्ञानसे शुक्ति रजतका भेद है अर्थात् अपनी रजत भिन्न २, शुक्तिके अज्ञानसे जैसे रची हुई है तैसे जीव २ का प्रपंच भी अपना २ भिन्न २ ही रचा हुआ है, किंतु एक नहीं है । और एक पुरुषसे दूसरा पुरुष वहांपर कहता है कि, शुक्ति रजतमें जो रजत तुमने देखा है वही रजत हमने भी देखा है यह प्रतीति भी भ्रममात्र है । तैसे जो घट तुमने देखा है सोई घट हमने भी देखा है यह प्रतीति भी भ्रममात्र है । इस मतमें सपूर्ण अविद्याओंका कार्य्य प्रपंचको मान करके भी भिन्न २ ही प्रपंचको माना है ॥२॥

अब इसी विषयमे तीसरे मतको दिखाते हैं:—

गंगनादि प्रपंच जीवकी अविद्याका परिणाम नहीं है, किंतु जीवाश्रित जो अविद्या तिस अविद्याके समूहसे भिन्न जो माया सो सर्व जीवोंके साधारण प्रपंचका परिणामी उपादान है, सो माया ईश्वरके आश्रित है और तिस मायाका कार्य्य प्रपंच भी एक ही है इसीसे एकत्व प्रतीति सबकी भ्रमरूप एकही है “माया च अविद्या च मायिनं तु महेश्वरम्” इस श्रुतिसे अविद्यासे भिन्न ईश्वराश्रित माया प्रतीत होती है और जीवोंकी अविद्याका आवरण मात्रमें और शुक्ति रजतादिक प्रातिमासिक विक्षेपमें उपयोग है । इस मतमें गंगनादि प्रपंचको ईश्वराश्रित मायाका कार्य्य मानकर सर्व जीवोंका साधारण प्रपंच माना है ॥ ३ ॥

जीवन्मुक्तिका विचार:—

अविद्यामें आवरण विक्षेप दो शक्तिये हैं । ब्रह्मज्ञान करके आवरण शक्तिका नाश होता है, विक्षेपशक्तिमान् मूल अज्ञानका नाश नहीं होता है । प्रारब्ध कर्मरूप प्रतिबंधके नाश होनेसे आवरण रहित चेतनसे विक्षेपशक्तिमान् अविद्याका नाश होता है । इस मतसे विक्षेपशक्तिमान् अविद्याको ही अविद्याका लेश माना है । तिस लेशकी निवृत्ति वृत्तिके संस्कारोंके सहित चेतनस मोक्षी है ॥ १ ॥

और कोई कहता है कि, जसे लज्जुनके वासनके धोनेसे भी तिसमे लज्जुनकी वास रहजाती है तैसे तत्त्वबोधसे अतःकरणका उपादानकारण जो अविद्या तिसका निवृत्ति होनेपर भी अविद्याजन्य देहादिकोंकी स्थितिका कारण कोई वासना विशेष रहजाती है उसीका नाम लेश अविद्या है । तिसी लेश अविद्या करके देहादिकोंकी प्रतीति जीवन्मुक्तकी बनी रहती है ॥ २ ॥

और कोई कहता है, जैसे दग्धपटमे स्वकार्य करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती है तैसे तत्त्वज्ञान करके बाधित दृढकार्य करनेमे असमर्थ जो मूल अविद्या सोई लेश कहलाती है ॥ ३ ॥

और कोई कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारके उदय होनेसे लेश अविद्या भी नहीं रहती है, ब्रह्म साक्षात्कारके उदय मात्रसे कार्यसहित वासनासहित अविद्याकी निवृत्ति होजाती है । जीवन्मुक्तिका बाधक जो शास्त्र सो श्रवणविधिका अर्थवादमात्र है । जीवन्मुक्तिमें तिसका तात्पर्य नहीं है किन्तु श्रवणकी प्रवृत्तिमे तिसका तात्पर्य है ॥ ४ ॥

प्रश्न—ज्ञानके उदय कालमे और उपाधिके लयकालमे जीवत्वभावसे रहित जो आत्मा है तिसका ईश्वरसे अभेद होता है, अथवा शुद्ध ब्रह्मसे अभेद होता है ?

उत्तर—एक जीववादीका तो इसमे यह मत है कि, एकही जीव है और मूल अज्ञान भी एकही है तिस जीवको जिस किसी अन्तःकरणमें ज्ञानका उदय होनेसे कार्यसहित अज्ञानका तिसी क्षणमें बाध होता है, अज्ञानके बाध होनेपर निर्विशेष चैतन्यरूपसे अवस्थानका नाम ही मुक्ति है इस मतमें शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्तिका नाम ही मुक्ति है ॥ १ ॥

और जो प्रतिविवकोही जीव ईश्वररूप करके मानता है तिसका यह मत है । अनेक उपाधियोंमे एकका प्रतिविम्ब होनेपर जिस उपाधिका नाश होता है तिसका प्रतिविम्ब अपने विम्बरूपसे स्थित होजाता है दूसरे प्रतिविम्बसे तिसका अभेद होता नहीं किन्तु अपने विम्बसेही तिसका अभेद होता है । इस मतमें भी मुक्तपुरुषका शुद्ध ब्रह्मसेही अभेद होता है ॥ २ ॥

अब जीवप्रतिबिम्बवादीके मतसे कहते हैं—

जैसे अनेक दर्पणोंमें एक मुखका प्रतिबिम्ब होनेपर भी जब कि, एक दर्पण नष्ट होजाता है तब तिसका प्रतिबिम्ब बिम्बरूपसे स्थिर होजाता है । मुखमात्र रूपसे स्थित नहीं होता है, किन्तु तिस कालमें अपर दर्पणोंकी समीपतासे मुखके प्रतिबिम्बत्वका अभाव होता नहीं है, तैसे एक ब्रह्म चेतनका अनेक उपाधियोंमें प्रतिबिम्ब होनेपर भी एक उपाधिमें आत्मज्ञानके उदयकालमें तिस उपाधिका बाध होनेसे तिसके प्रतिबिम्बका सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर सत्यका-गादि गुणोवाले विम्बरूपसे तिसका अमेद होजाता है । यद्यपि अविद्याके अभाव होनेसे सत्यकामादि गुणविशिष्टकी प्राप्ति संभव भी नहीं है और ईश्वरका ईश्वरत्व और सत्यकामादि गुणविशिष्टत्व स्वअविद्याकृत नहीं है, किन्तु बद्ध पुरुषकी अविद्याकृत है इसलिये सत्यकामादि गुणोंका कथन भी बन जाता है ॥ ३ ॥

चित्तवृत्ति कहती है:—हे विवेकाश्रम ! एक वेदांतमें आपने बहुतसे मत कहे हैं और हरएक मतवालोंने जीव ईश्वरका स्वरूप भिन्न २ तरहका माना है और मुक्तिमें भी कुछ फरक माना है, तब किसका मत ठीक है और किसका ठीक नहीं है और किसके मतमें विश्वास करनेसे कल्याण होता है ? विवेकाश्रम कहते हैं—हे चित्तवृत्ते ! सबके ही मत ठीक हैं, क्योंकि सबका तात्पर्य आत्म-बोधमें है । अपनेको ब्रह्मरूप निश्चय करनेसे पुरुषका कल्याण होता है । सो सबका तात्पर्य जीवको ही ब्रह्मरूप कथन करनेमें है । किसी मतसे तुम अपनेको ब्रह्मरूप निश्चय करलेओ सो कहा भी है:—

यया यया भवेत्पुसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ।

सा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया सर्वात्मना बुधैः ॥ १ ॥

जिस रीतिसे पुरुषको प्रत्यगात्माका बोध हो वही साध्वी प्रक्रिया तिसके लिये बुद्धिमानोंको जानने योग्य है ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! पूर्वोक्त सर्वमतोंका तात्पर्य अद्वैत आत्माके बोधमें है, वह बोध किसी रीतिसे हो वही रीति उत्तम है । बिना अद्वैत बोधके कदापि मुक्ति नहीं होती है । और जितने भेदवादी मत हैं, यह सब बन्धनमें फँसानेवाले हैं, छुड़ानेवाले नहीं हैं । इसलिये भेदवादियोंका संग भी मोक्षका विरोधी है ।

मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति-न ग्रामान्तरमेव वा ।

अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १ ॥

किसी देशमें मोक्षका वास नहीं है न किसी ग्रामके भीतर मोक्षका वास है किंतु हृदयमें जो अज्ञानकी ग्रन्थि है तिसके नाशका नामही मोक्ष है ॥ १ ॥

अनात्मभूते देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम् ।

साऽविद्या तत्कृतो बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ॥ २ ॥

अनात्मरूप जो देहादिक हैं उनमें जो जीवोंकी आत्मबुद्धि है उसीका नाम अविद्या है तिस अविद्याकृत ही बन्ध है, तिसके नाशका नाम मोक्ष है ॥२॥

कामानां हृदये वासः संसार इति कौर्तितः ।

तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥ ३ ॥

कामनाओंका जो हृदयमें निवास है तिसका नाम संसार है । उन कामनाओंका जो सर्वरूपसे नाश होजाना है, तिसीका नाम मोक्ष है ॥ ३ ॥

हे चित्तवृत्ते ! और सब मतवालोंकी मुक्ति अनित्य है, क्योंकि वह सब मोक्षावस्थामें भी भेद मानते हैं और लोकातरकी प्राप्तिको वह मोक्ष मानते हैं । इसीसे उनकी मुक्ति वेदविरुद्ध भी है और अनित्य भी है और वेदमें कहीं भी मुक्तका पुनरागमन नहीं लिखा है सो दिखाते हैं ।

व्याससूत्रम्:-

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ १ ॥

श्रुतिमें मुक्तकी अनावृत्ति कही है “नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्तते” मुक्तहुआ पुरुष फिर हटकरके संसारमें नहीं आता है, फिर हटकरके संसारमें नहीं आता है ॥ १ ॥ गीतायामपि-

यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ।

जिस प्रदको प्राप्त होकर फिर लौटकर नहीं आता है, वही मेरा परम स्थल है । सांख्यसूत्रम्:-

न मुक्तस्य पुनर्वययोगोपि अनावृत्तिश्रुतेः ।

मुक्त पुरुषको फिर बंधका सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि प्रतियोगमें अनावृत्ति शब्द श्रवण किया है ॥

यदा सर्वे अभिव्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥ १ ॥

जिस कालमें विद्वान्के हृदयकी ग्रथियां सब भेदन होजाती हैं, इससे अनंतर वह अमृत अर्थात् मोक्ष होजाता है, यही वेदका अनुशासन है ॥ १ ॥

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः ।

क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ॥ १ ॥

...इको जानकर सपूर्ण पाशोंसे छूट जाता है, अविद्या आदिक क्लेशोंके नाश होनेसे जन्म मरणसे छूट जाता है ॥ १ ॥

हे चित्तवृत्ते ! मुक्त पुरुषका पुनरागमन किसी प्रकारसे भी नहीं होता है, क्योंकि अनेक श्रुतिये इसमें प्रमाण हैं । उनमेंसे कुछ पीछे दिखाई और अब युक्तिसे भी दिखाते हैं—मुक्त होजानेपर कोई कर्मोंका संस्कार बाकी रहता है या नहीं रहता है ? यदि कही रहता है, तब मुक्त न हुआ, क्योंकि मुक्त नाम कर्मबन्धनसे छूटजानेका है, जिसके ज्ञानरूपी अग्नि करके सपूर्ण कर्मोंका नाश होजाय वही मुक्त कहाता है । जिसका कोई एक कर्म शेष रहजाय वह मुक्त नहीं कहाता है, क्योंकि जन्मका हेतु तो कर्म है, वह तो तिसका शेष बैठा है तब मुक्त कैसे होसका है, किन्तु कदापि नहीं होसता है । यदि कही मुक्त पुरुषका कोई कर्म शेष नहीं रहता है, अर्थात् कोई भी कर्मोंका संस्कार नहीं रहता है, तब फिर तिसका पुनरागमन नहीं बनता है । क्योंकि जन्मका हेतु जो कर्मोंका संस्कार वह तो तिसके बैठे हैं; फिर मुक्त कैसे होसता है किन्तु कदापि नहीं होसता है ।

चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! आपने पीछे आत्माको प्रकाशरूप कहा है और अज्ञानको तमरूप करके कहा है । जैसे प्रकाशरूप सूर्यमें तमरूप अंधकार किसी प्रकारसे भी नहीं रहसका है, तैसे प्रकाशरूप चेतनमें

भी अज्ञान नहीं रहसक्ता है तब फिर चेतनके आश्रित होकर कैसे अज्ञान रहता है मेरे इस संशयको तुम दूर करो । वैराग्याश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते ! यह शका भेदवादियोंकी है, जो भेदवादी ऐसी शकाको करते हैं, उनसे हम पूछते हैं ईश्वरको तो वह भी प्रकाशस्वरूप मानते हैं और जगत्को तमरूप करके मानते हैं । प्रकाशस्वरूप ईश्वरमें तमरूप जगत् कैसे रहसक्ता है ? फिर प्रकृतिको वह जड मानते हैं, जो जड होता है वही तमरूप भी होता है, वह प्रकृति तिस व्यापक चेतनमें कैसे उनके मतमें रहती है ? फिर शुद्ध ईश्वरमें वह इच्छादिक गुणोंको मानते हैं, शुद्धमें वह इच्छा आदिक गुण कैसे रहते हैं? यदि रहेंगे तब तिसकी शुद्धता न रहेगी और जीवके साथ गुणों करके तुल्यता भी होजायगी । क्योंकि जीवभी इच्छा आदिक गुणोवाला है फिर व्यापक प्रकाशस्वरूप चेतनमें अंधकाररूपी रात्रि कैसे रहती है ? यदि कहो तिस ईश्वरमें प्रकृति और जगत् तथा रात्रि नहीं रहती है तब ईश्वर व्यापक सिद्ध नहीं होगा, फिर उन भेदवादियोंका आत्मा भी चेतन है, शुद्ध है क्योंकि जो चेतन होता है वह शुद्धभी होता है तब फिर जिस कालमें तिसमें एक वस्तुका ज्ञान रहता है तिसकालमें इतर वस्तुओंका अज्ञानभी रहता है और ब्रह्माडके अन्तर्वर्ति करोड़ों पदार्थोंका अज्ञान सदैवकालमें तिसमें बना रहता है और यह तो आप कहही नहीं सक्ते हैं जो उसमें सपूर्ण पदार्थोंका ज्ञानही बना रहता है यदि ऐसे कहोगे तब तुमको सर्वज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है कि तुम्हारे आत्मामें अनन्त पदार्थोंका अज्ञान बैठा है, वह फिर कैसे रहता है ? और यदि कहो वह अज्ञान इस बाहरके तमकी तरह नहीं है तब हमारा अज्ञान भी बाहरी तमकी तरह नहीं है ! इससे धिलक्षण है । जैसे तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे चेतनमें रहता है तैसे हमारा अज्ञानभी चेतनके ही आश्रित रहता है । यदि कहो हमारा आत्मा शुद्ध नहीं, तब हम पूछते हैं कि, तुम्हारे आत्माको अशुद्ध किसने किया है । एक पदार्थ जो शुद्ध होता है सो दूसरे पदार्थके सम्बन्धसे अशुद्ध होजाता है, जैसे शुद्ध जल मलके सम्बन्धसे या किसी और दुर्गंधिवाले पदार्थके सम्बन्धसे अशुद्ध होसकता है क्योंकि वह दोनों सावयव पदार्थ हैं । आत्मा निरवयव निराकार तिसके साथ दूसरे मलिन पदार्थका सम्बन्धही किसी प्रकारसे नहीं बनता है । तब वह अशुद्ध कैसे,

होगया ? सावयवका निरवयवके साथ संयोग या समवाय कोई भी सम्बन्ध नहीं बनता है, क्योंकि संयोगसंबंध सावयव पदार्थोंकाही होता है सावयव निरवयवका संयोगसम्बन्ध किसी प्रकारसे भी नहीं होता है । फिर कार्यकारणका समवायसम्बन्ध होता है, सो चेतन किसी भी जडकार्यका उपादानकारण नहीं है और जड चेतनका कोई सम्बन्ध भी माना नहीं है, तब कैसे तुम्हारा आत्मा अशुद्ध होगया यदि कहो कर्मोंके संस्कार तिसमें रहते हैं इसीसे वह अशुद्ध होगया है, सोभी नहीं । क्योंकि बिना शरीरके केवल आत्मा कर्म कर्ताही नहीं है और लोकमें भी शरीरकोही कर्म करते सब कोई देखता है, आत्माको किसीने नहीं देखा और शरीरके किये हुए कर्म आत्माको लग भी नहीं सके हैं । क्योंकि ऐसा नियम है । यज्ञदत्तका कर्म देवदत्तको नहीं लगसक्ता है । यदि कहो शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेसे शरीरकरके करे हुए कर्म आत्मामें चलेजाते हैं, सोभी नहीं क्योंकि शरीरके साथ संयोगादि सम्बन्ध निरवयव चेतनके बनतेही नहीं हैं । यदि कहो कल्पित सम्बन्ध मानेंगे तब तुम्हारा मतही जाता रहेगा और फिर जैसे कल्पित सम्बन्ध शरीरका आत्माके साथ मानते हो ऐसेही तुमको कल्पित सम्बन्ध 'अज्ञानकाभी मानना पड़ेगा । यदि कहो आत्मा अशुद्ध नहीं है, भ्रांति करके अपनेको अशुद्ध मानता है तब उसी भ्रांतिको हम अज्ञान कहते हैं, फिर शुद्धको भ्रांति कैसे होगई और तिस भ्रांतिका स्वरूप क्या है ? यदि कहो वह भ्रांति अभाटि है और कुछ कही नहीं जाती है, तब फिर उसीको अनादि अनिर्घचनीय अज्ञान क्यों नहीं तुम मान लेते हो ? यदि प्रकाशस्वरूप आत्मा अज्ञानका विरोधी होता तब तुम्हारे आत्मामें अनेक पदार्थोंका अज्ञान और भ्रांति कैसे रहती ? और रहती है इसीसे सिद्ध होता है आत्मा अज्ञानका विरोधी नहीं है । जैसे जीवात्मा अज्ञानका विरोधी नहीं है, तैसे ईश्वरात्माभी अज्ञानका विरोधी नहीं है । क्योंकि समसत्ताक पदार्थ परस्पर विरोधी होते हैं, विपमसत्ताक पदार्थ परस्पर विरोधी नहीं होते हैं । जैसे एक अधिकरणमें समसत्तावाले अर्थात् व्यावहारिक सत्तावाले घट पट दो पदार्थ नहीं रहसक्ते हैं, जिस जगह पर घट रक्वा

रहेगा, उसी जगहमें पट नहीं रक्खा जाता है; किंतु उन जगहसे दूसरी जगहमें पट रक्खा जावेगा । परन्तु विपममत्तावाले दो पदार्थ एकही जगहमें रह जाते हैं जैसे व्यावहारिक श्रुक्तिमें प्रातिभासिक रजत रहती है । श्रुतिकी व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी प्रातिभासिक सत्ता है । फिर जेमे व्यावहारिक अन्तःकरणमें प्रातिभासिक स्वप्नके पदार्थ रहते हैं तैसेही पारमार्थिक सत्ता चेतनकी है। प्रातिभासिक सत्ता अज्ञानकी है, वह अज्ञानभी चेतनमें रहसत्ता है। क्योंकि चेतन अज्ञानका साधक है, बाधक नहीं है । जैसे सामान्य अग्नि सब काष्ठोंमें रहती है, परन्तु काष्ठका विरोधी नहीं है, अर्थात् काष्ठको जलाती नहीं है, किन्तु विशेष अग्नि जो कि प्रज्वलित हो रही है वही काष्ठोंको विरोधी है, तथा काष्ठोंको जला देती है । तैसे सामान्य चेतन भी किमीसा विरोधी नहीं है, किन्तु वृत्ति प्रतिविवित जो विशेष चेतन है, यही अज्ञानका विरोधी है अर्थात् अज्ञानका नाशक है । हे चित्तवृत्ते ! इस रीतिसे चेतनमें अज्ञान रहता है वह अज्ञान भी कल्पित ही है केवल चेतन ही नित्य है । और सदैवकाल एक रस अपनी महिमामें ज्योंका त्यों स्थित रहता है । चित्तवृत्ति कहती है—हे आत्मा ! तुम्हारे कृपादृष्टिसे और तुम्हारे अमृतरूपी वचनोको सुनकर मैं कृतार्थ होगई हू । अब मेरेको कुछ भी सदेह नहीं रहा है मैंने आपकी दयादृष्टिसे अपने आत्माको जान लिया है । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

दोहा ।

सँवत एक अरु नव पुनि, पञ्चहि नव पुनि आन ।

सिंह मास एकादशी, पूर्ण ग्रन्थ यह जान ॥ १ ॥


इति श्रीस्वामिहसदासशिष्येण स्वामिपरमानन्दसमाख्याधरेण विरचिते

ज्ञानवैराग्यप्रकाशनामकग्रन्थे ज्ञाननिरूपण नाम

द्वितीयः किरणः ॥ २ ॥

॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

विक्रय्यपुस्तकें (वेदान्तग्रन्थ-भाषा)



नाम.	कि. रु. आ.
अनुभवप्रकाश—(वेदांत) योगेश्वर श्री १०८ वनानाथजीकृत मारवाडी भाषा इसमें—गुरुकी महिमा, योगीकी प्रशंसा, सन्तोका प्रेमाव, मनकी चेतावनी, वेदान्तके पद, तत्त्वमस्यादि वाक्योंका सार, आसावरी, सोरठ, वसन्त, गूजरी आदि अनेक रागोंमें वर्णन क्रिया है. ०-१०	०-१०
अभिलाखसागर—भाषामे स्वामी अभिलाखदास उदासी कृत । इसमें वन्दनविचार, ग्रन्थविचार, मार्गविचार, भजनविचार, जडब्रह्म- विचार, चैतन्यब्रह्मविचार, निराकारब्रह्मविचार, मिथ्याब्रह्मविचार, अहंब्रह्मविचार, ब्रह्मविचार, वर्तमान ब्रह्मविचारादि विषय अच्छी रीतिसे वर्णित हे १-८	१-८
अध्यात्मप्रकाश—श्रीशुकदेवजीप्रणीत—कवित्त, दोहे, सोरठे, छन्द, चौपाई इत्यादिमे वेदान्तका अपूर्व ग्रन्थ है ०-३	०-३
अमृतधारा—वेदान्त भाषाछन्दोंमे भगवानदास निरजनीकृत वेदान्तकी प्रक्रिया छन्दोंमें लिखीगई है ०-१०	०-१०
आत्मपुराण—भाषामें दशोपनिषद्का भावार्थ श्रीमत्परमहंस पारंजाज- कान्चार्य चिदनानन्द स्वामीकृत. १२-०	१२-०
आनंदामृतवर्षिणी—आनंदगिरि स्वामीकृत—गीताके कठिन शब्दोंका प्रतिपादन-अर्थान् यह वेदांतका मूल है. ०-१२	०-१२
एकादशस्कन्ध—भाषामें चतुर्दासजी कृत भागवतके एकादशस्कन्धकी वेदांत रसमय कथा सुगम रीतिसे वर्णित है ०-१२	०-१२
भार्यगीताभाषा—श्रीकृष्णार्जुनसंवाद अत्यंत स्पष्टरीतिसे लिखा गया है ०-१	०-१
गुह्यनादभाषा—मितेस एनीवितेण्टकृत—फ्रिगेशन थियोसोफी भैरवी इत्यादिका सार ०-१॥	०-१॥

नाम.	कां. सं. आ.
चन्द्रावलीज्ञानोपमहासिधु—इस ग्रन्थमें वेदवेदान्तका सार मुमुक्षुओंके ज्ञानार्थ—राग रागिनियोंमें अच्छीप्रकार वर्णित है.... ०-६
जीवब्रह्मशतसागर—भाषा—इसमें ज्ञानकी अत्यन्त रोचक अनेक बातें है	०-३
तत्त्वानुसन्धान—भाषामें स्वामी चिद्धनानदकृत अर्थात् “अद्वैतचिन्ता-कौस्तुभ” यह ग्रथ आदिसे अन्ततक देखनेसे भलीप्रकार वेदान्तके छोटे बड़े ग्रथ आपही आप विचार सक्ते हैं २-८
दशोपनिषद्—भाषामें । स्वामी अच्युतानंदगिरिकृत दशोपनिषद्का सरल भाषामें मूल २ का उल्था किया गया है, मुमुक्षुओंको पढ़नेसे शीघ्र अध्यात्मबोध होता है २-०
पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश—(कामलीवाले बाबाजी कृत) इसमें चारवेद, षट्शास्त्रोंका सार और अठारहों पुराणोंकी कथा आदिका अध्यात्म विद्यापर अर्थ लिखागयाहै । आत्मज्ञानियोंको अत्यन्त उपयोगी है. २-१
प्रबोधचन्द्रोदयनाटक—(वेदात) भाषा गुलाबसिंहकृत—अतीव रोचक है. १-०
प्रत्येकानुभवशतक—भाषा—यह छोटासा ग्रथ पढ़नेसे वेदान्तमें अच्छा अनुभव सिद्ध होता है ०-४
ब्रह्मज्ञानदर्पण—(अर्थात् ज्ञानकी आरसी.) ०-२

सम्पूर्ण पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र अलग है भँगाकर देखिये ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीषेड्डेश्वर” स्टीम् प्रेस—बम्बई

